



॥ॐ नमः सद्गुरुदेवाय ॥

# अनाद्युये प्रश्न



लेखक :

परमपूज्य श्री परमहंस जी भहाराज का कृपाप्रसाद  
स्वामी अडगडानन्द

श्री परमहंस आश्रम

ग्राम-पोस्ट - शक्तेषगढ़, जिला - मिर्जापुर  
उत्तर प्रदेश, भारत

फोन- (05443) 222440



प्रकाशक :

श्री घरमहंस रवामी अडगडानन्दजी आश्रम ट्रस्ट  
मुम्बई - 400007

### प्रकाशक :

श्री परमहंस स्वामी अडगडानन्दजी आश्रम ट्रस्ट

29 ए, फ्रेंच रोड (मर्चेंट क्लव के सामने)

चौपाटी, मुंबई - 400 007

फोन - (022) 5655 5300

फैक्स - (091-22) 2364 3109

वेबसाइट - [www.yatharthgeeta.com](http://www.yatharthgeeta.com)

ईमेल - [contact@yatharthgeeta.com](mailto:contact@yatharthgeeta.com)

### ⑥ लेखक

संस्करण - महाशिवरात्रि, सन् 2003	- 2000	प्रतियाँ
- जून, सन् 2003	- 5000	प्रतियाँ
- ऑक्टोबर, सन् 2004	- 2000	प्रतियाँ
- जून, सन् 2005	- 2000	प्रतियाँ

मूल्य : 40.00

### मुद्रक :

प्रिया ग्राफिक्स

पृष्ठा - 72.



ਵਿਸ਼ਵ ਗੈਰਕ ਸਮਾਜ ਮੁਕਤੀ ਮੁਨਿਸਪਲੀ

# WORLD RELIGIOUS PARLIAMENT

(ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਸੰਸਦ)

C-121, KIRTI NAGAR, NEW DELHI - 110 015 (INDIA).

## ਵਿਸ਼ਵਗੈਰਕ ਸਮਾਨਪत੍ਰ

ਵੇਦਵੇਦਾਂਗ ਆਖੂਰੋਦ ਜਾਗੋਤਿਥਾਦਿ ਸ਼ਾਖਾਪਰਾਸੁਰਕਾਬ੍ਰਤੀ, ਅਖਿਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਾਵਾਦੀਸਥਾਨ—ਪ੍ਰਚਾਰ—  
ਪ੍ਰਸਾਰਪਕਥਾਦ ਆਰਥਿਕ ਸਾਹਮਣਾਤਨ ਮਹਾਂਦਾਨ ਪੱਧਤਿਸਦਾਚਾਰਪਾਠ, “ਸਰਭੂਤਹਿਤੇ ਰਤ:—ਬਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁਮ਼ਬਕਮ੍”  
ਕੇ ਸਦ੍ਭਾਵਨਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੇ ਓਤਪ੍ਰੋਤ,

ਸਮਾਨਨੀਧ ਸ਼੍ਰੀ — ਸ਼ਵਾਸੀ ਅਡਗਡਾ ਨਨਦ ਜੀ ਸਹਾਰਾਜ਼ — ਪਰਮਹੁਂਸਯਤਸ਼੍ਵਰ  
ਨਿਵਾਸੀ — ਪ੍ਰਾਕਤੇਸ਼ਗਢ ਨੁਨਾਰ (ਮਿਸ਼ਨਿਏਰ) ਕੇ

ਅਨਤਰਾ਷ਟੀਯ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਗੈਰਕ ਸਮਾਨਪਤ੍ਰ ਸੇ ਵਿਭੂਖਿਤ ਕਿਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ।

ਏਤਵੇਦਸਤਸਤ ਸਕਾਸਾਦਾਯਜਨਮਨः ।  
ਸਵਾਂ ਸਵਾਂ ਚਾਰਿਤ੍ਰ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਪ੍ਰਥਿਵਾਂ ਸਰਵਮਾਨਵਾ: ।

*World Religious Parliament is pleased to confer  
The Title of Vishwagaurav*

*In recognition of his meritorious contribution for World Development*

*through* ਸ਼੍ਰੀ ਸਫ਼ੁਮਗਵਦਗੀਤਾ, ਅਮਿਤਾਲਾ, (ਮਾਛਾਮਭਾਵਗੀਤਾ)  
ਮਿਨੀਕੁਮਾਰ ਮਿਲ ।੦-੪-੩੮ ਟੈਲੋ

ਸ਼੍ਰੀ ਸਫ਼ੁਮਗਵਦਗੀਤਾ

Chairman (ਜਾਗਰੂਕ)  
Presentation Committee

Acharya Prabhakar Mishra

Acharya Prabhakar Mishra  
Chairman  
World Religious Parliament

ਵੀਸਰਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮਹਾਕੁਮਭ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਹਹਿਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਸਤ ਸ਼ਾਂਕਰਾਚਾਰੀ, ਮਹਾਮਂਡਲੇਸ਼ਵਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾ  
ਸਭਾ ਔਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ੀਲ ਵਿਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀ ਕੋ “ਵਿਸ਼ਵਗੈਰਕ”  
ਸਮਾਨਪਤ੍ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਯਾ ਗਿਆ।





# WORLD RELIGIOUS PARLIAMENT

(विश्व धर्म संसद)

C-121, KIRTI NAGAR, NEW DELHI - 110 015 (INDIA).

## भारतगौरव सम्मानपत्र

वेदवेदांग आयुर्वेद ज्योतिषादि शास्त्रपरम्परासुरक्षाब्रती, अखिल संस्कृतवाद्यमयसंरक्षण—प्रचार—  
प्रसारपक्षधर आर्षसनातनमर्यादाजीवनपद्धतिसदाचारपरायण, “सर्वभूतहिते रतः—बसुधैव कुटुम्बकम्”  
के सद्भावना पर्यावरण से ओतप्रोत,

समाननीय श्री स्त्रामी अंडगाठानन्द जी महाराज  
निवासी \_\_\_\_\_ के

अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन में भारतगौरव सम्मानपत्र से विभूषित किया जाता है।

एतददेशप्रसूतस्य सकाशाद्याजनन्मनः ।  
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ।

*World Religious Parliament is pleased to confer  
The Title of Bharatgaurav*

*In recognition of his meritorious contribution for World Development  
through S.P.R.I.T.U.A.L. DisCourse*

विजयगमनकुमार  
Chairman जनसत्तापीया, रन्नटर्स  
Presentation Committee

प्रभाकर मिश्र  
Acharya Prabhakar Mishra  
Chairman  
World Religious Parliament

मानव मात्र का धर्मशास्त्र श्रीमद्भगवत गीता, की विशुद्ध व्याख्या “यथार्थ गीता” को धर्म संसद द्वारा दि. १०.४.९८ को महाकुम्भ के अवसर पर ‘भारतगौरव’ के सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया।





## विश्व धर्म संसद्

**WORLD RELIGIOUS PARLIAMENT**

C-121, KIRTI NAGAR, NEW DELHI 110 015 (INDIA)

### सम्मान प्रमाणपत्र

“शारीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्” के मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित विश्व में निरोगसमाज की स्थापना तथा शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक स्वास्थ्य की उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील एवं बाह्य तथा आन्तरिक पर्यावरण की स्वच्छता के लिए संकल्पित विश्व धर्मसंसद् प्राच्यअर्वाच्य ज्ञान विज्ञान की किसी भी शाखा के माध्यम से मानवता की सेवाओं में समर्पित व्यक्तियों को सम्मान करने में गैरव समझती है।

इसी धारणा-अवधारणा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय ज्ञान तथा सेवाओं के लिए श्री विश्वमार्जन चोरे रख धर्मशास्त्र दाता विश्वगौरु रवार्जी उडग़ाङ्गनन्दजी को — चर्यार्थ वीता धार्मिक — क्षेत्र/विषय में — विश्वगुरु — सम्माननीय उपाधि से सम्मानित तथा जनसेवा के क्षेत्र में अग्रणी प्रमाणित करती है।

अग्रनन्द उडग़ाङ्गनन्द वीता आच्य “चर्यार्थ वीता” धर्मशास्त्र है।

*World Religious Parliament is pleased to confer the above Title in recognition of his meritorious contribuiton for World Development through \_\_\_\_\_.*

A.C. — Prabhakar Mishra  
Chairman  
Presentation Committee  
or  
Presiding Authority

महाकुम्भ  
मेला



26-1-2001

Acharya Prabhakar Mishra  
Chairman (Indian Region)  
World Religious Parliament

विश्व धर्म परिषद ने विश्व मानव धर्मशास्त्र श्रीमद्भगवद्गीता के भाव्य ‘यथार्थ गीता’ पर परम पूज्य विश्व गैरव परमहंस स्वामी श्री अडग़ाङ्गनन्द महाराजजी को प्रयाग के परम पावन पर्व महाकुम्भ के अवसर पर दिनांक २६-१-२००१ के ‘विश्वगुरु’ की उपाधि से विभूषित किया।



## विषय - सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठांक
1.	भगवान श्रीराम का इतिहास	3
2.	सीता-परित्याग	9
3.	चर्ण?	19
4.	शम्बूक?	33
5.	सरस्वती पूजन?	43
6.	भगवान को दाढ़ी क्यों नहीं?	51
7.	विश्वकर्मा पूजा?	55
8.	मूर्तिपूजा वैद्य या अवैद्य?	71
9.	ध्यान?	83
10.	हठ, चक्र-भेदन और योग?	99

## गुरा - पञ्चना

॥ ॐ श्री सद्गुरुदेव भगवान् की जय!॥

जय सद्गुरुदेवं, परमानन्दं, अमर शरीरं अविकारी।  
निर्गुण निर्मूलं, धरि स्थूलं, काटन शूलं भवभारी॥

सुरत निज सोहं, कलिमल खोहं, जनमन मोहन छविभारी।  
अमरापुर वासी, सब सुखराशी, सदा एकरस निर्विकारी॥


अनुभव गम्भीरा, मति के धीरा, अलख फकीरा अवतारी।  
योगी अद्वैष्टा, त्रिकाल द्रष्टा, केवल पद आनन्दकारी॥

चित्रकूटहिं आयो, अद्वैत लखायो, अनुसुइया आसन मारी।  
श्री परमहंस त्वासी, अन्तर्यामी, हैं बड़नामी संसारी॥

हंसन हितकारी, जग पगुधारी, गर्व प्रहारी उपकारी।  
सत्-पंथ घस्तायो, भरम मिटायो, रूप लखायो करतारी॥

यह शिष्य है तेरो, करत निहोरो, मोपर हेरो प्रणधारी।  
जय सद्गुरु ..... भारी॥

॥ ॐ ॥




श्री श्री १००८ श्री स्वामी परमानन्दजी महाराज (परमहंसजी)

जन्म : शुभ सम्वत् विक्रम १९६९ (१९९१ ई.)


महाप्रयाण ज्येष्ठ शुक्ल ७, २०२६ दिनांक २३/०५/१९६९

परमहंस आश्रम अनंडिया (चित्रकट)





श्री स्वामी अडगडानन्द जी महाराज  
SRI SWAMI ADGADANANDJI MAHARAJ



# भगवान् श्रीराम का इतिहास

अपने सुदीर्घ शासन में भगवान् राम ने वह कर दिखाया जो उनके पूर्व किसी ने नहीं किया था। किसी ने भी वैसी व्यापक शान्ति, समृद्धि, लोक-लाभ और सबको परमगति नहीं प्रदान की और न उनके पश्चात् भी किसी का वैसा इतिहास मिलता है।

-स्वामी अडगडानन्द

ब्रह्मलीन स्वामी श्री विमलानन्द, आश्रम विजयपुर, मिर्जापुर के वार्षिक समारोह में स्वामी श्री अडगडानन्द जी महाराज द्वारा दिनांक २८-१२-१९९८ को उलझे प्रश्न का रहस्योद्घाटन।

## भगवान् श्रीराम का इतिहास

बन्धुओ !

आपकी ओर से कतिपय प्रश्न आये हैं। एक प्रश्न एक महात्मा जी का है। वह सोलह वर्ष विदेश में रहकर आये हैं। वहाँ के लोग उनसे प्रश्न करते हैं कि राम का कुल इतिहास बावन वर्ष का ही तो है। सत्ताईस वर्ष के थे तब उनका विवाह हुआ। घर लौटे तो उनका बनवास हो गया। चौदह वर्ष वे बन में रहे। सत्ताईस और चौदह मिलकर इकतालीस हुआ। लंका से लौटते ही सीता अयोध्या की जनता में चर्चा का विषय बन गयी। राम ने उन्हें बन भेज दिया, जहाँ लव-कुश का जन्म हुआ। लव-कुश ग्यारह वर्ष के थे कि राम के अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया। अश्वमेध राम का अन्तिम कृत्य था। इकतालीस और ग्यारह कुल बावन वर्ष ही तो हुए। जैसा आप लोग कहते हैं— राम ने ग्यारह हजार वर्षों तक राज्य किया। वह इतिहास कहाँ गया ? 'वात्मीकीय रामायण' के अनुसार उनका इतिहास तो मात्र पचास-बावन वर्ष का है। लोग कहते हैं कि राम ने लंका में बहुत से निंशाचरों को मार डाला— तो क्या हो गया ! हिटलर ने भी तो साठ लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। इतने से तो राम की कोई विशेषता समझ में नहीं आती।

एडोल्फ हिटलर ने इतने लोगों को मारा तो उसका अस्तित्व भी नहीं रह गया; किन्तु राम की उपलब्धियों की एक लम्बी श्रृंखला है। रावण-वध के पश्चात् राम ने कभी अस्त्र नहीं उठाया। आरम्भ में कहीं साधारण-सी आवश्यकता भी पड़ी तो कहीं लक्षण को भेज दिया, कहीं भरत या शत्रुघ्न को। संसार चाहता है कि सामान्य जनजीवन को सम्बन्ध बना दें लेकिन आज तक ऐसा कोई कर न सका। परमाणुसम्पन्न देश चिन्तित हैं कि कोई अन्य देश परमाणु विखंडन की प्रक्रिया न सीख ले अन्यथा उनकी सुरक्षा-व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी। आज समृद्ध देशों में आत्महत्याएँ अधिक हो रही हैं। वृद्धावस्था वहाँ अभिशाप बन गयी है। दम्पत्तियों ने बच्चे तो अनेक पैदा किये किन्तु वृद्धावस्था में सहायता के लिये कोई नहीं। अस्पतालों में बुजुर्गों की मौत होती है, वहाँ से फोन आता है कि

तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, तो बच्चे दो मिनट का मौन धारण कर लेते हैं। वहाँ से दो मिनट मौन! यह तो है वहाँ की संस्कृति। दुःख अपनी जगह है। जीवन की अन्तिम साँसे गिन रहा है अस्पताल में! अपने स्वजनों से अलग-थलग! आस-पास अपना कोई नहीं! दुःख नहीं तो क्या है?

भगवान राम के राज्य में किसी प्रकार का दुःख नहीं था। संसार के लोग जो सुख देना चाहते हैं किन्तु दे नहीं पाए, वह सब राम के राज्य में था। लाखों वर्षों से जो आततायी समाज को दुःख दे रहा था, राम ने पहले तो उसका समूल अन्त किया, तत्पश्चात् रावण के जो अनुचर-अनुयायी बच रहे थे, उनका हृदय-परिवर्तन किया और संसार में शान्ति की एक ऐसी लहर पैदा कर दी कि “राम राज बैठे त्रैलोका। हरषित भये गये सब सोका॥” केवल अयोध्या ही नहीं, तीनों लोकों में हर्ष छा गया, शोक-सन्ताप सदा-सदा के लिए मिट गये। “अत्प्रभृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सब सुन्दर सब विरुज सरीरा॥” स्वास्थ्य विभाग उत्तम! सबके शरीर रोगमुक्त! “वरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेदपथ लोग॥” चारों वर्णों के लोग अपनी अवस्था के अनुसार आचरण में निरत अर्थात् अनासक्त भाव से तल्लीन! ‘वेदपथ’— शूद्र थे अवश्य लेकिन वेद के अनुसार चलते थे। ‘चलहिं सदा’- निरन्तर चलते थे, ‘पावहिं सुखहि’- सुख प्राप्त करते थे। ‘नहिं भय सोक न रोग॥’ सुख की परिभाषा क्या है? भय नहीं, शोक नहीं, रोग नहीं! प्रियजनों के वियोग में शोक होता है। राम के राज्य में वह भी नहीं।

धन-धान्य की समृद्धि कितनी थी? ‘नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अवृध न लच्छन हीना॥’ राम के राज्य में कोई दरिद्र, दुःखी या दीन नहीं था। शूद्र थे अवश्य किन्तु यह मनुस्मृति या पाराशर स्मृति वाला शूद्र नहीं कि ठीकरों में खाओ, पेड़ के नीचे रहो, भू-सम्पत्ति न रखो। दुःखी, दीन, असहाय कोई नहीं था। सभी प्रबुद्ध थे। लक्षणहीन कोई नहीं था। ‘सब गुनज्ञ पण्डित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी॥’ सभी गुणवान थे। सब के सब पण्डित! शूद्र भी पण्डित! “ब्राह्मण ही पढ़े-पढ़ावे, शूद्रादि दूसरा कोई पढ़े तो नरक में जाये” – ऐसा नहीं था। ‘सब कृतज्ञ’— किसी ने छोटा-सा उपकार किया तो प्रत्युपकार करने में तत्पर! कपट, दम्भ किसी में नहीं था।

“ससि सम्पत्र सदा रह धरनी। ब्रेता भइ कृतयुग कै करनी॥” मौर्य-बन्धुओं के यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक मौसम में साग, सब्जी, मूली, धनिया, पुदीना, पालक इत्यादि बारहो महीने हरा-भरा दिखाई देता है किन्तु राम के राज्य में

सर्वत्र पृथ्वी लहलहाती रहती थी। “बयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई॥” कोई किसी से वैर नहीं करता था। वैरभाव तो तब होता है जब किसी को दूसरे की अपेक्षा अधिक मिले। रामराज्य में वैर का कारण विषमता ही समाप्त थी। “वैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुवेर ते॥” एक-एक बनिया मानो कुवेर ही बैठा था। वस्त्र बेचने वाला बजाज, सोना-चाँदी, हीरा-जवाहरात और रूपयों का लेन-देन करने वाले सराफ तथा अन्य अनेक वस्तुओं के व्यापारी मानो अनेक कुवेर बैठे हों। धन-धान्य के देवता कुवेर से यहाँ आशय है कि जिनके यहाँ वस्तु का कभी अभाव न हो, अक्षुण्ण सम्पत्तिवान। और वस्तु कैसे मिलती थी? “वस्तु विनु गथ पाइए”— वस्तुएँ विना मूल्य के मिलती थीं। किसी को कन्या के विवाह में आभूषणों की आवश्यकता होती तो सराफ कहते- ‘ले जाओ टोकरी-दो टोकरी।’ जब दूकान हमारी है, हर वस्तु सदैव सुलभ है तो अकारण संग्रह कर घर का कोना क्यों खराब करें? जितनी आवश्यकता प्रतीत हुई, ले लिया शेष पुनः उन्हीं के संरक्षण में सौंप दिया। व्यापारी तो वस्तुओं के संरक्षक मात्र थे।

राम के राज्य में विषमता नहीं थी, समानता थी। शूद्र थे, वैश्य थे, चारों वर्ण थे किन्तु खान-पान, रहन-सहन, शिक्षा-ज्ञान में समानता, धन-धान्य में समानता, कृषि-कार्य में समानता, उद्योग-व्यापार में समानता और “सकल परम गति के अधिकारी” राम के साथ सभी उनके धाम भी गये। लोक में समृद्ध जीवन-लाभ और परमश्रेय की प्राप्ति- दोनों व्यवस्था राम के राज्य में सबके लिए एक जैसी थी।

सरयू में एक घाट था—राजघाट। “राजघाट सब विधि सुन्दर वर। मज्जहिं तहाँ वरन चारिड नर॥” वात्यकाल में हमने हरिजनों को कुएँ से दूर पंक्तिवस्त्र बैठे हुए देखा है। उच्चवर्ण के समृद्ध लोग कुएँ पर स्नानहेतु आते तो कोई कृपा कर उन हरिजनों के घड़ों में पानी ढाल देता। स्नान के लिए नहीं, मात्र पीने के लिए। हिन्दू ही थे वे सब; किन्तु कुएँ पर नहीं चढ़ सकते थे। अभी चार-पाँच वर्ष पूर्व की घटना है। उन दिनों हम जगतानन्द आश्रम में रहते थे। समीपस्थ वरैनी गाँव के गुदेरू दद्वा, अस्सी साल के बुजुर्ग (अब दिवंगत हो गये हैं।) गंगा-स्नान कर तमतमाते, बड़बड़ते हुए-आश्रम में आये। हमने पूछा, “दद्वा! कुछ घटना घट गयी क्या?” वह बोले, “पूछो मत महाराज! गंगा में जहाँ मैं स्नान कर रहा था, देखा एक चमार भी स्नान कर रहा था, जिसके पाँव से छूकर जल मेरी ओर

आ रहा था। मैं उससे ऊपर प्रवाह की ओर बढ़ गया। उसने भी अपना कपड़ा उठाया और हमसे भी आगे पश्चिम की ओर निकल गया। हम पुनः आगे बढ़े, तो उसने भी बढ़ने का उपक्रम किया। तब हमने फटकारा, डांटा और खूब गाली दी। महाराज ! लगता है उसे किसी ने उकसाया था।" लेकिन राम के राज्य में "राजघाट सब विधि सुन्दर वर। मज्जहिं तहाँ बरन चारिउ नर॥" राम समेत सभी एक ही घाट पर अवगाहन करते थे। यदि राजघाट में राजपरिवार किंवा सर्वां ही स्नान करते तो विषमता हो जाती; किन्तु विषमता वहाँ थी हीं नहीं।

इस प्रकार अपने सुदीर्घ शासन में भगवान राम ने वह कर दिखाया जो उनके पूर्व किसी ने नहीं किया था। किसी ने भी वैसी व्यापक शान्ति, समृद्धि, लोक-लाभ और सबको परमगति नहीं प्रदान की और न उनके पश्चात् भी किसी का वैसा इतिहास मिलता है। आजकल लोग इतिहास का अर्थ युद्ध और नरसंहार से लगाते हैं। जिस शान्ति के लिए लोग आज क्रान्ति करते हैं, युद्ध करते हैं, आन्दोलन करते हैं, वही शान्ति भगवान राम ने अपने जीवन के इन ग्यारह हजार वर्षों में प्रदान कर दी, जो आज भी समग्र मानवता के लिए आदर्श बना हुआ है।

॥ ३० श्री सद्गुरु भगवान की जय ॥

## देवता

सभी जगत के देवता, जोर लगावे जाय।  
जब लगि सतगुरु सीख ना, मूरख गोता खाय॥

प्रथम सीढ़ी के देवता, अवसि लगावे पार।  
आगे सीढ़ी अनन्त की, गुरु महिमा आधार॥

देवन पूजा एक तक, अरथ पाय बस बोल।  
मन चाहो परतत्व को, सतगुरु संगत डोल॥

-स्वामी अड्डगड्ढानन्द-

## सीता-परित्याग

सीता आपके हृदय में छिपी हुई ईश्वरीय अनुभूति है, न कि कोई नारी! गर्भवती सीता का राम ने परित्याग किया- ऐसी भी कोई बात नहीं है। चस्तुतः रामचरित मानस एक योगशास्त्र है।

रामचरित मानस का शाब्दिक अर्थ है-- राम के वे चरित्र, जो मन के अन्तराल में प्रवाहित हैं। इसमें विज्ञानरूपी राम हैं और शक्तिरूपिणी सीता है।

यह यौगिक शब्द है।

बाहर समाज में सीतां को जो रूप प्रचलित है, वह आपकी गौरवशाली संस्कृति है, आदर्श है।

-स्वामी अडगडानन्द

एनी वेसेन्ट कालेज, प्रयाग, इलाहाबाद की विशाल जनसभा में पूज्य महाराज जी द्वारा दिनांक २४-१-२००० ई. को सीता-परित्याग के औचित्य का निर्दर्शन।

## सीता-परित्याग

बन्धुओं!

एक प्रसिद्ध राजनेता राम को इसलिए दोष देते हैं कि उन्होंने गर्भवती सीता का क्यों परित्याग किया? ये प्रश्न संस्कृति के शत्रु हैं। मान्य नेता स्त्रियों के ही पक्षधर हैं तो उन्हें कुरान का भी अवलोकन करना चाहिए। वहाँ लिखा है कि यदि पुरुष को पत्नी नहीं पसन्द है तो तीन बार 'तलाक! तलाक! तलाक!' मौखिक कह दे। मात्र इतने से ही वह अपने औरस बच्चों और सम्पत्ति से वंचित कर दी जाती है। राम तो लाखों वर्ष पूर्व हो गये, आज न सीता ही है किन्तु यह काण्ड आपकी आँखों के सामने है। नेता जी तरस खाएँ। माताएँ-वहनें अपने ही देश की विशुद्ध नागरिक हैं। इन्हें मान दें। कुर्सी के लिए लड़े, गौरव की बात है, किन्तु धर्मशास्त्रों को न छुएँ; क्योंकि शास्त्र कोई विरला महापुरुष जानता है और कोई विरला अधिकारी उनके संरक्षण में समझता है। आपके आक्रोश-शमन का प्रयास हम एक कथानक के माध्यम से करना चाहेंगे।

जब रावण युद्धभूमि में आहत होकर गिर पड़ा, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, "यह महान राजनीतिज्ञ हैं, इनसे तुम राजनीति की शिक्षा ले लो।" लक्ष्मण ने कहा, "यह कैसा राजनीतिज्ञ!" राम ने समझाया, "नहीं लक्ष्मण! रावण बड़ा सूक्ष्म राजनीतिज्ञ है, ऐसा नीतिज्ञ आज तक हुआ नहीं। अतएव इनसे शिक्षा ग्रहण करो।"

लक्ष्मण रावण से शिक्षा लेना नहीं चाहते थे। उनकी दृष्टि में रावण आततायी था। माता सीता का अपहरण किया था उसने। फिर भी आदेश के अनुपालन में लक्ष्मण अनमने भाव से रावण के पास गये। उसके शिर की ओर खड़े होकर उन्होंने कहा, "राजनीतिज्ञ सम्प्राट्! मैं राम का अनुज लक्ष्मण आपसे राजनीति की शिक्षा लेना चाहता हूँ।" रावण ने आँखें ही नहीं खोली।

लक्ष्मण लौट आये। उन्होंने बताया, "भैय्या! उसके मुख में मक्खियाँ आ-  
जा रही हैं। उसे होश भी है कि राजनीति की शिक्षा ही देगा। उसकी श्वास रुक-

रुककर चल रही है, चेतना विलुप्त हो चुकी है।” राम ने पूछा, “तुम खड़े कहाँ थे?” लक्ष्मण ने कहा, “उसके शिर की ओर।” राम ने कहा, “शिक्षा गुरु के चरणों में बैठकर ली जाती है। तुम्हें उसके चरणों में प्रणिपात कर अभ्यर्थना करनी चाहिए।” लक्ष्मण सादर चरणों में प्रणाम कर बोले, “महान् राजनीति ज्ञ सप्ताट् मैं लक्ष्मण आप से राजनीति की शिक्षा लेना चाहता हूँ।”

रावण झटके से उठा, तरकस और धनुष लक्ष्मण से छीन लिया। लक्ष्मण कुछ सोचते, इसके पहले ही उसने शरसंधान कर लिया। गले का निशाना साधते हुए बोला, “राम के भाई हो, इसिलिए जीवित छोड़ रहा हूँ। पहली राजनीति तो यह है कि शत्रु मरणासन्न हो अथवा मर ही क्यों न गया हो, उसके समीप सावधान मुद्रा में ही जाना चाहिए।” लक्ष्मण स्तब्ध रह गये। वह सोच रहे थे कि अब तो इसका अन्तिम क्षण है, मक्खियाँ आ-जा रही हैं किन्तु यह तो ज्यों-कात्यों है। संयत होकर लक्ष्मण ने कहा, “राजन् ! आपने एक स्त्री के लिए अपने समग्र कुल का मूलोच्छेद करा लिया, यह कौन-सी राजनीति है? ऐसी मूर्खता आपने क्यों की?”

रावण मुस्कराकर बोला, “लक्ष्मण! मेरे कुल का मूलोच्छेद कोई नहीं कर सकता। मेरा वंश अक्षय है। हमने अपने वंश की सुरक्षा के लिए पहले ही विभीषण को राम की शरण में भेज दिया था।” लक्ष्मण ने कहा, “आपकी बात हम सच मान भी लेते; किन्तु क्या आपने विभीषण को लात नहीं मारी थी? उसके ऊपर मरणान्तक शक्ति का प्रहार क्यों किया?” रावण ने कहा, “लात न मारते तो हमारी पोल ही खुल जाती। तुम लोग उसका विश्वास कैसे करते? शक्ति का प्रहार तो यह परखने के लिए किया था कि राम हमारे वंश की रक्षा कर पायेंगे या नहीं। उस प्रहार से विभीषण को बचाने के लिए जब राम ने स्वयं अपना सीना अड़ा दिया तब मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरा वंश सुरक्षित है। लक्ष्मण ! तुमने ध्यान नहीं दिया कि उसी घटना के पश्चात् मेरे रणकौशल में परिवर्तन आ गया था। मैं पूरे वेग से युद्ध करने लगा था।”

लक्ष्मण ने कहा, “सन्देह तो हम लोगों को भी हुआ था कि कदाचित् आप मरेंगे ही नहीं।” रावण ने कहा, “मैं निश्चिन्त हो गया था इसलिए धुआँधार युद्ध करने लगा। आजन्म हमने पाप किया, अनुचरों तथा वंश भर से पाप कराया। पाप की सीमा हम लोगों ने तोड़ दी। यदि हम भजन करना चाहते तो अनेक जन्मों में भी मुक्ति सम्भव नहीं थी। इसलिए जब भाई खर-दूषण का वध हुआ

तभी मेरे मन में योजना बन गयी कि कदाचित् यह भगवान ही हैं। क्यों न सबको परमधाम का अधिकारी बना दूँ। इसीलिए मैंने सीता का हरण किया। इसीलिए मैंने धमकियाँ दीं कि तुम लोग युद्ध के लिए आओ। मैं अपने मन्त्रव्य में सफल रहा। लक्ष्मण! जब तुम परमधाम में आओगे तो मैं अपने वंश समेत तुम्हें वहाँ मिलूँगा। राम तो अयोध्या की प्रजा लेकर वहाँ बाद में पहुँचेंगे, हम सब पहले ही वहाँ विराजमान रहेंगे। लक्ष्मण! हमने लोक में समृद्ध जीवन भोगा, दुनिया की छाती पर पाँव रखकर चला। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तपस्वी मुनि लोग जाते हैं, जहाँ तुम लोग रहोगे, जहाँ राम का धाम है।”

चकित लक्ष्मण ने लौटकर कहा- “भैय्या! उसने तो अपनी गोट लाल कर ली। उसने लड़ाई लड़ी ही नहीं। हम सोचते थे कि वह खल है, दुष्ट है, माता सीता को उसने चुराया है; किन्तु उसने तो चोरी ही नहीं की। वह तो थी उसकी राजनीति! वह तो अपने वंश की सुरक्षा और मुक्ति में लगा था।”

राम इस सूक्ष्म राजनीति के ज्ञाता थे। उनके जीवनकाल में महर्षि विश्वामित्र ने अस्त्र-शस्त्रों का न केवल संचालन सिखाया अपितु अपना सारा दिव्यास्त्र भण्डार भी राम को अर्पित कर दिया था। महर्षि अगस्त्य ने धनुष और तलवारें दीं, दिव्य तरक्षण दिया। महर्षि अगस्त्य के बाण से ही रावण का संहार हुआ। वाल्मीकीय रामायण के अनुसार सुतीक्ष्ण आश्रम में राम ने शस्त्र धारण किया। अस्त्र-शस्त्र हर महापुरुष के पास थे। वशिष्ठ के पास जो कुछ भी था राम को दिया; किन्तु इन सबसे बड़ा शस्त्रास्त्र-संग्रह महर्षि वाल्मीकि के पास था। इनमें उनकी जन्मजात अभिरुचि थी। बड़ी-बड़ी फौजें आयीं किन्तु रत्नाकर को कोई परास्त नहीं कर सका था। महापुरुष सप्तर्षि पहुँचे। रत्नाकर ने दस्युवृत्ति छोड़ दी। भजन की नियत विधि के अनुपालन से उनका रूपान्तरण महर्षि वाल्मीकि के रूप में हुआ।

भगवान राम उनके पास गये। “मुनि कहाँ राम दण्डवत कीन्हा। आसिरवादु विप्रवर दिन्हा।।” वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद तो दिया किन्तु दिव्यास्त्रों के भण्डार का नाम तक नहीं लिया। राम ने सोचा, महात्माओं के पास यह भण्डार व्यर्थ पड़ा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सीता के अपवाद को निमित्त बनाकर उन्हें उसी वन के समीप प्रेषित किया, जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। राम का यह कृत्य महर्षि को अच्छा नहीं लगा। जिस सीता ने लंका को तुच्छ समझा, अग्नि परीक्षिता उसी दिव्य सीता को राम ने

मात्र लोकापवाद के भय से वनवास दे दिया! यह अन्याय महर्षि के लिए असह्य था। महर्षि ने साध्वी सीता को संरक्षण दिया। सीता ने लव और कुश नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि ने उनके माध्यम से राम को सबक सिखाने का निश्चय कर उन्हें दिव्यास्त्रों का संचालन सिखाया। माँ के लाड़-प्यार और महर्षि के कुशल निर्देशन में पल्लवित बच्चे दस-ग्यारह वर्षों में ही युद्धकला में निष्णात हो गये। उन बच्चों ने बारहवें वर्ष में राम के अश्वमेध का वह घोड़ा पकड़ लिया, जो उनके क्षेत्र से होकर गुजर रहा था।

“अश्व की सुरक्षा में नियुक्त शत्रुघ्न और उनकी सेना धराशायी हो गयी। लक्ष्मण का सारा युद्ध-कौशल उन बालकों के समक्ष धरा रह गया। अतुलित बलशाली हनुमान की अप्रतिहत गति को सींक के एक बाण से निरुद्ध करने वाले भरत बालकों से पराभूत हो गये। रावण की अजेय लंका का विघ्नस करने वाली अयोध्या की चतुरंगिणी सेना, सुधा-वृष्टि द्वारा पुनर्जीवित वानरी सेना भी पराजित हो गयी। हनुमान विवश हो गये। सुग्रीव, विभीषण सभी मूर्च्छित हो गये। स्वयं राम को आना पड़ा। महर्षि को हस्तक्षेप करना पड़ा। उपालम्भ देते हुए सम्मित उन्होंने राम को समझाया, “माना कि राजहठ महान् होता है किन्तु जब बालहठ टकराये तो राजहठ को पीछे हट जाना चाहिए।”

महर्षि से राम का परिचय पाकर बच्चों ने राम से प्रश्न किया कि आपने सती साध्वी, जगत् जननी, अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण देवी सीता को वनवास क्यों दिया? राम ने बताया, “बच्चो! वह थी राजनीति।” “राम धरम सरबस एतनोई। जिमि मन भाहिं मनोरथ गोई।।” गोपनीयता राजनीति का सर्वस्व है। सीता का परित्याग राम की राजनीति थी। राम इतने बड़े क्षत्रिय सम्राट्! वे वाल्मीकि से अस्त्र-शस्त्रों की याचना तो कर नहीं सकते थे। उन्होंने एक युक्ति से वाल्मीकि से वह सब ले लिया। सीता को उन्होंने वनवास का दण्ड नहीं दिया बल्कि बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिए भरपूर अवसर प्रदान किया। बच्चों के रख-रखाव के लिए माँ से बढ़कर कौन हो सकता है? राम इस नीति के ज्ञाता थे। “नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान यथारथ।।” उन्होंने सीता का त्याग नहीं किया बल्कि सर्वोत्कृष्ट दिव्यास्त्रों की प्राप्ति और बच्चों की शिक्षा के लिए एक व्यवस्था दी।

वस्तुतः सीता कोई नारी नहीं थी। गर्भवती सीता का राम ने परित्याग किया, उसे वन में निर्वासित किया- ऐसी भी कोई वात नहीं है। यह मानस है।

मानस कहते हैं मन को। रामचरित मानस अर्थात् राम के वे चरित्र, जो आपके मन के अन्तराल में प्रवाहित हैं, जो दृष्टिगोचर नहीं होते। आप अपने मन का सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो काम के चरित्र, लोभ-मोह के चरित्र, राग-द्वेष के चरित्र ही दिखाई देते हैं, राम के चरित्र नहीं दिखायी देते क्योंकि वे प्रसुप्त हैं। ये प्रसुप्त रामचरित किस प्रकार जागृत हों? जागृत होकर रामपर्यन्त दूरी तय कराकर राममयी स्थिति दिला दें- वहाँ तक का साधन-क्रम इस रामायण में अंकित है। इसमें विज्ञानरूपी राम हैं, शक्तिरूपिणी सीता है।

कहते हैं, सीता पृथ्वी से निकली! क्या बच्चे पृथ्वी से जन्म लेते हैं? जिस धनुष को दस-दस हजार राजा नहीं उठा सके, सीता उसी को उठाकर प्रतिदिन सफाई करती थी। क्या यह तथ्य विचित्र नहीं प्रतीत होता? मूलतः “धड़ धरती का एके लेखा। जो बाहर सो भीतर देखा।।” धड़ कहते हैं इस शरीर को। धरती पृथ्वी को कहते हैं। बाह्य जगत् में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह सब इस मन के अन्तराल में निहित है— असन वसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मनि महँ रह जैसे। सरग नरक चर अचर लोक वहु, वसत मध्य मन तैसे।। भोजन, वस्त्र, धन-धान्य, मर्यादा, प्रतिष्ठा इत्यादि जिस प्रकार एक मणि में विद्यमान है, ठीक इसी प्रकार इस मन के अन्तराल में स्वर्ग-नरक, चर-अचर, परमधाम सहित सम्पूर्ण लोक विद्यमान हैं। जब जिसका समय आता है वैसा ही आकार रूप में घटित होता रहता है।

शरीररूपी पृथ्वी में शक्ति प्रसुप्त है। योगरूपी जनकपुर, चित्त चढ़रूपी चाप। चित्त की चंचलता ही चाप है। योग का अभ्यास करते-करते चित्त के चांचल्य का क्रम जहाँ टूटा, ध्यान की स्थिति बन जाती है। ध्यान ही धनुष है। ध्यान की स्थिति बनते ही शक्तिस्वरूपा सीता उस भक्त के हृदय में प्रसारित हो जाती है। जहाँ शक्ति आयी, जागृतिरूपी जयमाता। “मोह निशा सब सोबनिहारा”— सब सोये ही तो हैं। जीव जागृत तब होता है, जब “जानिय तवहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा।।” समस्त विषयों से वैराग्य हो जाय। लौकिक यज्ञों की परम्परा से हटकर गोस्वामी जी द्वारा सृजित एक अद्भुत यज्ञ- ‘धनुष यज्ञ’ इसी जागरण का नव-संदेश है।

अगणित राजाओं ने अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया किन्तु उसे तिले मात्र भी हटा नहीं सके। दस-दस हजार राजाओं ने उस धनुष को एक साथ पकड़ा किन्तु उसे हिला तक न सके। क्या दस हजार लोग किसी धनुष को एक साथ

उठाने का प्रयास कर सकते हैं? यह अतिरिंजित गल्प ही प्रतीत होती है। किन्तु आध्यात्मिक धरातल पर ध्यान ही धनुष है। चित्त के चांचल्य का क्रम टूटे बिना ध्यान की स्थिति नहीं मिलती। दसो इन्द्रियों की सहस्रों प्रवृत्तियाँ दस हजार नरेश हैं। जब तक इन्द्रियाँ और उनमें वासनामयी वृत्तियों का प्रवाह है, तब तक इस राजयोग का अनुष्ठान आप करते रहें, हाथ कुछ नहीं लगता।

प्रायः पथिक इस आत्म-पथ पर अग्रसर होने के लिए उद्यत हो जाते हैं। मार्ग की अपेक्षित सावधानियों पर विचार नहीं करते। मार्गदर्शक तत्त्वदर्शी सद्गुरु उन्हें उपलब्ध नहीं हैं अतः अपनी सूझ-बूझ से वे कुछ-न-कुछ करते ही रहते हैं। ‘चले इष्ट देवन्ह शिर नाई।’— अपने-अपने इष्टदेवों गणेश, महेश, सुरेश, दिनेशादि जो भी जिसका इष्ट था, दस हजार राजाओं के दस हजार इष्ट, सभी अपने इष्टदेवों को शिर झुकाया किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली।

राम ने भी धनुष की ओर दृष्टिपात् किया, इष्ट का स्मरण किया। ‘गुरुहि प्रणाम भनहिं मन कीन्हा। अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा॥’ बड़ी सरलता से उन्होंने धनुष उठा लिया। उनके इष्ट सद्गुरु थे। आरम्भिक अवस्था में गुरु के मूर्त्त स्वरूप को प्रणाम किया जाता है। उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। दूसरा सोपान इससे सूक्ष्म है। इसमें मन से गुरुदेव का स्वरूप पकड़कर अपने हृदय में ही उनका अभिनन्दन करते हैं। तत्क्षण ध्यान की स्थिति बन जाती है। यहीं विधि है, यहीं यज्ञ है। ‘यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि’—यज्ञों में सर्वोपरि है यह जप-यज्ञ। जहाँ ध्यान की स्थिति बँधी, शक्तिरूपी सीता प्राप्त हो जाती है।

इस अध्यात्म जगत् में मोहरूपी रावण है। “मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला॥”—मोह सारी व्याधियों का मूल है। ‘तेहिं ते पुनि उपजहिं वहु शूला॥’—इसी से सभी शूलों की सृष्टि होती रहती है। यही सम्राट है आसुरी प्रवृत्तियों का। जब तक मोहमयी प्रवृत्तियाँ जीवित हैं, यह शक्तिरूपी सीता योगान्नि में प्रसुप्त रहती है। पंचवटी में भगवान राम ने सीता से कहा—

सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला॥। मैं कछु करवि ललित नरलीला॥।  
तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा। जौ लगि करौं निसाचर नासा॥।

प्रिये! अब मैं कुछ ललित, प्रियदर्शिनी लीला करने जा रहा हूँ। वह ललित लीला क्या थी? निशाचरों का संहार, जिसमें रक्त की नदियाँ वह चलीं, दीर्घकाय हाथी उस प्रवाह में बहने लगे, सौ-सौ योजन लम्बी कायावाले कुम्भकरण इत्यादि उसी में डूब गये! यह ललित लीला है या भयंकर? “तुम पावक महुँ करहु

निवासा” लगता है पावक कोई फाइव स्टार होटल था। यह भी कोई निवास-स्थान है? कहते हैं कि राम ने नरलीला की, मनुष्योचित आचरण! अग्नि-निवास मानवोचित है क्या? क्या यह सम्भव है?

वस्तुतः ‘वपुष ब्रह्माण्ड सुप्रवृत्ति लंका।’ शरीर सुव्यवस्थित ब्रह्माण्ड है, मायिक प्रवृत्तियाँ ही लंका है। मनरूपी मय दानव ने इसकी संरचना की है। जिसमें मोहरूपी रावण, क्रोधरूपी कुम्भकर्ण, लोभरूपी नारात्नक, आशारूपी पिशाचनियाँ- इस प्रकार अनन्त आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं। ‘दसमुख सभा वैठ एक बारा। देखि अमित आपन परिवार अनन्त है।’ रावण का परिवार अनन्त है।

निशाचरों के संहार के उपरान्त शेष एकमात्र रावण ने अपार निशाचरों का सृजन कर लिया। सब तो मर गये थे, अब अपार कहाँ से आ गये? वस्तुतः रावण मोह का प्रतीक है। मोह सम्पूर्ण व्याधियों का मूल है, जड़ है। किसी वृक्ष को आप ऊपर से काट दें, यदि मूल विद्यमान है तो आप कुछ ही अन्तराल में पायेंगे कि वह वृक्ष, शाखा-प्रशाखा, फल-फूल सब ज्यों का त्यों है। यदि मूल विद्यमान है तो उसके अन्तराल में समस्त आसुरी सम्पद् समाहित है इसलिए रावण दुर्ग से अपार सेना लेकर चला, किन्तु जब वह मरा तो ‘रहा न कुल कोउ रोवनिहारा।’ आँसू बहाने वाला या जलदाता भी कोई नहीं बचा।

मोह के सह-अस्तित्व मिटते ही सीता अग्नि से प्रकट हो गयी। मोह के मिटते ही परमात्मा से मिलन का नाम योग है। संसार के संयोग-वियोग से रहित, आत्मन्त्विक सुख परमतत्त्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। यह योगाग्नि एक ऐसी अग्नि है जो विकारों को, शुभाशुभ को सदा-सदा के लिए शान्त कर देती है। इस योगाग्नि में अवगाहन कर सीता प्रकट हो गई। अग्नि ने सीता का हाथ पकड़कर कहा— “राम ! यह आदिशक्ति, चिन्मय अविनाशिनी शक्ति सीता सदा निर्लेप, निर्दोष तथा तुमसे अभिन्न और तुम्हारा ही प्रतिविम्ब है, इसे स्वीकार करो।” वास्तव में जब योग में पूर्णता की अवस्था आती है, मोह के मिटते ही आदि, चिन्मय आह्लादिनी शक्ति के रूप में आत्मा परिवर्तित हो जाती है। सर्वत्र राममयी स्थिति प्रसारित हो जाती है।

“राम राज्य बैठे त्रैलोका। हरपित भये गये सब शोका।” राम के राज्याभिषिक्त होते ही तीनों लोकों में भव-सम्बन्धी शोक सदा के लिए मिट गये, सर्वत्र हर्ष छा गया। विकार रहा ही नहीं। अब ध्यान करें तो किसका? आगे १-सी सत्ता है जिसकी शोध शोप है? ऐसी अवस्था में ध्यान ही धोर्वी है।

कबीर ने कहा— सद्गुरु धोविया से परिचय नाहीं। वस्त्र के धब्बों को धोबी धुल देता है किन्तु अन्तर्मन पर मलावरण विक्षेप के रूप में संस्कारों के धब्बे सद्गुरु ही धुलता है। तीनों लोकों में जब कोई विकार नहीं रह गया, हर्ष छां गया तो ध्यान से ढूँढें किसे? धब्बा तो धुल गया। अतः शक्ति का उपयोग समाप्त हो जाता है। कुछ काल तक यह ब्रह्मविद्या के आश्रित प्रसुप्त रहती है और जब लव-कुश का जन्म हो जाता है, लव में कुशलता प्राप्त हो जाती है, तब शक्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती। सीता मरती नहीं बल्कि जिस धरती से उसकी जागृति हुई थी, स्थिति दिलाकर पुनः धरती में सदा के लिए प्रसुप्त हो जाती है।

सीता पृथ्वी में समाहित हो गई। सर्वत्र रामराज्य स्थापित हो गया। ‘नहिं दरिद्र कोउ दुःखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना॥’ सकल परमगृति के अधिकारी! वयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई॥। शक्ति का उपयोग नहीं रह जाता। उस योगी के लिए उसका प्रयोजन नहीं है लेकिन वह पृथ्वी में रहती सदैव है। उसके द्वारा दूसरों का मार्गदर्शन होता है। सेन्तों से ही यह जागृति सम्भव है। यह सीता आपके हृदय में छिपी हुई ईश्वरीय अनुभूति है, ईश्वरीय स्वरूप है न कि कोई नारी। बाहर समाज में सीता का जो रूप प्रचलित है वह आपकी गौरवशाली संस्कृति है, इतिहास है, आदर्श है, सुसंस्कृत जीवन वृत्त है और यह आपके मोक्ष का मार्ग है।

॥ ॐ श्री सद्गुरु भगवान की जय ॥

# धर्म-सन्देश

भारत के वैदिक ऋषि-मुनियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम से भी हजारों वर्ष पूर्व अपने कठोर तपश्चर्या में अनवरत प्रयास के फलस्वरूप एक परमात्मा को प्रत्यक्ष किया और पूरे भारत की वनस्थलियों में आश्रम बनाकर शिष्य-परम्परा में हृदयंगम कराते हुए उसे संजोकर रख्या। वही सत्य आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में भली प्रकार दृढ़ाया। उन्होंने कहा कि एक आत्मा ही सत्य है अन्य जो कुछ भी है वह नश्वर है, अस्तित्व विहीन है। यह सन्देश उन्होंने मानव मात्र को सम्बोधित कर कहा। विश्व के परवर्ती महापुरुषों ने इसे ज्यों-का-त्यों अपनाया तथा देशज और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुत किया। अहुरमज्दा, गॉड, अल्लाह इत्यादि विविध नामों से पुकारा जो एक ही परमात्मा का बोध कराते हैं। अतः वे सब आपके अनुयायी ही हैं। धर्म एक है, धर्मनिरपेक्षता के विषय में नारा लगाने वाले, प्रतीत होता है, भ्रमित हैं क्योंकि एक से अधिक संख्या होने पर ही पक्ष और विपक्ष का प्रश्न उठता है। इस रहस्य को भली प्रकार जानने एवं उचित व्याख्या प्राप्त करने के लिए देखें-यथार्थ गीता! यह गीता धर्म का समग्र बोध कराती है। यह मानव मात्र का शास्त्र है।

इश्वर क्या है? कहाँ रहता है? कैसे प्राप्त करें? इसके लिए देखें-यथार्थ गीता !

निवेदकः

भक्तमण्डल

श्री परमहंस आश्रम

शक्तेषगढ़ चुनार, मिर्जापुर (उ.प्र.)

## वर्ण?

वर्ण वास्तव में हमारा सनातन धर्म है।

सनातन है आत्मा!

आत्मा को विदेत करने की साधना की सीढ़ी में चार सोपान ये चार  
वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं।

यदि कोई आत्म-प्राप्ति की साधना का नियत कर्म नहीं जानता और  
जानकारी के पश्चात् साधन आरम्भ नहीं करता तो वह शूद्र भी कंदापि नहीं  
है।

-स्वामी अडगडानन्द

लाइफ लाइन हास्पिटल, सुन्दरपुर, वाराणसी के उद्घाटन समारोह के  
अवसर पर दिनांक १६ जनवरी, २००० रविवार को पूज्य महाराज  
जी द्वारा समाज के ज्वलन्त प्रश्न का समाधान।

## वर्ण?

बन्धुओं!

आज सभा से कुछ प्रश्न आये हैं। एक सज्जन ने पूछा है कि रामचरितमानस में कतिपय जातियों, जैसे— “ज्ञे वरनाधम तेलि कुम्हारा। श्वपच किरात कोल कलवारा ॥” श्वपच, तेली, कुम्हार, कोल, किरात, कलवार इत्यादि को अधम कहा गया है। अतः बताया जाय कि वर्ण सामाजिक व्यवस्था है या धर्म?

यद्यपि इसकी विशद् चर्चा आश्रम से प्रकाशित ‘जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति’, ‘यथार्थ गीता’ और ‘शंका समाधान’ नामक पुस्तकों में है फिर भी हम संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। वर्ण यदि मनुष्यों का बँटवारा है तब तो आप अपना शवपट (कफन) स्वयं ही खरीद लें।

प्राचीन भारत में आर्य-संस्कृति सम्पूर्ण विश्व में फैल गयी थी। आपके ही पूर्वजों का उद्घोष था, “कृण्वन्तु विश्वम् आर्यम्” अर्थात् पूरे विश्व को आर्य बना लो। उन्होंने प्रयास भी किया। तीन चौथाई विश्व तक वे पहुँचे भी। अरब के गजनी, समरकन्द इत्यादि शहर भारतीय नरेशों के बसाये हुए हैं। अल्लाई पहाड़, हिन्दूकुश पर्वत तक भारतीय सीमा के नक्शे मिलते हैं। सम्पूर्ण एशिया, यूरोप का कुछ भाग, जर्मनी इत्यादि आर्य हैं। अमेरिका में कोलम्बस से भी पहले माया और इंका संस्कृति पहुँच चुकी थी। आवाहन था सम्पूर्ण विश्व को आर्य बनाओ, परमश्रेय का भागीदार बनाओ! वही आर्य-संस्कृति आज सिमटकर थोड़े में रह गयी है। यह बौद्ध, जैन और सिख आपके सगे भाई हैं किन्तु वर्ण नहीं मानते। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान सब हिन्दू हैं। भारत में सारे ईसाई हिन्दू ही हैं। आप सबको धर्म बहिष्कृत कर आये दिन समाप्त होने की ओर जा रहे हैं। आज हरिजन कहता है कि हम हिन्दू जनमें, इसमें हमारा वश नहीं था किन्तु हम मरेंगे नहीं, हम बौद्धिस्ट हैं। तब तो तीन चरण का सनातन धर्म बचा है। अस्पृश्य जातियाँ कहती हैं कि जब हमारा प्रवेश ही नहीं है तब हमारे किस काम के ये मन्दिर!

हिन्दुस्तान विभाजन के समय बचे साठ करोड़ हिन्दुओं में अब तीस-पेंतीस

करोड़ आप बचे हैं। जो बचे हैं उनमें भी मेल नहीं— खान-पान में मेल नहीं, शादी-विवाह में मेल नहीं, आचरण में मेल नहीं, जीवन-पद्धति में मेल नहीं— किन्तु डींग ज्यों की त्यों “बोल सनातन धर्म की जय!” भारत के कई राज्यों में बसे मुसलमानों और ईसाइयों से हिन्दुओं की संखा कम हो गयी है।

हम आये दिन नारा लगाते हैं, “विश्वगुरु भारत!” यह गर्वोक्ति कितनी खोखली है। क्या आप अपने धर्म में चारों वर्ण से जो बाहर के हैं उनमें से किसी एक को भी दीक्षित कर सकते हैं? क्या उनमें से किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र में सम्मिलित कर सकते हैं? कभी नहीं! जब एक को भी अपना चेला नहीं बना सकते तो कैसा विश्वगुरु? गुरु शिष्य को अपने समान बनाता है, गुरु बना देता है; किन्तु आप ऐसे गुरु हो कि कोई विदेशी शिष्य छू दे तो गुरु ही समाप्त हो गया।

आये दिन रामायण (तुलसीकृत रामचरित मानस) के पंजे फाड़े जाते हैं कि “ढोल गँवार शूद्र पशु नारी” तुलसीदास पक्षपाती हैं। “पूजिय विप्र शील गुण हीना।” यह रामायण साठ प्रतिशत जनता को अभागा, असृष्ट्य, नीच और अधम कहकर पुकारती है। “जे बरनाधम तेलि कुम्हारा” ये वर्णों में अधम हैं। ऐसी रामायण घर में रखने योग्य नहीं। तुलसी ब्राह्मणवादी हैं। जबकि तुलसीदास जी को इन ब्राह्मणों ने ही कभी चैन से रहने नहीं दिया। रामायण यमुना में डुबो दी गयी। अतः विचार कर लें कि वर्ण की स्थिति कहाँ है?

वर्ण वास्तव में हमारा सनातन धर्म है। सनातन है आत्मा! उस आत्मा को प्राप्त करने की, उसे विदित करने की साधना की सीढ़ी में चार सोपाने—ये चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। यदि आप साधन-क्रम नहीं जानते, ईश्वर प्राप्ति की साधना का नियत कर्म नहीं जानते और जानकारी के पश्चात् साधन आरम्भ नहीं करते तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की तो बात ही क्या, आप शूद्र भी कदापि नहीं हैं।

‘या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।’ इस जगत्-रूपी रात्रि में सभी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, दीर्घ तन्द्रा में हैं। रात-दिन जो परिश्रम कर रहे हैं मात्र स्वप्न देखते हैं। संयमी पुरुष इसमें जग जाता है। जिस दिन से संयम की शुरुआत है उस दिन से वह शूद्र है। आरम्भ में संयम सधेगा नहीं। उसके लिए किसी महापुरुष की सेवा करें। शूद्र अर्थात् क्षुद्र, अल्पज्ञ। यह भगवत्पथ की प्रवेशिका है। यदि भगवत्पथ जानकर हमने उस पर कदम नहीं रखा तो हम शूद्र भी नहीं हैं।

उसे जानकर यदि कंदम रख दिया तो चाहे कोई अरब में ही क्यों न जन्मा हो, वह आपके सनातन धर्म के प्रशस्त पथ पर है। विधि जागृत हुई, सद्गुणों का संग्रह होने लगा तो वैश्य! प्रकृति से संघर्ष झेलने की क्षमता आयी तो क्षत्रिय! विकार शान्त हुए, ब्रह्म में विलय की योग्यता आयी तो ब्राह्मण! विलय पा लेने के बाद श्रेणियाँ समाप्त ! फिर तो “न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्रो चिदानन्द रूपो शिवो केवलोऽहम् ।”

इस प्रकार वर्ण अन्तःकरण की योग्यता का पैमाना था। जिस तरह शास्त्रोक्त अच्छे-अच्छे नाम लोग अपने घरों में रख लेते हैं, उसी प्रकार कालान्तर में व्यवसायों के सम्बोधन में इन वर्णों का प्रयोग कर समाज में विभिन्न जातियों का सृजन हुआ। जो सेवा-विधि से जीते थे शूद्र, धन-संग्रह करते थे वैश्य, सुरक्षा-व्यवस्था देखने वाले क्षत्रिय और पढ़ने-पढ़ाने वाले ब्राह्मण कहे गये। आरम्भ में उनका उद्देश्य अच्छा ही था किन्तु परवर्ती व्यवस्थाकारों ने पूर्वजों के नाम का दुरुपयोग कर गर्हित सामाजिक व्यवस्था दे डाली। उदाहरण के लिए, आजकल मनु के नाम से प्रचलित स्मृति के अनुसार, जन्म के बारहवें दिन शिशु का नामकरण किया जाय। ब्राह्मण का नाम मंगलसूचक रखें। क्षत्रिय का नाम बलसूचक, वैश्य का धनसूचक और शूद्र का नाम घृणासूचक रखें। जन्मराशि का अक्षर मान लें ‘क’ आया तो ब्राह्मण बालक का नाम कृष्णदत्त, ‘प’ आया तो पतित पावन, क्षत्रिय बालक के लिए क्रन्दन सिंह, पर्वत सिंह, वैश्य बालक के यहाँ करोड़ीमल, पन्नालाल और शूद्र के यहाँ उसी समय कोई बालक आया तो कतवारु, पतवारु नाम रखा जाता है, जिससे संसार में कोई कहीं जाकर नाम भर बता दे तो लोग यह समझ लें कि इसके साथ कैसा व्यवहार करें? यह धोखाधड़ी नहीं तो और क्या है?

यदि यही सनातन था तो अब यह व्यवस्था टूट चुकी है। अब शूद्र समझे जाने वालों के बच्चों के नाम परमानन्द, ब्रह्मानन्द रखे जाने लगे हैं। स्टेट पीरियड की यह सामन्ती व्यवस्था अब तिरोहित होती जा रही है। समाज की इन जातियों के लिए आरम्भ में निर्धारित जो गुण थे, वे भी सामन्ती युग में शिथिल होते गये। यह इतना रुद्ध हो गयी कि शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे अंगूठा छाप ही क्यों न हो। साधन-क्रिया न भी हो, ब्राह्मण माने मुक्त! क्योंकि शास्त्रों में ब्राह्मण माने मुक्त होता ही है। ब्रह्म-दर्शन, ब्रह्म में विलय और ब्रह्म में स्थिति पाने वाला ब्राह्मण वस्तुतः मुक्त है। किन्तु योग्यता

विहीन भी वही दावा करने लगे कि ये जातियाँ ही वर्ण हैं और बाहर समाज का चार वर्ण ही सनातन धर्म है। इसी व्यवस्था में रहो। इसी में मुक्ति मिलेगी- हमारे आर्षग्रन्थों में ऐसा कुछ नहीं है।

वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में वेद में एक ऋचा मिलती है— “ब्राह्मणः अस्य मुखमासीत्” भगवान् मुख-स्तर पर ब्राह्मण हैं। उस अवस्था में शम, दम, तप, शौच, शान्ति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्म में विलय दिला देने वाले सारे गुण साधक के स्वभाव में ढल जाते हैं। उस समय बुद्धि मात्र यंत्र होती है। साधक के मुख से भगवान् ही बोलता है। अस्तु, भगवान् मुख स्तर पर ब्राह्मण हैं। विकारों को काटते-चौंटते हैं तो बाहु स्तर पर भगवान् ही क्षत्रिय हैं। भगवान् ही तुम्हें थोड़ा चलना सिखाते हैं तो उरु (जंघा) स्तर पर वैश्य और साधना के आरम्भ अर्थात् जागृति काल में चरण स्तर पर वह शूद्र जन्मता है।

भागवत का एक श्लोक है कि परमात्मा की तुष्टि के लिए उनके पावन चरण कमलों से सेवावृत्ति और शूद्र का जन्म हुआ। अतः भगवान् को प्रसन्न करने की क्षमता यदि किसी में पायी गई तो शूद्र में, अन्य किसी में नहीं। साधना के आरम्भ में परम पावन चरणों में जहाँ हम समर्पित हुए तो भगवान् ही सेवा-विधि देंगे कि भजन कैसे करें? उस विधि को पकड़ा तो मान लो भर्ती हो गई, वह जन्म गया। साधना के आरम्भ के साथ ही वह शूद्र है। वह प्रभु के निर्देशन के अनुसार प्रभु की सेवा, सुमिरण करता है।

ठीक यही गीता में है कि चार वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या मनुष्य को चार श्रेणियों में बाँटा? भगवान् कहते हैं—नहीं, “कर्माणि प्रविभक्तानि”—कर्म को बाँटा। साधन-पद्धति को हमने चार भागों में बाँटा। उस बँटवारे के अनुसार आचरण करना हमारा धर्म है। इसीलिए वर्ण हमारा सनातन धर्म है। यदि हम भजन की विधि नहीं जानते तो हमारे लिए कोई वर्ण नहीं है। तब तक हम इस संसार के क्षेत्र में कार्यरत प्रकृति की चक्की में पिसने वाले एक प्राणी हैं। इन्हीं में से जब साधना समझ में आयी, समझकर सुमिरण शुरू किया, भगवान् स्वीकृति प्रदान करने लगे, उस दिन से वह शूद्र है। इसके पूर्व जब तक वह कर्म नहीं जानता, शूद्र भी नहीं है।

तुलसीदास जी ने इसकी शोध की है कि समाज में वर्ण किसने खड़ा कर दिया। रामचरित मानस में है कि एक बार गरुड़ जी को सन्देह हो गया कि भगवान् का अवतार हमने सुना; किन्तु वैसा कुछ प्रभाव देखने में नहीं आया।

“भव बंधन ते छूटहिं नर जपि जा कर नाम। खर्व निशाचर बाँधेउ नागपास सोई राम ॥” क्षुद्र निशिचर मेघनाद ने राम को नागपाश में बाँध दिया! हम न गये होते तो युद्ध का परिणाम न जाने क्या होता?

इतना मन में आना ही था कि गरुड़ को सन्देह ने धर दबोचा। उन्हें न रात चैन पड़ती थी, न दिन चैन पड़ता था। आत्मा शत्रु हो गयी। जहाँ शकुन मिलते थे, अपशकुन मिलने लगे। गरुड़ सीधे नारद जी के पास गये, अपना संशय कह सुनाया। नारद कौप गये। उन्होंने सोचा कि भगवान की इसी माया ने तो अनेकों बार हमें उलझाया है। वे बोले, “भाई! मैं समाधान नहीं कर सकता। आप ब्रह्मा के पास जायें।” विधाता ने विचार किया कि हरि की माया ने विपुल बार मुझे नचाया है, मेरी कृति गरुड़ यदि उलझ गया तो आश्चर्य ही क्या! उन्होंने समझाया, “आप शिवजी के पास जायें।” शंकर जी ने दृष्टि डालते ही समझ लिया कि वेचैनी का कारण क्या है? “होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खोवै चह कृपानिधाना ॥।” इसने कभी अभिमान किया होगा। सकल शोकदायक अभिमान। इस जीव के दुःख-दर्द का कारण अभिमान है, वही इसे हो गया है। भगवान इसका अहंकार मिटाकर इसकी रक्षा ही करना चाहते हैं। अस्तु, उन्होंने कहा, “गरुड़! तुम्हारा सन्देह तब दूर होगा, जब कुछ काल सत्संग करो। तुम ऐसा करो कि काकभुसुण्डि आश्रम चले जाओ, तुम्हारा दुःख दूर हो जायेगा।” उत्तर दिशा में एक सुन्दर गिरि नीलगिरी है। गरुड़ गये, शैल देखा। शिखर पर तालाब! तालाब में सात सीढ़ियाँ! सीढ़ियाँ मणियों से जड़ी हुई। पारदर्शी सीढ़ियाँ! चार शिखर जिन पर चार वृक्ष। रात-दिन भजन, रात-दिन सत्संग। अन्य कुछ वहाँ होता ही नहीं। कुटिया में पहुँचते ही गरुड़ के सारे सन्देह दूर हो गये और जहाँ उपदेश सुना, संदा-संदा के लिए निर्मूल हो गये।

गरुड़ ने सादर काकभुसुण्डि जी के चरणों में प्रणाम किया। पक्षियों के सम्राट गरुड़ ने पक्षियों में चाप्डाल कौवे को सादर नमन किया। भगवान और भगवद् धर्म का अभिमान तो कब का समाप्त हो गया। कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उन्होंने कहा— संशय सर्प ग्रस्त मोहिं ताता। दुखद लहर कुर्तक बहुव्राता ॥। तब सरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहिं जियाएउ जन सुखदायक ॥। तात! संशयरूपी सर्प ने मुझे डस लिया था। कुर्तकरूपी लहरें उठा करती थीं। आप ऐसे विषशामक मंत्रविद् के दर्शनमात्र से मेरा यह दंश-प्रभाव शामित हुआ, मुझे नवजीवन मिला। काकभुसुण्डि ने कहा, “नहीं गरुड़जी! आपको कोई सन्देह नहीं था। इसी

सन्देह के निमित्त भगवान ने आपको मेरे पास मुझे कृतार्थ करने के लिए भेजा है, और साधन-पथ में सन्देह स्वाभाविक है। कल प्राप्ति होनी है, आज तक माया कामयाब हो सकती है, उलझन पैदा कर सकती है।”

अत्यन्त मधुर व्याणी में काक ने कहा, “आप क्या सन्देह में पड़े, एक बार जैसा मैं पड़ा था। पूरब कल्प एक प्रभु, युग कलियुग मलमूल। नर और नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। ॥७॥९६५॥ बहुत पहले की बात है। पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल कलियुग था। नर और नारी अधर्मरत थे। सभी वेदपथ के विपरीत चलने वाले थे। (काकभुसुण्डि जी अपना संस्मरण सुना रहे हैं, आज व्रेता है इसके पहले सतयुग, उससे भी बहुत पहले एक कलियुग था। उससे भी एक हजार जन्म पूर्व का संस्मरण! नीलगिरि पर महर्षि काक के सत्ताईस कल्पों के निवास से भी पहले का एक संस्मरण! कई लाख वर्ष पूर्व की घटना! उसका संस्मरण वे सुना रहे हैं, न कि इक्कीसवीं शताब्दी का वर्णन कर रहे हैं। आजकल के सन्दर्भ में इसे न लें।) उस समय मैं शूद्र-तन में था। वह हमारा प्रथम जन्म था।”

प्रथम जन्म का आशय क्या है? जीव ईश्वर का अंश है। क्या वह टुकड़ा पहली बार ईश्वर से अलग हो रहा था? नहीं! जन्म वही सराहनीय है जिसमें आत्मिक जागृति हो जाय। यह जागृति ही जन्म है। ऐसा जन्म जिसमें मृत्यु नहीं होती; क्योंकि ईश्वर-पथ में बीज का नाश नहीं होता। उन्हें भगवान शंकर का आशीर्वाद भी था कि किसी भी जन्म में उनका पूर्वज्ञान मिटेगा नहीं। उस युग का वर्णन करते हुए वे कहते हैं- कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रन्थ। दंभिन्ह निज मति कल्प करि, प्रगट किए बहु पन्थ। ॥१॥९७(क)॥

कलियुग के पापों ने सारा धर्म उदरस्थ कर लिया, सदग्रन्थ लुप्त हो गये किन्तु दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके तमाम पंथ गढ़ लिये, ‘प्रकट किये बहु पन्थ।’ कलियुग ने क्या ग्रस लिया था? ग्रसा था धर्म! धर्म होता क्या है? वर्ण-धर्म! वरन् धरम नहिं आश्रम चारी। श्रुति विरोध रत सब नर नारी।।’ वर्ण-धर्म था ही नहीं, न चार आश्रम थे। कलियुग ने जिसको ग्रस लिया था, वह था वर्ण-धर्म। सब लोग वियोग विशेषक हुए। वरनाश्रम धर्म अचार गए। सब लोग प्रियजनों के विच्छोहजन्य शोक से मृतप्राय हो गये। वर्णाश्रम के धर्म आचरण तिरोहित हो गये। धर्म के नाम पर जो प्रचलित था वह तो दम्भि-बुद्धि की कल्पना से गढ़ा हुआ धर्माभास और समानान्तर धर्म था। धर्म

साधना की श्रेणियाँ, भगवत्-पथ के सोपान; किन्तु दम्भियों ने जो गढ़ा तो मनुष्यों को बाँट दिया— जे वरनाधम तेलि कुम्हारा। स्वपच किरात कोल कलवारा॥  
नारि मुई गृह संपति नासी। मूड़ मुड़ाइ होहिं संन्यासी॥

उन्होंने नये-नये नियम गढ़ लिए कि वर्णों में अधम कौन? तेली, कुम्हार, श्वपच, कोल, किरात, कलवार, चमार, धोबी इत्यादि जातियाँ। जो मजदूरी करके जीवन-निर्वाह करते थे, अधम माने गये। सेवा करके जीविकोपार्जन करने वाले उनके द्वारा अधम कहे गये। भजन का अधिकार इनसे छीन लिया गया। स्त्री मर जाने या सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर वे संन्यासी होने लगे। उनका यह कृत्य उस कलियुग में अन्याय माना गया—

नारि मुई गृह संपति नासी। मूड़ मुड़ाइ होहिं संन्यासी॥  
ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहिं। उभय लोक निज हाथ नसावहिं॥

वे विप्रों से अपनी पूजा कराते और इस प्रकार अपना दोनों लोक नष्ट करते हैं। यह लोक तो तभी नष्ट हो गया कि हम अधम हैं- न मन्दिर जा सके न पूजा कर सके। अगला लोक भी नष्ट। जब कलियुग ने धर्म को ग्रस लिया था, वर्ण थे ही नहीं तो ये विप्र कहाँ से आ गये। काकभुसुण्डि जी ने बताया कि विप्र भी बना लिए गये थे- द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। जनेऊ पहन लिया, द्विज हो गये। वस्त्र फेंक दिया, तपस्वी बन गये। ब्राह्मण की जो गीतोक्त परिभाषा है, ‘शमः दमः तपः शौचः’-इन्द्रियों का दमन, मन का शमन, तप (इष्ट के अनुरूप मनसहित इन्द्रियों को तपाना), स्वरूप का अध्ययन, आस्तिकता, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि लक्षण वाले ब्राह्मण नहीं थे। फिर वे थे कैसे? विप्र निरक्षर लोलुप कामी। निराचार शठ वृषली स्वामी॥। निरक्षर, लोलुप, कामी, चरित्रहीन, शठ, धोखेबाज और स्वैराचारी भी विप्र कहलाने लगे। कैसे पहचाने विप्र को? जनेऊ जो थी “द्विज चिन्ह जनेऊ।” इस प्रकार उन दंभियों ने शूद्र भी गढ़ लिये, विप्र भी गढ़ लिये। ऐसे विप्रों से पूजा कराने से हमारा दोनों लोक कैसे नष्ट हो जायेगा?

इस प्रकार मानव-मानव में वर्ण-विभाजन उस युग-जमाने के दंभियों की देन थी; उसकी लकीर आज आप क्यों पीट रहे हैं? तुलसीदास जी या उनकी रामायण यह नहीं कहती कि मजदूरी करनेवाले हीन या अधम हैं। गोस्वामी जी की तो मान्यता है कि ‘बुध जुग धर्म जानि मन भाहीं। तजि अधर्म रति धर्म ॥।।।’ प्रबुद्ध लोग धर्म का उतार-चढ़ाव मन में जानते हैं। जिसकी मानसिकता

बाहर जाति-पाँत में धर्म छूँढ़ती है वह गोस्वामी जी के अनुसार, उस कलियुग के दंभियों के कल्पना की उपज है। वे उसी परम्परा से प्रभावित हैं, जो लाखों वर्ष पहले व्यतीत हो गया था। आज भी उसी लकीर को पीटना अपनी क्षुद्रता का घोतन मात्र है।

### रामराज्य में वर्ण-धर्म

वर्ण हमारा सनातन धर्म है। रामचरित मानस के अनुसार जब त्रेता में राम का राज्याभिषेक हुआ, रावण मारा गया, राम अभिषिक्त हो गये, धर्म लौट आया।

वरनाश्रम निज धरम, निरत वेद पथ लोग।

चलहिं सदा पावहिं सुखहि, नहिं भय सोक न रोग ॥७/२०॥

वर्ण अर्थात् साधना की श्रेणी जो आपको उपलब्ध है, उसी के आश्रित व्यवहार करना आपका निज धर्म है। उसी की पूर्ति के लिए आपको प्रयत्न करना है इसलिए आश्रम भी कहलाता है। इस वर्ण और आश्रम के अनुसार रामराज्य में लोग अपने-अपने धर्म में वेद के अनुसार आचरण करते थे। चारों वर्णों के लोग वेद के ज्ञाता थे। शूद्र थे अवश्य लेकिन वेद के ज्ञाता थे। आप ही बतायें, यह रामराज्य का शूद्र कैसा है? कुछ लोग कहते हैं कि शूद्र वेद न पढ़े, संस्कृत न पढ़े। यह बाहर की व्यवस्था तो काकभुसुण्ड जी के कलियुग के दंभियों की देन थी, जो बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक आ गयी, आगे भी जा सकती है; किन्तु तुलसीदास के अनुसार रामराज्य में शूद्र वेद समझने और तदनुसार रास्ता चलने वाले थे।

अत्य मृत्यु नहिं कवनित पीरा। सब सुन्दर सब विस्ज सरीरा ॥

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुधं न लच्छन हीना ॥

राम के राज्य में सम्पूर्ण समाज चार वर्णों में बँटा था। उसके अनुसार चलना ही धर्म था लेकिन दरिद्र कोई नहीं था। झाड़ लगाने वाला था लेकिन सम्पत्ति में वह नरेश से कम नहीं था। दुःखी कोई नहीं, असहाय कोई नहीं। ‘नहिं कोउ अबुध’—सब प्रबुद्ध थे। यह नहीं कि शिक्षा का अधिकार किसे है, किसे नहीं। ‘सब गुणज्ञ पण्डित सब ज्ञानी।’—सभी गुणों की खान पंडित और ज्ञानी थे। शूद्र थे अवश्य लेकिन थे पण्डित! आप ही बताएँ वर्ण क्या है?

एक राजघाट था। गोस्वामी जी कहते हैं, “राजघाट सब विधि सुन्दर वर। मज्जहिं तहाँ वरन चारिड नर ॥” चारों वर्णों के लोग एक साथ राजघाट पर

अवगाहन करते थे। रामजी वहीं नहाते थे, वशिष्ठ जी वहीं स्नान करते थे, चमार भी वहीं स्नान करता था। यह नहीं कि दूर बैठो! हमें मत छूना!

वर्ण साधना के सोपान हैं। वरण कहते हैं चयन को। एक ही योग-साधना के चार सोपान हैं। जिस घट में राम का राज्य है, उन महापुरुष के संरक्षण में जो भी साधक और भक्तमण्डल हैं, वे सब उनके रामराज्य के निवासी हैं। उनमें से जब इष्टदेव राम हृदय से जागृत होते हैं, जिस दिन से वह भजन में प्रवृत्त होता है उसी दिन से इस वर्ण की शुरुआत है। यहीं से धर्म शुरू होता है। ‘वरणाश्रम निज निज धरम’—अपना-अपना धर्म! जिसे जो श्रेणी उपलब्ध है वहीं से वह साधना करता है। ‘निरत वेदपथ लोग।’—वे निरत अर्थात् अनासक्त रहकर चलते थे। वेद अपौरुषेय है। वेद कोई पुस्तक नहीं है। वेद परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है। तब भी यह ऐसा ही था, आज भी है और भविष्य में भी। ज्योंहीं साधक भजन में प्रवृत्त होता है, अपौरुषेय परमात्मा उसके भीतर बोलने लगता है, वह वाणी उत्तरने लगती है। उस वाणी को समझकर, भली प्रकार अध्ययन करके उनके अनुसार रामराज्य के निवासी आचरण करते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह-शाम आँख मूँद लिया और भजन हो गया या भजन के साथ कुछ मनोरंजन कर लिया, चाय पी लिया, थोड़ा हँस लिया- ऐसा कुछ नहीं। भजना-नन्दी को हँसी आती ही नहीं। उसकी स्थिति तो ‘गदगद गिरा नयन वह नीरा’ की होती है। ‘जागत में सुमिरन करे, सोवत में लव लाय। सुरत डोर लागी रहे, तार दूट ना जाय।।’ रामराज्य का निवासी ‘चलहि सदा’- अहर्निश साधन में अनुरक्त रहता है। ‘पावहिं सुखहिं’- वह सुख प्राप्त करता है। सुख है क्या? नहिं भय शोक न रोग। जहाँ भय न हो, शोक न हो, प्रियजनों का वियोग न हो और रोग न हो। भय काल का होता है। यदि साधक निरन्तर इष्ट के निर्देशन में चलने वाला है, तो उसके पथ में भय है ही नहीं, न शोक है न रोग। एक रोग शारीरिक होता है- जैसे फोड़ा हो गया। यह तो शरीर का विकार है। दूसरा रोग है भवरोग, जैसे- ‘मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला’ इत्यादि। रामराज्य के निवासियों को ये भवरोग नहीं होते।

जिस दिन से परमात्मा हृदय से रथी हो जाते हैं, भजन पढ़ाने लगते हैं, उसी क्षण से भजन की शुरुआत हो जाती है। समझ लें उसका प्रवेश हो गया। कैसा भी कोई विद्वान क्यों न हो, पी-एच.डी. का गाइड ही क्यों न हो, शिशु के छात्र को पी-एच.डी. की शोध नहीं पढ़ाएगा। उसे तो वह अक्षर-ज्ञान

से आरंभ करेगा कि 'क' ऐसे लिखो। साधक यदि आरंभिक स्तर का है तो भगवान् भी उसे वहीं से बताते हैं- कर सेवा, बैठ, उठ! वे उसे वहीं से शुरू करके, उसका क्रमशः उत्थान करते हुए, उसका वर्ण-परिवर्तन कराते हुए वर्णों से पार कर देते हैं। साधक का काम है अपौरुषेय वाणी इष्ट के निर्देशन को समझे और निरन्तर लगे।

इस भगवत्पथ में बीज का नाश नहीं है, आरंभ का उन्मूलन नहीं है। एक बार साधना जागृत हो गई तो बीच में कहीं कोई रुकावट है ही नहीं। इसलिए रामराज्य में 'अल्प मृत्यु नहिं कवनित पीरा।' संसार में अल्पमृत्यु का अर्थ है अल्पायु में मरना, जैसे- कभी-कभी बच्चे काल कवलित हो जाते हैं किन्तु राम के राज्य में ऐसा नहीं होता। जहाँ साधना जागृत हुई, अंकुर फूट गया, दो पत्ती दिखायी दे गयी तो माया में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि उसे कुचल दे। वह वृक्ष होगा, फलेगा। यदि आपने श्वास के रहते-रहते ईश्वर के पथ में दो कदम रख दिया, अगले जन्म में तीसरा कदम ही रखेंगे और दो-चार जन्मों के अन्तर से आप अपने को वहीं पायेंगे जो राघवेन्द्र सरकार का स्वरूप, परमधाम है। अतः 'अल्प मृत्यु नहिं'-भजन जागृत हो गया तो अल्पमृत्यु है ही नहीं। वह तो लक्ष्य को दिलाकर, स्वरूपस्थ करके ही दम लेगा। 'नहिं कवनित पीरा'-भगवान् की अपौरुषेय वाणी को सुनकर निरन्तर चलने वाले को कोई पीड़ा नहीं होती। पीड़ा तो तब है जब भजन में किसी प्रकार मन नहीं लगेगा। पीड़ा तो तब है जब हम भजन छोड़कर बाहर झाँकेंगे। मन एक ऐसा यंत्र है कि कभी छुट्टी लेता ही नहीं। कदाचित् आपने इसे भजन से छुट्टी दे दी, यह माया में कार्य करेगा और ऐसा कुछ गढ़कर रख देगा जो आपकी पीड़ा का कारण होगा। पीड़ा हमें तब मिलती है जब हम भजन में लापरवाह होते हैं; किन्तु इष्ट की आज्ञा पर निरन्तर चलने वाले पथिक के लिए 'अल्पमृत्यु नहिं कवनित पीरा' कोई पीड़ा नहीं रहती।

'सब सुन्दर सब विरुज सरीरा'- राम के राज्य में सब सुन्दर थे। क्या काना, कुबड़ा, त्रिबंका कोई था ही नहीं? क्या वृद्ध, युवक, बच्चे सब एक जैसे सुन्दर थे? ऐसा कुछ नहीं! चिन्तन की नियत विधि से आप ज्यों-ज्यों लगेंगे, ईश्वरीय आभा आप में उतरती चली जायेगी। आप प्रभु का प्रतिविम्ब पाते जायेंगे। वही आपका सौन्दर्य है। शरीर में भला कौन सौन्दर्य है? शरीर आप हैं भी तो नहीं। शरीर तो कुछ दिनों के लिए हमें पड़ाव मिला है। इसे सुन्दर और

असुन्दर कहने और बनाने में आप अपना बहुमूल्य समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? करोड़ों प्रयत्नों के बाद भी इसे मिट जाना है। रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य इत्यादि अल्प आयु में ही चले गये। शरीर की सुन्दरता हमारा लक्ष्य नहीं है। यह तो 'साधन धाम मोच्छ कर द्वारा' साधना के लिए है। मानव तन मुक्ति का दरवाजा है। यह मिला है साधना करने को। 'सब विरुज्ज सरीरा' ज्यों-ज्यों आप इस पथ पर चलेंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि मानस रोग घटते जायेंगे, आरोग्य रूप प्राप्त होता जायेगा, जो आपका सहज रूप है।

"नहिं दरिद्र कोउ"-ईश्वर-पथ में कोई दरिद्र होता ही नहीं। हाथ में कमण्डल, एक डंडा कौन-सी अमीरी है? वास्तव में आत्मिक सम्पत्ति ही स्थिर सम्पत्ति है। अपौरुषेय वाणी को जिसने सुना-समझा, निरन्तर लगा। वह ज्यों-ज्यों लगेगा आत्मिक सम्पत्ति उसमें उत्तरती जायगी, ईश्वरीय विभूति उत्तरती जायगी, उससे वह सदा समृद्ध रहेगा। 'नहि कोउ अबुध'- वह प्रबुद्ध है। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। उसके अन्दर जानकारी स्वतः उत्तरती जा रही है। वहीं से वह समझता है और चलता है। ईश्वर-पथ के पथिक में जो भी लक्षण चाहिए, सब रामराज्य के निवासियों में है।

सब गुज्ज पण्डित सब ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहिं कपट स्यानी ॥

सब गुणों की खान, सब पण्डित और सभी ज्ञानी। शूद्र भी पण्डित, वैश्य भी पण्डित, क्षत्रिय और ब्राह्मण भी। वह जिस श्रेणी का है, उसकी साधना कैसे करे—इसकी अनुभूति उसके साथ है; क्योंकि वह वेद-पथ है। वेद कहते हैं जानकारी को! जो परमात्मा अविदित है, अदृश्य है क्रमशः उसका विदित होना वेद कहलाता है। प्रभु स्वयं समझायें तभी समझ में आता है। भगवान बताते हैं कि तुम कहाँ हो। शूद्र श्रेणी है तो उस स्तर से, वैश्य श्रेणी पर है तो उसी स्तर से, संघर्ष झेलने की क्षमता है तो उसी स्तर से। इसलिए चारों-सब गुणज्ञ हैं, साधना का सभी का पूर्ण बोध है। सब ज्ञानी हैं। "सब कृतज्ञ नहिं कपट स्यानी।" थोड़ा भी उपहार करने वाले का प्रत्युपकार करने को तत्पर! रामराज्य के इन साधकों में कपट नहीं होता, धोखाधड़ी-धूर्तता कभी हो ही नहीं सकती। 'सब ज्ञानी' का लोग अर्थ लेते हैं कि किसने कितना अध्ययन किया है। लेकिन योग-साधना में ज्ञान का अर्थ केवल इतना ही है कि भगवान ने आपको क्या पढ़ा दिया, उसे समझे—वहस इतना ही ज्ञान है।

गीता, १३/११ में है, “अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थं दर्शनम् । एतज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥” अर्थात् आत्मा के आधिपत्य में निरन्तर चलना, भगवान् क्या कह रहे हैं उसे समझना, उसी के अनुसार चलना ज्ञान की शुरुआत है और उन्हीं के निर्देशन में चलते-चलते तत्त्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन तथा उसके साथ मिलनेवाली ज्ञानकारी ज्ञान की पराकाढ़ है तथा इसके विपरीत जो कुछ है सब अज्ञान है। इसलिए राम के राज्य में सभी ज्ञानी हैं।

**राजघाट सब विधि सुन्दर वर । मज्जहिं जहाँ बरन चारिउ नर ॥**

राज का अर्थ लोग क्षत्रिय लगाते हैं, जैसे- कोई क्षत्रिय महात्मा हो गया तो राजर्षि कहेंगे। ब्राह्मण महात्मा को कहेंगे ब्रह्मर्षि! दूसरी जातियों को कौन ऋषि कहेंगे, भगवान् जानें। रामराज्य में यजनपूर्ण स्वर ही सरयू है। आज आप भजन-साधन आरंभ करते हैं तो श्वास से लगना होगा। दस साल से कोई रगड़ रहा है तो भी श्वास का ही भजन कर रहा है। प्राप्ति के समीप पहुँचने पर भी भजन श्वास का ही चलता रहता है। अस्तु, राम के राज्य में घाट एक ही था। भजन करने का तरीका एक ही है। आरंभ में श्वास पकड़ में नहीं आती तो बैखरी और मध्यमा चलती है। जब श्वास पकड़ में आ गयी तो पश्यन्ति और परा का क्रम आता है। साधना के आरंभिक स्तर के साधक ने साधना में प्रवेश ही तो किया है इसलिए अल्पज्ञ है, छोटा है, क्षुद्र है, शूद्र है। वह दस घंटे भजन में बैठेगा फिर भी दस मिनट मन को शान्त नहीं कर पायेगा, इसलिए वह शूद्र है, वह अल्पज्ञ है। वैश्य श्रेणी का मध्यम साधक पचास प्रतिशत तक की सफलता प्राप्त कर लेता है। उससे उन्नत क्षत्रिय श्रेणी का साधक विकारों को काटते हुए श्वास में पश्यन्ति श्रेणी से लगता है और तीन चौथाई रास्ता तय कर लेता है। जहाँ विकार शान्त हुए, परा में प्रवेश के साथ ब्राह्मण श्रेणी आ जायेगी। चारों वर्णों के लोग इस यजनपूर्ण स्वररूपी सरयू में अवगाहन करते हैं।

**वस्तुतः वर्ण योगं-साधना के चार सोपान हैं । एक ही भगवत्पथ को चार श्रेणियों में बाँटा गया है। प्रथम चरण में प्रवेश करने वाला पथिक क्रमशः उत्थान करते-करते चौथी श्रेणी पार कर भगवान् की महिमा पाकर ब्रह्मर्षि कहलाता है। यही कारण है कि जन्मना ब्राह्मण न होते हुए भी विश्वामित्र, वाल्मीकि, व्यास, कण्व, भरद्वाज, शृंगी ऋषि सब के सब ब्रह्मर्षि कहलायें। वाल्मीकीय रामायण के अनुसार, राम जब शवरी के पास पहुँचे तो पूछा, “तुम्हारी तपश्चर्या सुचारु रूप से चल रही है? जिन ब्रतों को तुमने अपनाया, उनका निर्वाह तो हो रहा है?**

गुरुजनों की जो सेवा की, उसका फल तुम्हें मिला?" शबरी चरणों में गिरकर बोली, "प्रभु! आज आपके दर्शन में मेरी तपस्या पूर्ण हुई, ब्रत पूर्ण हुए और गुरुजनों की सेवा का फल प्राप्त हुआ।" रामचरितमानस के अनुसार शबरी ने अपना परिचय दिया- अधम ते अधम अधम अति नारि। एक तो अधम कोल-किरात, उसमें अधम नारी और उसमें मैं अनपढ़ मतिमन्द हूँ। राम ने कहा, "शबरी! मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। चराचर में कोई भी हो, नारी-नर अथवा नपुंसक ही क्यों न हो, जो भी मुझे सर्वभाव से भजता है, मुझे परमप्रिय है। भक्ति के नौ अंग हैं। प्रथम भगति संतन्ह कर संगा।..... इत्यादि। इनमें से एक भी जिसके पास है, मुझे परमप्रिय है। तुम्हारे पास तो भक्ति नवों अंगों से परिपूर्ण है। तुम मेरे धाम जाओ।" यदि आप अब भी यह मानते हैं कि शूद्र को भजन का अधिकार नहीं है तो क्या शूद्रिन को भजन करने का अधिकार है? राम के राज्य में शूद्र हैं अवश्य लेकिन वेद के प्रकाण्ड विद्वान! शूद्र हैं अवश्य लेकिन धनवान! शूद्र हैं अवश्य लेकिन पंडित! शूद्र हैं अवश्य लेकिन साथ-साथ स्नान करने वाले! क्या है शूद्र? यदि हमारा भजन ही जागृत नहीं है, अपौरुषेय वाणी-नहीं उत्तरती और उसको समझकर 'चलहिं सदा'-सदा उस पर चलने की प्रवृत्ति नहीं आयी तो हम शूद्र भी नहीं, जड़ जीव मात्र हैं।

॥ ॐ श्री सद्गुरु भगवान की जय ॥

## राज्यकृपा?

भगवान् जब अत्मा से रथी हैं, ऐसी स्थिति में जो साधना में प्रवेश पा चुका है, ऐसा साधक शूद्र (अल्पज्ञ) है।

वह संसार-वृक्ष (गर्भवास) में उलटा लटका है; किन्तु शम्बूक अर्थात् स्वांग भरता है पूर्णत्व वालों का।

ऐसा करते ही ब्रह्मण बालक मर गया अर्थात् हृदय में जो ब्रह्म-चिन्तन जागृत हुआ था, वह कुण्ठित हो गया।

भगवान् राम अन्तःकरण से रथी हैं अतः इस कमी को खोज निकाला और त्यागरूपी तलवार, अपौरुषेय प्रेरणा के द्वारा उसे नीचे गिराया तो ब्रह्म-चिन्तन पूर्ववत् होने लगा।

इस प्रकार शम्बूक रामचरित मानस का एक यौगिक शब्द है।

-स्वामी अड्डगड़ानन्द

## श्रमचूक?

विश्व को एकता दी तो भारत ने! सर्वप्रथम वैदिक महर्षियों ने उद्घोष किया, ‘श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः’— हे सम्पूर्ण विश्व के मानव! तुम अविनाशी के पुत्र हो। एकता का यह सूत्र विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं था; किन्तु आज संसार में फूट में जीने वाला कोई देश है तो भारत! बुद्धिजीवियों ने यहाँ की भोली-भाली जनता को आपस में लड़ाकर उनका कचूमर निकाल दिया। उन्होंने कह दिया कि यह तेली है, वह कुम्हार है, ठाकुर है या ब्राह्मण है। ऐसी फूट पूरे भारत में कभी नहीं थी। आज लोग अवर्ण-सर्वण की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगड़ी और पिछड़ी जातियों के आरक्षण में बिखरे हैं। ऐसा यहाँ कभी नहीं था। काशी में एक वरिष्ठ नेता जी बोल रहे थे, “राम को मैं इसलिए दोष देता हूँ कि हमारे श्री शम्बूक जी का उन्होंने वध क्यों कर दिया?” हजारों लोग आए दिन मारे जाते हैं। अभी मद्रास में एक घटना घटी। वहाँ सम्भवतः हरिजन अधिक मारे गये। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि लड़कों को रोटी मिली या नहीं? और यहाँ कई लाख वर्ष पहले कोई घटना घट गयी तो हाय हमारे शम्बूक जी! वे उस घटना को याद कर रहे हैं केवल फूट डालने के लिए। इन लोगों को शास्त्र का ज्ञान नहीं है और हो भी नहीं सकता।

शास्त्र में लिखा है कि ‘यह चरित्र जानहिं मुनि ज्ञानी।’ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा तो यह भी निर्णय दिया कि इसे समझने की क्षमता किनमें है? जिनमें क्षमता पायी गयी, उनका नाम लेकर बताया कि इस शुभ चरित्र को वही जानेंगे जो मुनि हैं, ज्ञानी हैं। ‘यह शुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम की जा पर होई॥।’ अथवा वह भी जान सकेंगे जिन पर राम की प्रत्यक्ष कृपा है। सब नहीं जान सकते। अभी चुनावों के गर्मागर्म माहौल में कतिपय नेता रामजी को इस प्रकार सम्बोधित कर रहे थे मानो वे उनके चाचा या पड़ोसी रहे हों। उनके शब्द थे कि मैं राम को दोष देता हूँ। वाह! रावण भी इसी प्रकार बोलता था, तो क्या ये मुनि या ज्ञानी की श्रेणी में हैं।

भगवान राम के काल में मनुष्यों में दरार डालने वाली आज की प्रचलित जातियाँ थीं ही नहीं। वर्ण योग-साधना के चार सोपान हैं। यदि हमें योग-साधना का ज्ञान नहीं है, क्रिया समझकर दो कदम हमने नहीं रखा तो हम चार वर्णों में से किसी श्रेणी के नहीं हुए। साधना में प्रवेश के पश्चात् ही ये उपलब्धियाँ हैं। शूद्र तो भाग्यवान बन पाता है, जिसने साधन समझकर चलना आरम्भ कर दिया हो। क्रिया समझना ही पर्याप्त नहीं है, चलना भी है। मनुष्यों के बँटवारे का नाम वर्ण था ही नहीं। कदाचित् ऐसा होता तो कोई तो ब्रह्मर्षि शुक्ला, तिवारी, पाण्डेय जी, दूबे जी या मिश्रा जी में से होता। उस युग में एक भी ब्रह्मर्षि परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ। उस काल के जितने भी ब्रह्मर्षि हुए हैं, कुछ तो यत्र-तत्र पड़े मिल गये। कतिपय सुलक्षणाएँ रास्ता भटक गयी होंगी, जैसे— कुन्ती ने परिस्थितिवश कर्ण का परित्याग कर दिया था। इसी प्रकार शृंगी ऋषि मृगों के एक झुण्ड में पड़े मिले थे। माण्डव्य ऋषि की दृष्टि पड़ी तो उस बच्चे का पालन किया, उसे ब्रह्म-चिन्तन की विद्या बतायी। वे ब्रह्मर्षि हुए। इन्हें ब्रह्मर्षि बनने के लिए सामाजिक कुलीनता का कोई सहयोग नहीं मिला है। वृहस्पति और उत्थ्य की संतान भरद्वाज ऋषि नदी में मंजूषा में बहते हुए मिले। वरुण ने वह मंजूषा पकड़ लिया। प्रतीत होता है कि उस युग में केवटों की पवित्र जाति वरुण रही होगी। अस्तु, वरुण ने पालन-पोषण किया। भरद्वाज अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न निकले।

उस समय आर्यावर्त में महाराजा भरत का शासन था। उन्होंने अपने किसी भी पुत्र में शासन की क्षमता न देख भरद्वाज को गोद ले लिया, उनका राज्याभिषेक कर दिया। भरद्वाज जी संस्कारी पुरुष थे। सब कुछ त्यागकर वे प्रयाग के प्रख्यात ऋषि हुए। इसी क्रम में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ उर्वशी के पुत्र थे। नारद दासी-पुत्र थे। वाल्मीकि कोल-किरात थे। विश्वामित्र जी विश्वरथ नामक क्षत्रिय नरेण थे। उन्होंने वशिष्ठ जी से भीषण युद्ध किया। अन्ततः वह बोले, “क्षात्रवल को धिक्कार है। ब्रह्मवल ही वस्तुतः बल है। मैं ब्रह्मवर्चस् प्राप्त करूँगा।” वह तपस्या में संलग्न हो गये। भगवान द्वारा ली गयी परीक्षा में तीन बार अपने को असफल पाकर उन्होंने भगवान के अनुग्रह की याचना की और सफल हो गये।

इस प्रकार जितने भी ऋषि, महर्षि और ब्रह्मर्षियों का इतिवृत्त मिलता है आज की भाषा में सबके सब अस्पृश्य वर्ण से थे। महर्षि अगस्त्य भी घड़े में मिले थे। यह परम्परा द्वापर तक चली। वेदव्यास कुँवारी कन्या के पुत्र थे। उस युग में उनसे बड़ा ब्रह्मर्षि कोई नहीं था। यदि जातिगत वर्ण होता तो कोई तो ब्रह्मर्षि

तिवारी, उपाध्याय में से निकलता ? एक भी तो नहीं निकला। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक जातियाँ नहीं थीं। मनुस्मृति आज की कलियुगीन व्यवस्था देती है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला ही ब्रह्मर्षि हो सकता है। क्षत्रिय राजर्षि तो हो सकता है, ब्रह्मर्षि नहीं हो सकता। वैश्य भजन करे किन्तु ऋषि नहीं हो सकता, जबकि पूर्ववर्ती ब्रह्मर्षि सब के सब आज के शिड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति) से ही थे। उस समय तो यह व्यवस्था थी ही नहीं। बड़े भाग मानुस तन पावा। -बड़े भाग्यवान मानव-तन ही थे; किन्तु आज के तो अनुसूचित जाति ही थे।

महर्षि वाल्मीकि के लिए रामचरित मानस में आता है कि 'उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥' उल्टा नाम जपकर वाल्मीकि जी ब्रह्म के समानान्तर स्थिति पा गये। इसी चौपाई के ठीक नीचे उनका परिचय देते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं-

शबर श्वपच खस जमन जड़, पामर कोल किरात ।

नाम लेत पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥

कोल-किरात वंश में दस्यु रत्नाकर को सन्तों का सान्निध्य प्राप्त हुआ। पहले तो वे लूटने को ही झपटे किन्तु उन महापुरुषों की कृपा से साधना समझ में आयी। साधना हृदय में घर कर गई और वे ब्रह्मर्षि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वन-गमन के समय भगवान राम ने अनेक ऋषियों का दर्शन किया। अनेक ऋषियों ने राम के चरणों में नमन किया। कहीं-कहीं भगवान राम ने सादर नमन किया, कहीं हाथ उठाया, कहीं सिर झुकाया, कहीं मस्तक टेका; किन्तु कुछ विभूतियाँ ऐसी भी थीं जहाँ भगवान राम ने सांस्टांग दण्डवत् किया। उदाहरणार्थ-वाल्मीकि जी के लिए है कि 'मुनि कहँ राम दण्डवत् कीन्हा। आसिरवाद विप्रवर दीन्हा ॥' उन विप्र शिरोमणि ने आशीर्वाद दिया। क्या वाल्मीकि ब्राह्मणगोत्रीय थे? एक भी ऐसा महापुरुष ब्रह्मर्षि नहीं है जिसके ब्रह्मर्षित्व में जातिगत कुलीनता का सहयोग हो।

**सारांशतः** राम के काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक सामाजिक जातियाँ थीं हीं नहीं और न इनका निर्धारण जन्मना होता था। यह साधना की आन्तरिक क्षमताओं का नामकरण था। जिस प्रकार आजकल आई.ए.एस., पी.सी.एस. का चयन है, उसी प्रकार साधनात्मक प्रशिक्षण का आरंभिक चरण शूद्र है। यह भजन की प्राथमिक सीढ़ी है। करोड़ों में से कोई भाग्यवान इस पर आरोहण करता है।

रामराज्य में एक शूद्र भूल कर बैठा। उसका नाम शंबूक था। वह एक वृक्ष की शाखा में शिर नीचे और पैर ऊपर कर तपस्यारत था। उसने इस तरह तपस्या आरम्भ की कि ब्राह्मण-बालक मर गया। रामराज्य में तहलका मच गया कि यह हुआ कैसे? ऋषि-महर्षियों ने खोजना शुरू किया। अनुमान किया कि कोई शूद्र तपस्या कर रहा है; किन्तु वे उसे देख नहीं पाये। राम ने उसे खोज निकाला और उससे पूछा—क्या कर रहे हो? शंबूक बोला कि मैं सदेह धाम जाना चाहता हूँ अर्थात् शरीर रहते स्वरूप पाना चाहता हूँ। राम आपका कल्याण हो। मैं शूद्र हूँ। राम ने तलवार निकाली। उसे पेड़ से गिरा दिया। शम्बूक के शिरोच्छेद के साथ ही वह ब्राह्मण-बालक जी गया। देवताओं ने दुन्दुभियाँ बजाई। बिगड़े हुए धर्म की पुनर्स्थापना हो गयी।

क्या सर्जरी थी! ऐसा इलाज तो कभी सुना नहीं गया। न जल्ने कब का मरा ब्राह्मण-बालक जी गया। क्या ऐसा सम्भव है कि आपका कला काट दें और दूसरा जीवित हो जाय? शूद्र को मार दें और ब्राह्मण पुनर्जीवित हो जाय? आपके यहाँ कोई पण्डित दिवंगत हो गया हो तो एक शूद्र मारकर देख सकते हैं कि वह जीवित होता है या नहीं? वास्तव में क्या है यह शम्बूक प्रकरण?

वस्तुतः रामायण या रामचरित मानस रहस्यमय ग्रन्थ है। इसके सभी कथानकों का अर्थ (प्रत्यक्षतः) अभिधा में खोजेंगे तो आप भटकते रह जायेंगे। उदाहरण के लिए, रामायण में है कि सीता की शुद्धता की परीक्षा के लिए उन्हें अग्नि में डाला गया। अग्नि शान्त होने पर वही सीता बग्हर निकल आयी। आज भी आप इस विधि का प्रयोग कर देखें। क्या कोई इस विधि में जीवित रह सकता है? लोग कहते हैं कि राम ने नरलीला की अर्थात् प्राकृत आदमी जैसा करते हैं वैसा आचरण किया। तब तो यह सामान्य मनुष्य के लिए सम्भव है। आप शुद्धता की परीक्षा में कुँवारी कन्या को ही अग्नि में डालकर देखें। जब वह लौटकर आ जाय तो प्रायः सभी मान लेंगे। क्या है सीता की अग्नि-परीक्षा?

सीता की अग्नि-परीक्षा, शम्बूक प्रकरण आध्यात्मिक रूपक हैं। शास्त्र दो दृष्टियों से रचा जाता है। एक, इतिहास को कायम रखना जिससे लोग पूर्वजों के पदचिन्हों पर चल सकें, आदर्श जीवन जी सकें। किन्तु कुशलतापूर्वक जी-खा लेने से, आयु के दिन पूरे कर लेने से हम सबका कल्याण सम्भव नहीं है, कर्तव्यों की पूर्ति नहीं है इसलिए शास्त्र में दूसरा पहलू है अध्यात्म। हर जीव माया के आश्रित है। इसे माया के चंगुल से निंकाल कर जो आत्मा की अधिकृत भूमि में

खड़ा कर दे, भगवान उठाये-बैठाये, चलाये-सिखाये—उसका नाम अध्यात्म है। पूरी की पूरी रामायण अध्यात्म है। इसका दूसरा नाम रामचरित मानस है। मानस कहते हैं अन्तःकरण को। अतः इसमें अन्तःकरण की वृत्तियों का चित्रण है। रामचरित अर्थात् राम के चरित्र। कौन-सा चरित्र? अयोध्या में जन्म-लंका में युद्ध, वनवास, पृथ्वी पर जो घटना कभी घटित हुई थी वह? नहीं, मानस कहते हैं मन को, अन्तःकरण को। राम के वे चरित्र जो आपके अन्तःकरण में प्रवाहित हैं। वे हैं सबमें किन्तु दिखायी नहीं देते। आये दिन लोभ के चरित्र, मोह के चरित्र, काम के चरित्र, क्रोध के चरित्र ही दिखाई देते हैं। अब वे प्रसुप्त रामचरित किस प्रकार आपके अन्तःकरण में जागृत होते हैं, जागृत होकर किस प्रकार रामपर्यन्त दूरी तय करते हैं, राम की स्थिति आपको दिला देते हैं, वहाँ तक का साधनक्रम इस रामायण में अंकित है। साधना पकड़ी ही नहीं तो श्रेणी किसने दी?

शंखूक-प्रकरण में भगवान राम न्यायकर्ता थे। अवध के सुख को त्यागकर भगवान के साथ छाया की तरह चलने वाले, राम के शयन करने पर भी जगकर प्राणपण से सेवा में तत्पर लक्ष्मण एक दिन न्याय की तुला पर चढ़ गये तो राम ने ऐसे लक्ष्मण का भी त्याग कर दिया। स्वजनों का त्याग मृत्युदण्ड तुल्य होता है। लक्ष्मण ने सरयू तट पर अठारह दिनों के उपवास के अनन्तर इहलीला का संवरण कर लिया। इसी प्रकार अवध साम्राज्य के वैभव को त्यागने वाली, प्रतिबिम्ब की तरह अनुवर्तिनी, स्वर्णमयी लंका को तुच्छ समझने वाली तथा अग्नि-परीक्षा में खरी उतरने वाली सीता-जैसी सहधर्मिणी भी न्याय की कसौटी पर आयी तो राम ने जनहित पर ही ध्यान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आपको भी दण्डित किया। संसार के एकमात्र सम्राट भगवान राम न्यायपीठ का सम्मान करने के लिए सिंहासनासीन हो जाते थे अन्यथा वे कुश की चटाई का ही प्रयोग करते थे। उनकी मान्यता थी कि यदि सीता पर्णशैङ्क्या पर शयन करती है तो उन्हें भी मसृण शैङ्क्या के उपयोग का कोई अधिकार नहीं है। राम ने तो कुत्ते के आरोप पर एक तपस्वी को दण्डित किया था। इतने न्यायप्रिय सम्राट के लिए क्या यह उचित होता कि प्रजा में किसी एक ने भूल कर दी तो उसे छाती से लगाते? क्या न्यायाधीश भी पक्षपात करता है?

क्या रामराज्य में आज की तरह आरक्षण व्यवस्था थी? नहीं, राम के राज्य केवल एक आरक्षण था—सर्वांगीण सुख और अक्षय धाम। आज एक को

आरक्षण देते हैं तो दूसरा खून के आँसू रोता है। रामराज्य में ऐसा नहीं था—‘नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं अबुध कोउ लच्छन हीना।’ राम के राज्य में दरिद्र कोई नहीं था, सभी समृद्ध थे। दुःखी कोई नहीं था। सभी प्रबुद्ध, अशिक्षित कोई नहीं था तो कोटा कैसा? आरक्षण का प्रश्न तो तब उठता जब किसी के यहाँ कोई कमी होती। उस युग-जमाने का एक भी ब्रह्मर्षि आज की तथाकथित सामाजिक कुलीनता तथा गौरव से अलंकृत जातियों से नहीं आया तो सिद्ध है कि राम के काल में बाहर समाज में वर्ण-व्यवस्था के नाम पर मनुष्य का विभाजन नहीं था। जब बाहर वर्ण थे ही नहीं, तो राम ने किस शूद्र को मारा? स्पष्ट है कि शम्बूक के प्रश्न का कोई सामाजिक सन्दर्भ अथवा भौतिक धरातल नहीं है। विचारणीय है कि रामायण के शम्बूक प्रकरण का आशय क्या है?

शम्बूक का अर्थ है समत्व की वृत्ति का स्वाँग करने वाला। शूद्र साधना का प्रथम चरण है। वह अल्पज्ञ होता है। वह दस घंटे आँख मूँदता है फिर भी दस मिनट अपने पक्ष में नहीं पाता। ऐसी स्थिति में वह व्यर्थ आँख मूँदता है। जब भजन नहीं हो रहा है तो वह ध्यानस्थ होकर कर क्या रहा है? केवल आँख मूँद लेने से भजन तो नहीं होता। तब समय क्यों नष्ट करते हो? हम भजन शुरू कहाँ से करें? गीता में है, “परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। (१८/४४)” उसके ज्ञाता हों, तत्त्वदर्शी हों, ऐसे महापुरुषों की सेवा से योग्यता आपके अन्दर स्वतः प्रसारित हो जायेगी। विधि जागृत होने पर उत्तरोत्तर उन्नते श्रेणियों में प्रवेश मिलता जाता है।

अल्पज्ञ श्रेणी का साधक भूल करता है। “सरोचिय शूद्र विप्र अवमानी। मुखर भान प्रिय ज्ञान गुमानी॥” ऐसा शूद्र शोचनीय है जो मुखर अर्थात् वाचाल (विकट प्रवक्ता), मान-सम्मान प्रिय, ज्ञान का दम्भ भरने वाला, विप्र का अपमान करने वाला हो। शूद्रत्व काल में ये दोष आ जाते हैं। महर्षि काकभुसुण्डि का प्रथम जन्म, जिसमें आत्मिक जागृति हुई, शूद्र-तन था। साधना में प्रवेश तो मिला लेकिन गुरु जी से द्वेष कर बैठे। महर्षि काक ने अपना परिचय दिया, “धन मद मत्त परम वाचाला। उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला॥” मेरी बुद्धि बड़ी प्रचण्ड थी, उर में भारी दम्भ था। ‘हरिजन द्विज देखे जरउँ, करउँ विष्णु कर द्रोह।’ एक बार गुरु महाराज आए। मैं शिवनाम जप रहा था। दम्भवश मैंने उठकर गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। जिस भगवान के वे सेवक थे वह आत्मा ही शत्रु हो गयी। शाप मिला—‘रे पापी! अजगर की तरह बैठा रह गया। जा अजगर हो जा।’ अस्तु, शूद्र

भूल करता है। अन्य श्रेणियों के साधक (वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण) कभी भूल नहीं करते। वहाँ माया धोखा दे सकती है, बलात्कारिक विज्ञ आ सकते हैं, साधक भूल नहीं करता। यहाँ शूद्र स्तर पर भूल स्वाभाविक है।

राम के राज्य में अर्थात् भगवान जब आत्मा से रथी हैं, उस स्थिति में जो साधना में प्रवेश पा चुका है, ऐसा साधक है तो शूद्र किन्तु शंबूक अर्थात् समत्व की वृत्ति का आश्रय ले लेता है। वह वृक्ष में उलटा टैँगा था। ‘संसार विटप नमामहे’, ‘ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्’ ऊपर परमात्मा जिसका मूल और कीट-पतंगपर्यन्त प्रकृति जिसकी शाखा-प्रशाखाएँ हैं, ऐसा संसार एक वृक्ष है। वह शंबूक संसार-वृक्ष में, गर्भवास में उलटा लटका है। वह है अत्यन्त लेकिन स्वाँग भरता है पूर्णत्व वालों का। शंबूक समत्व की वृत्ति का स्वाँग कर रहा है। ऐसा करते ही ब्राह्मण बालक मर गया, हृदय में जो ब्रह्म-चिन्तन आंशिक रूप से जागृत हुआ था वह प्रसुप्त (कुण्ठित) हो गया। न जाने वह कब मर गया। ब्रह्म-चिन्तन, भजन बन्द हो गया। ऋषियों ने अनुमान लगाया किन्तु जाना नहीं। इस कमी को बाहर कोई जान नहीं सकता कि कौन ढोंगी है, कौन सही है? किन्तु राम ने उसे खोज लिया क्योंकि वह अन्तःकरण से, आत्मा से रथी हैं। त्याग ही तलवार है। यहाँ भगवान ने त्याग के द्वारा, अपौरुषेय प्रेरणा के द्वारा उसे नीचे गिराया, वह ब्राह्मण-बालक जीवित हो गया। दैवी वृत्तियाँ उसमें पुनः प्रवाहित हो गयीं। देवता दुन्दुभि बजाने लगे। ब्रह्मचिन्तन पूर्ववत् होने लगा।

इस प्रकार रामायण में एक सींक रखने की भी जगह नहीं है जहाँ कोई प्रश्न कर सके। न ही भेदभाव है, न छुआछूत है फिर भी लोग आक्षेप करते हैं कि हमारे शंबूक को क्यों मार दिया? भगवान राम ने अपने जीवन्तकाल में जिनका उद्घार किया उनमें था केवट अधम, शवरी अधम, वानर-भालू अधम, असंख्य अपार निशाचर अधम! एक भी ब्राह्मण, एक भी क्षत्रिय को भगवान ने नहीं तारा। रामायण में तो उल्लेख नहीं है। राम ने अपार अरवों अधमों को तारा, एक थाली में खिलाया, उनके जूठे बेर खाये, अपने धाम भेज दिया, उसके लिए किसी ने राम को धन्यवाद तक नहीं दिया और लाखों वर्ष पहले कोई एक मर गया तो हाय हमारे वावा श्री शंबूक जी! यहाँ कहाँ रखा है उनका वावा? यह तो योग-साधना के रूपक हैं।

रही जातियाँ और उनके औचित्य का प्रश्न! यह जाति-पाँत हमारे पूर्वजों गौरव गाथा है। हमारे पूर्वजों ने ऊँचे से ऊँचा कृत्य किया। ये उसी के सम्मान-

पत्र हैं। किसी पूर्वज ने दो वेद पढ़ा तो द्विवेदी, कोई त्रिवेदी तो कोई चतुर्वेदी। पूरा भारत ऋषियों की सन्तान है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जातियाँ तो कारोबार के नाम हैं। किसी ने लोहा सुधारा तो लुहार, सोना सुधारा तो सुनार, चमड़ा सुधारा तो चमार, पोथी पढ़ा तो पंडित, शस्त्र धारण किया तो क्षत्री! कुछ दिनों में गाड़ी चलाने वालों को ड्राइवर या इसी तरह इंजीनियर और डॉक्टर की जाति बन सकती है। यह धन्धों की पहचान है, धर्म नहीं। लोग अपने बच्चों के नाम गुड़ू, चुनू रखते ही हैं किन्तु नाम न रखकर कहें, 'लड़कों आओ', तो सभी दौड़ पड़ेंगे। यह बच्चों को अलग-अलग पुकारने का तरीका है। वंश, कबीला, गोत्र, जाति इस सम्बोधन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। धन्धे धर्म नहीं हो सकते। किन्तु समाज में एक भ्रान्ति ऐसी आयी कि कुछ लोग कहने लगे कि जातियाँ सनातन हैं, भगवान की बनाई हुई हैं।

लोगों को विचार करना चाहिए कि सनातन है क्या? सनातन केवल आत्मा है। 'अच्छेयोऽयमदाय्योऽयमक्लेयोऽशोष्य एव च। नित्यः सर्वगताः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥। धर्म क्या है? सोइ धर्मज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता। सोइ महि मण्डित पंडित दाता ॥। धर्म परायन सोइ कुल त्राता। राम चरन जाकर मन राता ॥।' वह धर्मज्ञ है, धर्म का मर्मज्ञ है, धर्म का विशेषज्ञ है, ज्ञाता है। कौन? एक परमात्मा राम के चरण-कमल में जिसका मन अनुरक्त है- इतना ही है धर्म। साधना की जागृति के पूर्व हमारे पास अनन्त देवी-देवता हैं लेकिन भजन की जागृति के पश्चात् एक परमात्मा के ही भजन का विधान है। राम, परमात्मा, सनातन, शाश्वत सब एक ही तत्त्व के नाम हैं। विविध दृष्टिकोणों से महात्माओं ने उस प्रभु को समझाने का प्रयास किया है। सद्गुरु की शरण गये विना ईश्वर हृदय से जागृत नहीं होता, भजन की ताला-कुंजी नहीं मिलती। इसलिए यदि भगवान को जानना है, तो किसी सद्गुरु या कैसे भी महात्मा मिलें उनकी सेवा करें। सेवा के साथ-साथ जो परमात्मा का बोध कराता हो, 'राम' या 'ओम्' जैसे किसी भी दो-ढाई अक्षर के नाम का जप करें। चलते-फिरते, उठते-बैठते, शौच जाते, पानी पीते, जीवन के हर मोड़ पर नाम याद आये। आधा घंटा-वीस मिनट नियमित बैठकर समय दें। समर्पण और श्रद्धा के साथ निवेदन करें कि प्रभु! जिस घट में आप निवास करते हैं, ऐसे सद्गुरु का आप ही परिचय दें। चर्मचक्षुओं से तो हम निर्णय नहीं कर सकते। जहाँ आप और आत्मा के बीच का आवरण जरा-सा हल्का हुआ, संस्कारों का मलावरण, विक्षेप धुला, आपकी आत्मा ही बता

देगी कि वह बैठे हैं गुरु महाराज! और जब सद्गुरु ही मिल गये तो शेष क्या रहा? ‘सद्गुरु मिले जाहिं जिमि संशय भ्रम समुदाय।’

अतः माताएँ भजन करें, पुरुष भजन करें। थोड़ा भेदभाव से ऊपर उठें। रामायण न कहती हो तो न उठें। गीता न कहती हो, भगवान् महावीर, गुरुनानक की वाणी न कहती हो तो कदापि न उठें, लेकिन कहते हैं तो उदार बनें। विद्वानों को चाहिए कि छोटी-छोटी कथाओं के स्थान पर गीता पढ़ाएँ। गीता मानव का धर्मशास्त्र है। गीता का ही अनुवाद है योगदर्शन! गीता का ही अनुवाद है रामचरित मानस! रामचरित मानस रहस्यात्मक ग्रन्थ है किन्तु गीता सरल है, स्पष्ट है। गीता में तर्क नहीं है। संसार का कोई भी व्यक्ति इसकी मान्यताओं पर उँगली नहीं उठा सकता; क्योंकि परवर्ती महापुरुषों ने गीता का ही अनुवर्तन किया है। आप भी विश्व के मानव हैं तो भेद कहाँ? जिस दिन गीता धर्मशास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जायेगी, संसार एक सूत्र में बँध जायेगा। एक ईश्वर के उपासक आप आर्यों की संख्या संसार में सबसे अधिक हो जायेगी। इसके लिए आप सबको प्रयत्न करना चाहिए। देखे— श्रीमद्भगवद्गीता का भाष्य ‘यथार्थ गीता’।

॥ ३० श्री सद्गुरु भगवान् की जय ॥

## सरस्वती-पूजन

सरस्वती का उपयोग केवल प्रभु की भक्ति में है।  
वाणी (सरस्वती) के प्रेरक प्रभु हैं।  
जिस पर जन जानकर कृपा की, उसके हृदय में सरस्वती को नचाने  
लगते हैं।

-स्वामी अङ्गइनन्द

दिनांक २२ जनवरी, १९९९ ई. को पिलिग्रिम्स बुक हाउस, वाराणसी  
के उद्घाटन समारोह में पूज्य महाराज जी द्वारा सरस्वती-पूजन के  
औचित्य की समीक्षा।

## सरस्वती-पूजन

बन्धुओं!

आज बसन्त पंचमी है। यह बसन्त के आगमन का द्योतक है। भारतीय जलवायु में षड् क्रतुओं का समावेश है। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास ग्रीष्म क्रतु, श्रावण-भाद्रपद वर्षा क्रतु, क्वार-कार्तिक शरद क्रतु, मार्गशीर्ष-पौष शिशिर क्रतु, माघ-फागुन हेमन्त क्रतु तथा चैत्र-वैशाख मासपर्यन्त बसन्त क्रतु माना जाता है। इसमें बसन्त को क्रतुराज कहा जाता है, इसलिए बसन्त के स्वागत-पूजन की परम्परा है। इस क्रतु में वनस्पति जगत् पुष्टि एवं पल्लवित होकर फलों से लद जाते हैं जो यावन्मात्र जीवजगत् का भरण-पोषण तथा सौन्दर्य है। इसलिए पूर्वजों ने बसन्त क्रतु के पूजन की कामना की। आज वही तिथि है। आज से शनै:-शनै: बसन्त के लक्षण प्रकट होने लगे। आम्रवृक्ष पर यत्र-तत्र बौर आ गये, नूतन किसलय विकसित होने लगे। उल्लास का वातावरण मधुक्रतु का वैशिष्ट्य है।

संसार के भाग्य में ये सभी क्रतुएँ नहीं हैं। चेरापूँजी में दो क्रतुएँ मात्र हैं-शीत और वर्षा। ग्रीष्म वहाँ है ही नहीं। यही दशा इंग्लैण्ड की है। गर्भियों में दो घंटे के लिए धूप आती है। छतों के ऊपर धूप बिकती है। प्रातः की धूप में ऊषा रहती है अतः उसका शुल्क कम तथा मध्याह्न में किरणें प्रखर रहने से अधिक शुल्क देना पड़ता है। अन्य देशों के भाग्य में सब क्रतुएँ कहाँ हैं?

बसन्त क्रतु की पूर्वपूजा बसन्त पंचमी है। शिशुओं के भविष्य निर्माणहेतु शिक्षा का शुभारम्भ आज की तिथि से किया जाता था इंसलिए बसन्त-पूजन में सरस्वती-पूजन का आयोजन किया जाता है। अब हमें देखना है कि सरस्वती है क्या और उसकी पूजा कैसे की जाय? गोस्वामी तुलसीदास जी ने अत्यन्त सरल शब्दों में भारत की आध्यात्मिक विरासत का चित्रण अपने ग्रन्थ रामचरित मानस में किया है, जिसमें सरस्वती भी है। तीन विभिन्न सन्दर्भों में सरस्वती का क्रिया-कलाप इसमें द्रष्टव्य है। वे स्थल हैं कुम्भकर्ण की तपस्या, राम का राज्याभिषेक राम को वनवास से विरत करने जा रहे भरत को भुलावा देने के लिए।

रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण की अपार तपस्या से विधाता प्रसन्न हो गये। रावण ने अभीप्सित लाखों वर्ष की आयु, विश्वविजय का आशीर्वाद पाया। विभीषण को देखकर विधाता प्रसन्न हो गये। उसने भगवान के चरण-कमलों में अनुराग की याचना की। कुम्भकर्ण को देखकर विधाता व्याकुल हो गये कि 'जो यह खल नित करब अहारु। होइहिं सब उजार संसारु ॥' यह किसी तरह खड़ा हो जायेगा तो हमारी सृष्टि का विनाश हो जायेगा। उन्हें अपने भक्त की चिन्ता नहीं, अपनी सृष्टि-सुरक्षा की चिन्ता हो गई कि कहीं हमारी सृष्टि चौपट न हो जाय। उसी आशीर्वाद से कुम्भकर्ण की मृत्यु हुई।

सरस्वती का दूसरा प्रयोग राम के राज्याभिषेक के अवसर पर दिखायी देता है। चारों पुत्रों के विवाह, सीता-जैसी पुत्रवधू पाकर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की खुशी का पारावार हिलोरे लेने लगा। 'मानहु परमानन्द समाना'- परमानन्द के समानान्तर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने तुरन्त निर्णय लिया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। राम हर तरह से अब समर्थ हो चुके हैं। जब कौशल्या अम्बा को इसकी सूचना मिली, वह तुरन्त पूजन-गृह में चली गई। 'पूजी ग्राम देवि सुर नागा। कहेसि बहोरि देन बलिभागा ॥' उन्होंने ग्रामदेवियों की पूजा की, सुर अर्थात् सम्पूर्ण देवताओं की पूजा की, नागों की पूजा की और कहा कि यदि राम सकुशल अभिषिक्त हो जाय तो आप सब को बलिभोग दूँगी।

पहले तो देवताओं को कुछ ज्ञात ही न था कि इस संसार में कहाँ क्या हो रहा है लेकिन आजकल जैसे ग्रामों में ग्रामसेविका होती है उसी तरह 'ग्रामदेवी'। प्रत्येक ग्राम्यांचल में एक ग्रामदेवी! जब ग्रामदेवियों ने पूजा पायी, उन्होंने तुरन्त इन्द्र को सूचित किया। देवता घबड़ा गये, शारदा का स्मरण किया- 'सारद बोलि विनय सुर करहीं। वारहिं वार पाय लै परहीं ॥। विपत्ति हमार विलोकि वड, मातु करिआ सोइ आज। राम जाहिं बन राजु तजि, होइ सकल सुर काज ॥' माँ कौशल्या ने निवेदन किया था कि मेरा कार्य हो, देवताओं ने अनुरोध किया कि ऐसा कुछ करें कि देवताओं का काज हो।

सरस्वती पीछे हट गयीं। वह बोलीं, मैं ऐसा कर ही दूँ किन्तु आजन्म जो आप-सबकी पूजा में संलग्न थी, उस माता कौशल्या पर क्या बीतेगी? देवताओं ने कहा, 'जीव करम वस दुख सुख भागी। जाइअ अवध देव हित लागी ॥' ये जीव हैं, कर्मवश दुःख-सुख भोगते ही रहते हैं। आप देवताओं के हित पर ही ध्यान दींजिए, उन्हें भोगने दीजिए।

सरस्वती को उद्यत न देख देवताओं ने दूसरी चाल चली- ‘बार बार गहि चरन संकोची। चली विचारि विबुध मति पोची॥’ वे बार-बार चरणों में गिरने लगे, चरण-स्पर्श करने का ताँता ही लगा दिया। वह संकोच में पड़ गयीं। वह विचार करने लगीं कि देवताओं की बुद्धि कितनी खोटी है? ‘ऊँच निवास नीच करतूती। देखि न सकहिं पराई विभूती॥’ निवास तो इतना ऊँचा किन्तु बुद्धि कितनी खोटी है। ये किसी को फलते-फूलते देख ही नहीं सकते।

साकेत में सरस्वती ने पदार्पण किया- ‘हरषि हृदय दसरथ पुर आयी। जनु ग्रह दशा दुसह दुखदायी॥’ देवमाता सरस्वती क्या पहुँचीं, दुर्दशा प्रदान करने वाले सभी कुग्रह मिलकर अयोध्या पहुँच गये। शनिश्चर की साढ़े साती तो सुनी गयी थी लेकिन इसका प्रभाव चौदह वर्षों के लिए था और कौशल्या पर तो जन्म भर के लिए।

अवध जनपद में माता सरस्वती ने दृष्टि-निक्षेप किया। भगवान राम के आविर्भाव के पश्चात् उत्पन्न एक भी नागरिक के रक्त में दुर्बुद्धि के प्रवेश का प्रश्न ही नहीं उठता था। सरस्वती ने चारों ओर दृष्टिपात् किया। अन्ततः उन्हें सफलता मिली- ‘नाम मंथरा मंदमति, चेरी कैकयी केरि। अजस पिटारी ताहि करिं, गई गिरा मति फेरि॥’ वह दूसरे जनपद से दहेज में आयी थी। उसकी बुद्धि को भ्रमित किया जा सकता था। वह कैकयी की दासी थी। सरस्वती उसी की जिह्वा पर विराजमान हो गयीं। अपयश का पिटारा उसे सौंप दिया, उसकी बुद्धि को पलट दिया।

वह बेचारी तो पहले से ही मंदमति थी, उस पर सरस्वती की कृपा! वह और भी ऊँटपटांग बकने लगी, “बेटी! कौशल्या बड़ी धूर्त है। तू उसे नहीं जानती। यह तुमसे दासी का काम लेगी। भरत को दास बनाना चाहती हो क्या?” माता कैकयी राम में अटूट स्नेह रखने वाली थी। उसने प्रतिवाद भी किया किन्तु प्रभाव सरस्वती का था, अन्ततः वह भी झाँसे में आ गयी। राम वन गये। पूजा की थी माँ कौशल्या ने! उसे क्या मिला? चौदह वर्षों तक रोने को आँसू नहीं मिला। वैधव्य मिला वह अतिरिक्त। स्त्री के लिए समाज में वैधव्य से बड़ा कोई दुःख नहीं है। देवताओं की पूजा का यह परिणाम निकला। फल-निर्धारण करने में देवताओं का पैमाना देखिये कि ये जीव हैं, कर्मवश दुःख-सुख भोगते ही रहते हैं, आप देवहित को वरीयता दें।

विष जान-बूझकर खायें तो मृत्यु, धोखे से स्पर्श हो जाय तब भी मृत्यु! इसी प्रकार सरस्वती आवाहन करने पर आये या स्वेच्छा से, जिसके भी कंठ पर बैठ जायें, उसका तो मंगल ही मंगल होना चाहिए लेकिन जिस गरीब मन्थरा के कंठ पर वह विराजमान हुई उसकी दशा देखें— ‘कूबर टूटेउ फूट कपासू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचासू ॥’ उसका कूबड़ टूट गया, मस्तक फट गया, दाँत गिर पड़े, रक्त का वमन करने लगी। उस गरीब की नौकरी भी लगता है छूट गयी; क्योंकि इस दुर्घटना के पश्चात् मानस में मन्थरा का कहीं नाम नहीं सुनायी पड़ता। सरस्वती जिसके कंठ पर बैठें, उसकी यह दुर्दशा! अन्ततः मानसकार कहना क्या चाहते हैं? सरस्वती का स्मरण देवताओं ने वहाँ भी किया, जब भरत राम को मनाने चित्रकूट की ओर चले- सुरन सुभिरि शारदा सराही। देवि देव सरनागत पाही ॥। देवताओं ने स्मरण किया, शारदा प्रकट हो गयीं। उनकी प्रशंसा करने लगे— ऐसा कौन-सा कार्य है जो आप न कर सके। विनय सहित देवताओं ने कहा— सभी आपकी शरण हैं, कृपया ध्यान दें। ‘फेरु भरत मति करि निज माया। पालु विवुध कुल करि छल छाया ॥’ आप अपनी माया फैलाकर भरत की बुद्धि भ्रमित कर दें, जिससे राम और भरत से भेंट ही न हो सके। इस प्रकार देवताओं के कुल पर छल से छाया करें। सरस्वती पीछे हट गयीं। ‘मोसन कहउ भरत मति फेरु। लोचन सहस न सूझ सुमेरु ॥’ मुझसे कहते हो भरत की बुद्धि फेर दूँ। आप सहस्राक्ष कहलाते हैं किन्तु आपको सुमेरु पर्वत नहीं दिखायी देता। भरत में सुमेरु-जैसी कौन-सी गरुता थी? भरत हृदय सियराम निवासु। तहँ कि तिभिरि जहाँ तरनि प्रकासू ॥। भरत के हृदय में सीता और राम का निवास है। क्या वहाँ भी अंधकार फैलाया जा सकता है जहाँ सूर्य सम्पूर्ण कलाओं से उद्भासित हो? सरस्वती ने भरत को सादर नमन किया और लौट गयीं।

अब देवताओं के पास जितनी सामर्थ्य थी, उसका प्रयोग किया। भय, भ्रम, त्वरा और उच्चाटन फैलाया किन्तु भरत, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जनक इत्यादि महानुभावों को विदित भी नहीं हुआ कि कहीं कोई षड्यन्त्र भी है— ‘हरि भक्तन के पास न आवे, भूत-प्रेत पाखण्ड ॥’ जादू-टोना, तंत्र-मंत्र किंवा सरस्वती भी उसकी बुद्धि भ्रमित नहीं कर सकती। इस प्रकार तीन अवसरों पर हम सरस्वती का प्रवेश देखते हैं। हरिभक्तों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अन्यत्र जहाँ भी वह पहुँचीं उसका विनाश ही किया। अतः विचार कर लेना चाहिए कि सरस्वती की पूजा क्यों और कैसे करें?

रामचरित मानस का ही प्रसंग है। एक बार भरद्वाज आश्रम प्रयागराज में महर्षि याज्ञवल्क्य का पदार्पण हुआ। यही माघ का महीना था, स्नान का पर्व था। भरद्वाज जी ने महर्षि से अनुनय किया- प्रभु! हमें रामचरित बताइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ‘रामचरित अति अमित मुनीसा। कहि न सकहिं सत कोटि अहीसा ॥’ हे मुनीश्वर! रामचरित अपार है, असीम है, सौ करोड़ शेषनाग रात-दिन वर्णन करें तब भी उसे नहीं कह सकते। ‘तदपि जथाश्रुत कहउँ वखानी। सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी ॥’ मैंने जैसा सुना है, वैसा वाणी के स्वामी ‘प्रभु धनु पानी’ धनुर्धर परमात्मा श्रीराम का स्मरण कर कहता हूँ। व्यक्त करने की आवश्यकता थी वाणी की किन्तु वाणी-वन्दना नहीं की अपितु वाणी के प्रेरक प्रभु का स्मरण किया। क्यों? ‘सारद दारु नारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अन्तर्यामी ॥’ शारदा है-क्या? कठपुतली! दारु अर्थात् काष्ठ और नारि अर्थात् स्त्री! काठ की पुतली मात्र! स्वयं में एक पुर्जा! और राम क्या हैं? उसके सूत्रधर! कठपुतली को नचाने वाले! वे अन्तर्यामी हैं। जिसके भी हृदय में भाव देखा, जिस पर जन जानकर कृपा की, उसके हृदय में इस सरस्वती को नचाने लगते हैं। सरस्वती नृत्य करने लगती हैं। ‘कवि उर अजिर नचावहि वानी।’

ऐसे ही एक सेवक थे हनुमान। एक बार लंका में घोर निशाचरों के मध्य वे कैद हो गये। निशाचरों ने कहा- इसे मार डालो, किसी ने कहा- इसके हाथ-पैर तोड़ दो, अंग भंग कर दो। रावण ने कहा, ‘कपि के ममता पूँछ पर, सवहि कहउँ समुझाइ। तेल बोरि पट वाँधि पुनि, पावक देहु लगाइ ॥’ तुम कुछ नहीं जानते हो। बन्दर का ममत्व उसकी पूँछ में होता है। इसमें कपड़ा लपेटकर इसे तेल में भिंगोकर केवल आग लगा दो। पूँछ हीन बानर तहँ जाइहि। तब सठ निज नाथहि लइ आइहि ॥। जिन्ह कै कीन्हिसि बहुत बड़ाई। देखऊँ मैं तिन्ह कै प्रभुताई ॥। यह बहुत बड़ाई करता था कि राम इतने अन्तर्यामी, आत्मा की भी आत्मा हैं। उनकी प्रभुता मैं भी तो देखूँ। इसकी पूँछ जला दो, तभी यह अपने स्वामी को ले आयेगा।

इतना सुनते ही हनुमान जी प्रसन्न हो गये। ‘वचन सुनत कपि भन मुसुकाना। भइ सहाय सारद मैं जाना ॥’ उन्हें लगा कि शारदा सहायक हो गयीं। ठीक वही स्वभाव कि ‘जेहिं पर कृपा करहिं जन जानी। कवि उर अजिर नचावहिं वानी ॥’ भक्त की सुरक्षा के लिए राक्षसों के हृदय में प्रेरणा हो गई और वही शब्द निकले, जिसमें भक्त का हित निहित है।

वस्तुतः सरस्वती का उपयोग क्या है? 'भगति हेतु विधि भवन विहार्इ। सुमिरत शारद आवत धार्इ॥' भक्त के हित के लिए शारदा विधाता का भवन त्यागकर, दौड़कर चली आती हैं। कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगति पछताना।। रामचरित सर बिन अन्हवाये। सो श्रम जाइ न कोटि उपाये॥। सरस्वती आर्यां और रामचरित में उसे नहलाया नहीं तो करोड़ों उपाय से भी उसका श्रम दूर नहीं होता। अस्तु, सरस्वती का उपयोग केवल भगवान की भक्ति में है।

गोस्वामी जी ने पवित्र करने वाली वस्तुओं में सरस्वती की गणना की है- - 'पुनि बन्दउँ सारद सुर सरिता। युगल पुनीत मनोहर चरिता॥।' सरस्वती और गंगा दोनों के मनोहर चरित्र को गोस्वामी जी मानते हैं। कैसा है चरित्र उनका? क्यों पावन हैं दोनों? 'मज्जन पान पाप हर एक। कहत सुनत एक हर अविवेक॥।' गंगा अवगाहन करने, जलपान करने से पापों को हर लेती है तो सरस्वती कहने-सुनने, विचार-विमर्श करने मात्र से अविवेक को हर लेती है।

विवेक है क्या? गोस्वामी जी का निर्णय है- 'सुनहु तात मायाकृत, गुन अरु दोष अनेक। गुन यह उभय न देखिअहिं, देखिअ सो अविवेक॥।' हे लक्ष्मण! माया के द्वारा निर्मित अपार गुणों की शृंखला तथा माया के ही द्वारा निर्मित अपार दुर्गुणों की शृंखला है। इन मायाकृत गुण और दुर्गुणों को देखना अविवेक है। इसे मत देखो। माया से परे केवल भगवान हैं। इसलिए विवेक का अर्थ है आत्म-चिन्तन की जानकारी और उसमें चलना यहीं सरस्वती की देन है।

गोस्वामी जी ने उत्तरकाण्ड में सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि धर्म क्या है? कर्म क्या है? परमात्मा की सत्ता सर्वत्र स्वीकार करते हुए भी वे कहते हैं- सर्वत्र पूजन की आवश्यकता नहीं है। राम एक परमात्मा करोड़ों शारदा से बढ़कर हैं। दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन- दुर्गा को पूजेंगे तो एक दुर्गा प्रसन्न होंगी, राम को पूजोगे तो करोड़ों दुर्गा, करोड़ों विष्णु; अरवों ब्रह्मा, अरवों रुद्र आपके ऊपर एक साथ प्रसन्न हो जायेंगे। 'सारद कोटि अमित चतुराई। विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई॥।' शारदा को पकड़ेंगे तो एक सरस्वती आपका साथ देगी किन्तु राम को पकड़ेंगे तो करोड़ों शारदा की असीम चतुराई आपका वरण करेगी। गोस्वामी जी ने सम्पूर्ण बड़े-बड़े देवताओं का स्मरण किया और कहा कि ये देवता केवल एकपक्षीय प्रगति में सहायक हो सकते हैं किन्तु एक परमात्मा राम के प्रखर प्रकाश की तुलना में ये जुगनू के समकक्ष भी नहीं हैं। एक

परमात्मा के प्रति समर्पित होने से आपका सर्वांगीण विकास होगा। आपकी सभी मनचाही कामनाएँ, बल भी, सरस्वती भी, पालन, परिवर्तन और ऐश्वर्य तो मिलेगा ही, मोक्ष मिलना ही मिलना है; क्योंकि ईश्वर-पथ लक्ष्यप्राप्ति के पूर्व विराम नहीं लेता।

परमात्मा के भजन के बिना किसी की मुक्ति हुई ही नहीं है। गोस्वामी जी का निर्णय है— ‘रामचन्द्र के भजन बिन, जो चह पद निरबान। ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूँछ विषान ॥’ राम एक परमात्मा के भजन के बिना यदि कोई निर्वाण चाहता है, परमशान्ति और अनन्त जीवन चाहता है तो वह ज्ञानी होने पर भी सींग-पूँछ रहित पशु मात्र है। बैल में और उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। केवल उसे पूँछ नहीं है, सींग नहीं है (वनमानुष हो सकता है)। ‘वारि मथे घृत होइ बरु, सिकता ते बरु तेल। बिन हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥’ भले पानी मथने से धी निकल आये, यह असम्भव कदाचित् सम्भव हो जाय, बालू पेरने से तेल निकल आये किन्तु हरि के भजन के बिन कोई भव पार होता ही नहीं। इसलिए भजन तो एक परमात्मा का ही वांछनीय है। उत्सव आप कोई भी मनायें किन्तु प्रार्थना महर्षि याज्ञवल्क्य की तरह ‘सुभिरि गिरापति प्रभु धनु पानी’ एक परमात्मा का ही करें। छोटे-छोटे देवी-देवता गोस्वामी जी के अनुसार एक विभाग अवश्य हैं किन्तु सभी विभागों के संचालक एक परमात्मा राम हैं। राम, शिव, ओम् पर्यायवाची शब्द हैं। सबका आशय एक है— एक परमात्मा के प्रति समर्पण। अतः वाणी, धन-धान्य, जीवन-मोक्ष इत्यादि सभी कामनाओं की प्राप्ति हेतु एक परमात्मा का पूजन ही शास्त्रोक्त विधि है, सही तरीका है।

॥ ॐ श्री गुरुदेव भगवान की जय ॥

# भगवान को दाढ़ी क्यों नहीं?

वह प्रभु ही सबकुछ करने में सदैव तत्पर रहता है इसलिए किशोरावस्था की भावना करके मन्दिरों में मूर्तियाँ रची गईं।

यह प्रतीकात्मक है।

वस्तुतः वह अमूर्त है, अरूप है, अनिर्वचनीय है।

ऐसी स्थिति में जहाँ भौतिक आकार ही नहीं है, वहाँ दाढ़ी किसको और कहाँ जमेगी!

-त्वामी अड्डगडानन्द

एक जिज्ञासु भाविक ने प्रश्न किया है कि भगवान को दाढ़ी क्यों नहीं है?

## भगवान को दाढ़ी क्यों नहीं?

बन्धु!

आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि भगवान है कैसा? इसी तरह की जिज्ञासा कभी माँ पार्वती जी को हुई थी। उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न किया था, “राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई॥। राम अयोध्या नरेश के पुत्र थे अथवा अलख अविनाशी कोई अन्य?” शंकर जी नाराज हो गये। वे कहने लगे, “कहहिं सुनहिं अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। पाखण्डी हरि पद विमुख, जानहिं झूठ न साच॥।” हे पार्वति! तुमने जो प्रश्न किया कि राम कौन? ऐसा अनर्गल निकृष्ट प्रश्न तो कोई अधम मनुष्य ही कर सकता है, जिसे मोहरूपी पिशाच ने ग्रस रखा है। जो पाखण्डी है, हरिपद से विमुख है, वही ऐसा प्रश्न कर सकता है—‘बातुल भूत विवश मतवारे। ते नहिं बोलहिं वचन विचारे॥।’

इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने पन्द्रह-पचीस खरी-खोटी सुनाया किन्तु माता पार्वती शान्त भाव से दैठी रहीं। शंकर जी ने सोचा कि वात क्या है? मेरी ताड़ना का इस पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? यह प्रश्न इसका है भी कि नहीं? तब शंकर जी ने ध्यान धर के देखा। शंकर जी के पास यह यंत्र था कि इसके मन में क्या है? सब पकड़ लिया। वे बहुत प्रसन्न हुए। जब ध्यान टूटा, तब बोले, ‘राम कृपा ते पारवति, सपनेहुँ तव मन माहिं। शोक भोह संदेह भ्रम, सम विचार कछु नाहिं॥।’ हे पार्वति! भगवान की असीम अनुकम्पा से तुम्हारे मन में न शोक है, न संदेह है, न भ्रम है। तुम्हें तो शंका है ही नहीं। किन्तु तुमने जो पूछा है, संसारहित में है इसलिए सुनो कि भगवान हैं कैसे?

आदि अन्तं कोउ जासु न पावा। मति अनुरूप निगम अस गावा॥। यह भगवान जन्मा कब से? रहेगा कब तक? यह तो आज तक कोई नहीं जाना; किन्तु अपने विवेक-विचार से वेदों ने इस प्रकार गायन किया है कि- विनु पद चलइ सुनइ विनु काना। कर विनु करम करइ विधि नाना॥। आनन रहित

सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ वह तन के बिना स्पर्श करता है, बिना आँखों के देखता है, बिना पैर के सर्वत्र चलता है, बिना हाथों के सर्वत्र कार्य करता है- अस सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ इस प्रकार भगवान के कृत्य अलौकिक हैं। अब बनाओ न भगवान का चित्र बिना हाथवाला, बिना पैरवाला ।

जिन भगवान भोलेनाथ शिव ने रामचरित मानस की रचना की, उन महापुरुष ने स्वयं बताया कि राम का स्वरूप कैसा है? वह बिना पैर के चलता है, बिना हाथों के काम करता है, बगैर शरीर के स्पर्श करता है। वह अस्त्र है, अमूर्त है, कण-कण में व्याप्त है, जिसका निवास हृदय-देश में है- सब के उर अंतर वसहु, जानहु भाऊ कुभाऊ । लेकिन वह है सदा किशोर। न तो वह अबोध बालक है कि लड़खड़ाता रहे, न वह वृद्ध है कि भूल करता रहे, अमित हो जाय। भगवान सदा किशोर और अमूर्त है।

किशोरावस्था दाढ़ी का अंकुर फूटने से एक सेकेण्ड पहले की अवस्था है। यौवन से ओतप्रोत! ओजस एवं स्कूर्ति का अक्षय भण्डार! अजस स्रोत! आपकी, जीवमात्र की व्यवस्था! सुरक्षा में सैदव सन्नद्ध! इसीलिए भगवान की संकल्पना किशोर के रूप में की गई। वस्तुतः वह अमूर्त है, अस्त्र है, अनिर्वचनीय है, जैसा पूर्व के समस्त महापुरुषों के वाङ्मय में है।

अनादि वैदिक काल से जितने भी अवतार, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष देखा, सबने एक ही स्वरूप बताया कि वह अनिर्वचनीय है। सर्वज्ञ, शाश्वत, अकाल पुरुष है। भगवान वृद्ध के लिए लोगों ने अफवाह फैला रखा है कि वे भगवान को नहीं मानते; किन्तु महापुरुष ने स्वयं निर्णय दिया कि मैंने आज उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जो मुझसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था। मैंने आज सर्वज्ञ पद को प्राप्त किया। उस परमतत्त्व का इतना ही तो स्वरूप है। यही गीता कहती है कि आत्मा अविनाशी है, सर्वज्ञ है; किन्तु काला, गोरा, हल्का, भारी, जन्म और आयु परमात्मा में ऐसा कुछ नहीं है। भगवान वृद्ध, महावीर स्वामी सबने एक ही निर्णय दिया कि वह अन्तर्दृष्टि से पकड़ में आता है, ध्यान-समाधि की स्थिति में विदित होता है और भक्त को अपने में समाहित कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ भौतिक आकार ही नहीं है, वहाँ दाढ़ी किसको और कहाँ जमेगी?

वैसे 'जिन देखा सो कहा नहिं, कहा सो देखा नाहिं। रहिमन अगम बात के, कहन सुनन को नाहिं ॥' जिन्होंने उस परमसत्ता का दिग्दर्शन किया, उन्होंने कहा नहीं और जो कहते हैं, उन्होंने देखा नहीं तो भगवान के भौतिक स्वरूप का रेखांकन कैसा ?

भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि आपके हृदय में छिपा हुआ ज्योतिर्मय तत्त्व है। भजन के द्वारा, चिन्तन के द्वारा वह पहले बातें करता है, क्रमशः उँगली पकड़कर योगक्षेम करता है। आपमें दृष्टि बनकर संचारित हो जायेगा, सामने स्वयं दर्शन देगा, जानकारी देगा। जानत तुम्हहिं तुम्हहि होइ जाई । अपने में स्थिति प्रदान कर देगा क्योंकि 'मन वश होई तबहिं जब प्रेरक प्रभु वरजे ॥' वह प्रभु ही यह सब कुछ करने में सदैव तत्पर रहता है इसीलिए भगवान को किशोर कहा गया और किशोरावस्था की भावना करके मंदिरों में मूर्तियाँ रखी गई। यह प्रतीकात्मक है। यह बाल, गोपाल एवं अनविज्ञ प्राणियों के मन में साधना का सूत्रपात् करने की विधा है। जब अन्दर की साधना जागृत हो जाती है, साधक हृदय में ही सिमट जाता है, बाहर नहीं झाँकता। अतः मानव मात्र को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पूर्व महापुरुषों ने इस प्रश्न में अकारण उलझना उपयोगी नहीं माना। भगवान बुद्ध से एक सज्जन ने प्रश्न किया कि, क्या हमें भगवान को दिखा सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि मैं दिखा तो नहीं सकता, हाँ तुम्हें प्राप्त करा सकता हूँ। वह अमूर्त है। उसे पाना है तो तुम हमारे साथ ध्यान करो। अतः सभी को एकमात्र प्रभु, एक परमात्मा की प्राप्ति का उद्योग करना श्रेयस्कर है।

॥ ॐ श्री गुरुदेवं भगवान की जय ॥

## विश्वकर्मा पूजा?

विश्वकर्मा का आशय है कि विश्व में कर्म ही प्रधान है।

मनुष्य कर्मों का निर्माता है।

विश्व में आप अपनी सुरचना कर सकते हैं।

भगवान की गोद में अपने को फेंक समर्पण के साथ चिन्तन करें, विश्व का पार पा जायेंगे।

यदि भूल-भुलौया की ओर बढ़े तो आवागमन का दो चक्कर और बढ़ जायेगा।

-स्वामी अडगडानन्द

## विश्वकर्मा पूजा?

भारत में अनेक प्रकार की पूजाएँ प्रचलित हैं। ऐसी ही अनेक पूजाओं में से एक है विश्वकर्मा पूजा! हमें यह देखना है कि विश्वकर्मा पूजा क्या है?

नाना पुराण निगमागम सम्मत ग्रन्थ रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उद्घोष किया है कि “करम वचन मन छाड़ी छल, जब लगि जन न तुम्हार। तब लगि सुख सपनेहु नहीं, किये कोटि उपचार ॥” अर्थात् मन, कर्म और वचन से कपट का त्याग करके जब तक कोई एक परमात्मा का जन नहीं हो जाता, तब तक ‘सुख सपनेहु नहीं’- उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। ‘किए कोटि उपचार’- अन्य करोड़ों उपचार करे तब भी नहीं मिल सकता। किन्तु हम उपचार करते हैं। एक, दो नहीं करोड़ों करते हैं। तैंतीस करोड़ देवी-देवता, तैंतीस करोड़ उनके नाम, हर देवता के अलग मन्त्र, अलग पुजारी हमने नियत कर रखे हैं। या तो तुलसीदास जी कुछ भूल कर बैठे या हमने उनके निर्देश का उल्लंघन किया है। कहीं न कहीं तो भूल अवश्य है।

भारतीय मनीषियों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है कि भगवान ही मात्र एक ऐसी सत्ता है जो सृष्टि में एक है। वह दो कभी हुआ ही नहीं- “व्यापक एकव्रह्य अविनाशी। सत चेतन घन आनन्द राशी।” वह रहता कहाँ है? “अस प्रभु हृदय अछत अविकारी।”.... वह प्रभु कण-कण में व्याप्त है। भगवान एक से डेढ़ कभी हुआ ही नहीं। वह अपरिवर्तनशील है, अजर है, अमर है, काल से अतीत है, सर्वज्ञ है, परम सत्य है- “सत चेतन घन आनन्दराशी।” वह रहता कहाँ है? गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। वह अक्षत है। शत्यक्रिया से किसी का कलेजा काटकर अलग रख दो, वह वचा रहेगा। उसे क्षति नहीं पहुँचाया जा सकता। “अविकारी”- आप गधा, धोड़ा, कुत्ता कुछ भी खायें, कोई भी चाल-कुचाल चलें वह द्रष्टा के रूप में है, वह उससे लिपायमान नहीं होता, निर्लेप है, विकारों से अलग है। जब कभी किसी ने -भटकते भगवान को पाया तो हृदय-देश के अन्दर ही पाया।

आपके पूर्व मनीषियों में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं- “ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति।” (गीता, १८-६१) अर्जुन! वह ईश्वर सबके हृदय-देश में निवास करता है। वह एक है। यदि दूसरा भगवान् कदाचित् कभी पैदा भी हो गया तो रहेगा कहाँ? क्योंकि इस विधाता की सृष्टि में पहले से ही एक भगवान् कण-कण में व्याप्त है। दूसरा भगवान् कहाँ व्याप्त होगा? दूसरे के लिए ब्रह्मा को दूसरी सृष्टि रचनी होगी। किन्तु ब्रह्मा भी तो उनके नाभि से उत्पन्न है, वह अलग सृष्टि रच कहाँ से देगा? फिर तो चकबन्दी हो जायगी। हर भगवान् के लिए अलग-अलग सृष्टि! अतः भगवान् केवल एक हैं। सभी उसी एक परम प्रभु की सन्तान हैं- ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वेदों का उद्घोष था कि ‘अमृतस्य पुत्राः’ तुम उस अविनाशी अमृत तत्त्व के पुत्र हो अर्थात् सब परमात्मा की सन्तान हो। भगवान् ही ऐसा है जो एक है। उनकी शरण मन-वचन-कर्म से गये बिना स्वप्न में भी जीव विश्राम नहीं पाता। हम सुनते हैं, साठ करोड़ हिन्दू हैं और तैनीस करोड़ देवी-देवता! दो-दो आदमी एक देवता के हिस्से में! हिन्दुओं में एकता एक प्रश्नचिन्ह बना हुआ है। बिखराव से उनमें समृद्धि भी नहीं है। अभी बहुत दिन नहीं व्यतीत हुए हैं, इसी भारतवर्ष में शिव बड़ा या राम- विवाद का विषय था। इसे लेकर तलवारें चली हैं। कई बार सरयू की धारा इसी के समाधान में रक्तरंजित हुई। कभी शैव और शाक्तों में भयंकर युद्ध हुआ करते थे। युगपुरुष तुलसीदास जी का मानस समन्वय की विराट चेष्टा है। उन्होंने इन सभी संघर्षों को भली प्रकार सुलझाया है, वह भी भगवान् की प्रेरणा से- “तस कहियउँ हिय हरि के प्रेरे।”

रामचरित मानस के अनुसार भजन केवल एक प्रभु का करना चाहिए। “सोइ धर्मज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता। सोइ महि मण्डित पण्डित दाता॥। धर्म परायन सोइ कुल त्राता। राम चरन जा कर मन राता॥।” वह धर्मज्ञ है, धर्म का मर्मज्ञ है, विशेषज्ञ है, गुणी और ज्ञाता है, पृथ्वी में सम्मानित पुरुष और दान दाता है (उसके पास देने लायक सामग्री है)। कौन? राम चरन जा कर मन राता। राम, एक परम प्रभु के चरण-कमल में जिसका मन अनुरक्त है।

नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धान्त नीक तेहिं जाना॥।

दक्ष सकल लक्षण युत सोई। जाके पद तरोज रति होई॥।

वह नीति में निपुण है, परम सयाना है, वेदों का सिद्धान्त भली प्रकार उसने जाना है (चाहे वह अँगूठा छाप ही क्यों न हो), वह क्रिया में दक्ष है, सारे लक्षणों से युक्त है। कौन? राम, एक प्रभु के चरण-कमल में जिसका मन अनुरक्त है।

रामचरित मानस जिनके हृदय की उपज है, मूलतः जिनकी संरचना है मानस, उन भगवान शिव ने अन्त में निर्णय दिया कि “सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत् पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत॥” है पार्वती! वह समस्त कुल भाग्यवान है, कृतार्थ है, जिस कुल में किसी एक का राम, उन परमतत्त्व के चरणों में प्रेम जागृत हो गया हो। बस इतना ही धर्म है- एक प्रभु के प्रति समर्पण!

किन्तु हमारे भारत में व्यवसाय के नाम पर गठित जातियों ने पृथक्-पृथक् पूजन-पद्धतियों की संरचना कर ली है। श्रीवास्तव या कायस्थ बन्धु चित्रगुप्त की पूजा धूमधाम से करते हैं। यह चित्रगुप्त जी यमराज के मुख्य लेखाकार कहे जाते हैं। इनके अनुयायी बताते हैं कि जब भगवान श्रीकृष्ण अपने गुरु संदीपनि ऋषि के पुत्र को यमलोक से वापस लाने चले, उनके कदमों की चमक से यमराज चिच्छित हो उठे। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। चित्रगुप्त ने अपना रजिस्टर देखकर बताया कि उस समय किसी के भी वहाँ आने का समय निर्धारित नहीं था। भगवान ने शंखध्वनि की। यमपुरी हिलने लगी। चित्रगुप्त ने परिचय देने में असमर्थता प्रकट किया। इत्यादि विवरण से चित्रगुप्त लेखाकार प्रतीत होते हैं। रावण के दरबार में “वरुन कुवेर पवन धनधारी। अगिनि काल यम सब अधिकारी॥। आयसु करहिं सकल भयभीता। सभी भयभीत होकर आज्ञापालन करते थे तो उसके अधीनस्थ कर्मचारी चित्रगुप्त की पूजा कर लोग पता नहीं कौन-सी आशा लगाए वैठे हैं!

प्रजापति कुम्भकार लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। विधाता की तरह वे भी मृदभाण्डों का सृजन करते हैं। यह भी एक अटकल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। लोहे के व्यवसायी विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। भारत से सैकड़ों गुना लौह-इस्पात उद्योग विश्व के कई विकसित देशों में है; किन्तु भारत के बाहर न तो कहीं चित्रगुप्त हैं और न विश्वकर्मा!

सिवाय भगवान के जब किसी का अस्तित्व है ही नहीं तो वीच में नये-नये देवता कहाँ से आ गये? कोई धन का देवता, कहीं जल का देवता, धरती का देवता, आकाश का, युद्ध का देवता- देवताओं की कतार लग गयी। हर विभाग

का एक-एक देवता बनने लगा। ये देवता आपको एक-एक वस्तु दे सकते हैं। कोई युद्ध के लिए आपको शक्ति देगा, कोई धन; किन्तु मोक्ष देने की क्षमता इनमें से किसी में नहीं है। आपको धन भी मिले, समृद्धि भी मिले; उसके लिए तो एक प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा।

श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कन्ध के तृतीय अध्याय में उल्लेख है कि प्रति-पत्नी में सहृदयता बनाये रखने के लिए पार्वती की, सन्तान की कामना से प्रजापतियों की, पत्नी के लिए उर्वशी अप्सरा की, धन के लिए कुबेर की, आरोग्य के लिए धनवन्तरि की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार वीस-पचीस देवताओं के नाम का परिकलन कर अन्त में शुकदेव जी कहते हैं कि सम्पूर्ण कामनाओं, समग्र समृद्धि और परमश्रेय मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक परमात्मा की शरण जाओ। यही है गोस्वामी जी के शब्दों में “लोक लाहु परलोक निवाहु।” एक परमात्मा के भजन से समुद्धियों के समस्त स्रोत आपके साथ होंगे और भगवान् के अंक में आपका स्थान भी होगा, परमपद आपकी मुट्ठी में होगा। इस जन्म में आपसे थोड़ा साधन भी पार लग गया तो अगले जन्म में भी आप वही करेंगे। कुछेक जन्मों के अन्तराल से आप वहाँ पहुँच जायेंगे जिसका नाम परमधाम है, शाश्वत समृद्धि है।

विश्व के रचनाकार की चर्चा गोस्वामी जी के मानस में यत्र-तत्र है। वनवासी श्रीराम पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव व्यग्र हो गये। हनुमान से उन्होंने कहा-देखो, दो शूरवीर आ रहे हैं। बालि का मन मैला है। कहीं हमारी हत्या के लिए उसने इन्हें नियुक्त न किया हो? तुम्हारा संकेत मिलते ही मैं पलायित हो जाऊँगा। हनुमान ने ब्राह्मण-वेष बनाया और अपने ढंग से परीक्षा लेने लगे—“की तुम तीन देव महँ कोऊ। नर नारायण की तुम दोऊ॥” आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं अथवा आप नर नारायण हैं। “जग कारन तारन भव, भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवनपति, लीन्ह मनुज अवतार॥। अथवा आप जगत् की उत्पत्ति के कारण, भव से उद्धार करने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले साक्षात् परमात्मा हैं? स्पष्ट है तीन देव कोई और हैं, नर नारायण अन्य हैं और जगत् का निर्माता, उच्चारकर्ता, भारहरणकर्ता कोई अन्य! विश्वकर्मा का आशय यदि विश्व के रचनाकार से है तो यहाँ यह संरचना स्वयं परमेश्वर की है! किसी अन्य रचनाकार का अस्तित्व मानसकार ने स्वीकार नहीं किया है।

सृष्टि के आदि महाराज मनु को समस्त वैभवों के होते हुए भी एक दिन बहुत दुःख हुआ- “हृदय बहुत दुःख लाग, जनम गयउ हरि भगति विनु।” हृदय में अपार दुःख हुआ कि चौथापन आ गया फिर भी विषयों से वैराग नहीं होना चाहता है। बलात् राज्य पुत्र को सौंपा, तपोभूमि नैमिषारण्य में ऋषियों से साधन-क्रम समझा और शान्त एकान्त भजन में बैठ गये। उन्होंने विचार किया, “विष्णु विरंचि शंभु भगवाना। उपजहिं जासु अंस ते नाना। ऐसेउ प्रभु सेवक वस अहई। भगत हेतु लीला तनु गहई।। जौं यह वचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा।।” अर्थात् अनन्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिसके अंश मात्र से उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं- ऐसा भी कोई भगवान है जो सेवक के वश में है। यदि वेद का यह वाक्य सत्य है तो मेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। सम्पूर्ण भारत में अधिकांश हिन्दू या तो विष्णु का पुजारी है या शिव और ब्रह्मा का किन्तु मनु महाराज ने उसका भजन किया जिसके अंश मात्र से अनन्त त्रिदेव उत्पन्न होते, विलय को प्राप्त होते रहते हैं। यहाँ विश्व के निर्माता, प्रथम उत्पत्ति-स्थिति-संहारकर्ता एक परमात्मा हैं, वही वास्तविक विश्वकर्मा हैं। विश्व का रचनाकार, गतिविधि नियंत्रक एवं संचालक गोस्वामी तुलसीदास जी एक परमात्मा को ही संबोधित कर रहे हैं।

जिस लंकाधिपति रावण की राजसभा में “कर जोरे सुर दिशिप विनीता। भृकुटि विलोकत सकल सभीता।।” समस्त देवता विनीत भाव से नमन कर रहे थे, जिनकी रक्षा के लिए परमात्मा ने अवतरित होने का आश्वासन दिया था, उसी सभा में भगवान का दूत निर्भीक खड़ा था। रावण बोला- दुष्ट मर्कट! क्या तूने मेरा सुयश नहीं सुना? तूने किसके बल से वाटिका का धंस किया? निशाचरों का संहार तूने किसके बल से किया? क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं है? हनुमान बोले; “सुन रावण ब्रह्माण्ड निकाया। पाइ जासु बल विरचति माया।।” यावन्मात्र ब्रह्माण्ड, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, जड़-चेतन, स्थावर, जंगम युक्त अनन्त ब्रह्माण्डों की संरचना जिसके बल से माया करती है, माया को रचनाधर्मिता प्रदान करने वाले भगवान हैं। जिससे रचना होती है वह मैटरीयल भगवान देते हैं। उपादान कारण, निमित्त कारण, ‘कारणं कारणानाम्’ भगवान ही हैं। जिसके बल से विधाता सृजन, विष्णु पालन, रुद्र संहार करते हैं और “जाके बल लवलेश ते, जितेउ चराचर झारि। तासु दूत में जाकर, हरि आनेहु प्रिय नारि।।” जिसका लेशमात्र बल पाकर तूने चराचर जगत् जीत लिया है, मैं उन्हीं परम प्रभु

का दूत हूँ जिनकी प्रिय भार्या का तूने अपहरण कर लिया है। माया में इतनी क्षमता कहाँ है कि वह रचना कर सके। “माया खलु नर्तकी विचारी” वह तो बेचारी नाचने वाली नटिनी मात्र है, इसके आगे कुछ नहीं। माया जिसका बल पाकर संरचना करती है, ब्रह्मा जिसका बल पाकर सृजन करते हैं, जिसका बल पाकर शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं, जिसका लेशमात्र बल पाकर तू इतरा कर धूम रहा है, मैं उन्हीं परम प्रभु का दूत हूँ। अस्तु, विश्व को किसने बनाया? विश्व में परिवर्तन किसकी देन है? उसी एकमात्र प्रभु की! उसी एक परमात्मा की शरण जाने के लिए गोस्वामी जी बार-बार आग्रह कर रहे हैं।

पुराणों में विश्वकर्मा के उल्लेख मिलते हैं। महाभारत काल में इन्द्रप्रस्थ की रचना मय दानव ने की थी। हनुमान जी ने लंका-दहन किया। स्वर्णिम लंका मिट्टी के ढेर में पिघल गयी। विश्वकर्मा ने उसका जीर्णोद्धार किया। लंका वैसे ही दमकने लगी। वह था रावण का श्वसुर मय दानव! भगवान श्रीकृष्ण की द्वारिकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। सुदामापुरी भी उन्होंने ही बनाया था। अभी एक सज्जन पूछ रहे थे कि विश्वकर्मा देवता था या दानव! हमें तो दोनों ही दिखायी दे रहे हैं। दानव हो या देवता, थे तो सगे भाई! एक पिता के पुत्र! मातृ पक्ष से दिति और अदिति की सन्तानें दानव और देवता हैं। विश्वकर्मा दोनों ही पक्षों में हैं।

कथा आती है कि एक बार इन्द्र ने महल बनवाया। वह ऐसा महल बनवाना चाहते थे जो सृष्टि में उस समय तक कहीं बना न हो। वे उस महल को और भी सजाना चाहते थे। उन्होंने विशेषज्ञों की राय ली, अतिथियों को सुझाव के लिए अनुनय किया। हर कोई अपनी-अपनी दृष्टि से कुछ न कुछ सुझाव देने लगा! सुधारते-सुधारते विश्वकर्मा परेशान हो गये। एक दिन महर्षि लोमश वहाँ पधारे। विश्वकर्मा ने उनसे अपनी परेशानी बताई, निवारण हेतु विनय किया। महर्षि ने आश्वासन दिया, इन्द्र के समीप गये। इन्द्र ने सादर प्रणाम किया, अपने उत्कृष्ट महल को देखने के लिए महर्षि से निवेदन किया। महर्षि ने उस महल का निरीक्षण किया किन्तु कुछ कहा नहीं। इन्द्र ने कहा- भगवन्! कहीं कमी प्रतीत हो रही हो तो निःसंकोच कहें, हम वैसा ही सुधार करा दें। महर्षि लोमश ने कहा- इसमें दो कमियाँ हैं जिनका सुधार कोई कर ही नहीं सकता। मर्माहत हो देवराज ने कहा, “आप आदेश तो दें।” महर्षि लोमश ने कहा- पहली कमी तो यह है कि एक दिन यह गिर जायगा और दूसरी कमी यह है कि इसे बनाने वाला इसमें रह नहीं पाएगा। इन्द्र मौन हो गये। विश्वकर्मा की जान वची। इस कथानक में

विश्वकर्मा देवराज के शिल्पी प्रतीत होते हैं जो दूसरों के निर्देशों का पालन करने के लिए वाध्य हैं।

किन्तु भगवान परम शिल्पी हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा है कि उन परम प्रभु के तेज के एक अंश मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम शिल्पी तो वे प्रभु ही हैं। विश्वकर्मा स्वतन्त्र अस्तित्व वाला कोई देवता नहीं है।

गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, “ममैवांशो जीवलोके” मेरे एक अंश से सारी सृष्टि का पालन, परिवर्तन और संचालन होता है इसलिए अर्जुन! तू मेरी शरण हो जा। अतः विश्व की संरचना करने वाला एक परमात्मा ही है। परमात्मा से अलग विश्वकर्मा कोई देवता नहीं है।

एक बार शस्त्र-पूजा हो रही थी। भीष्म ने अर्जुन से कहा, “कल शस्त्र-पूजा होगी।” अर्जुन उस समय बहुत ही छोटा था। अर्जुन ने प्रश्न किया- पितामह! शस्त्र कोई भगवान है क्या जो उसकी पूजा होगी? भीष्म बोले- पगले! शस्त्र कोई भगवान नहीं है। पूजा तो भगवान की ही होगी, जिससे वे प्रभु शस्त्र-संचालन में हमें निपुणता प्रदान करें। इसी प्रकार सम्पूर्ण देश अपने कारखानों, अपने व्यवसाय में एक प्रभु की प्रार्थना करके ही कार्यारंभ करते हैं जिससे दुर्घटना न घटित हो और वे अपने कार्य में प्रगति करते हुए उत्तरोत्तर सफलता की ओर अग्रसर हों, विश्वकर्मा पूजन का भी यही रहस्य है। “अखिल विश्व यह मोरि उपाया।” भगवान ही विश्व के निर्माता हैं इसलिए प्रभु का सर्वोपरि नाम विश्वकर्मा है। प्रभु की अनन्त छवियों में से हम उसकी निर्माता छवि का पूजन करते हैं जिससे हमारे निर्माण कार्य सदा रहें, वृद्धि करें। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी शरण हैं, हमें अर्जुन की तरह विजय दें। अस्तु, रूप चाहे जितने भी हों, पूजा मूलतः विश्व के कर्ता-धर्ता-संहर्ता एक परमात्मा की ही करनी चाहिए।

जानकी जी के स्वयंवर का आयोजन था। अनेक पराक्रमी नरेश धनुष तोड़ने के प्रयास में हताश हो चुके थे। दस हजार राजाओं ने भी सामूहिक प्रयास कर देखा किन्तु धनुष टस से मस नहीं हुआ। अन्ततः राम की कोमलता देखकर सीता जी व्याकुल हो गयीं- “तब रामहि विलोकि वैदेही। सभय हृदय विनवति जेहि तेही॥” जिस किसी का नाम याद आ गया वे उसी से अनुनय-विनय करने लगीं। “गननायक वरदायक देवा” गणेश जी की स्तुति करने लगीं कि आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी, आप हमारी विनय सुनें और राम के पहुँचते

ही धनुष को हल्का कर दें। उन्होंने महेश-पार्वती की आराधना की, प्रत्येक देवी-देवता का आवाहन किया। “देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर ॥” आँखें प्रेम से छलछला उठीं, रोमांच हो आया, सारे देवताओं को सीता जी सामूहिक रूप से मनाने लगीं। इन्द्र, वरुण, कुबेर सभी को मनाया होगा। विश्वकर्मा जी जरूर रहे होंगे। एक रन्दा मार देते तो हल्का हो गया होता! किन्तु देवताओं की ओर से सफलता के आसार दिखायी नहीं दिये।

सीता जी ने आँखें बन्द कर लीं और उन एक परम प्रभु का स्मरण आरंभ कर दिया, “तन मन वचन मोर पनु साचा। रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥। तौ भगवानु सकल उरवासी। करिहि मोहि रघुवर कै दासी ॥।” यदि मन-क्रम-वचन से उनके चरणों में मेरा निश्छल प्रेम है तो भगवान मुझे रघुवर की दासी बनायें। कौन भगवान? सकल उरवासी- वही जो सबके हृदय में निवास करता है। सीता तैतीस करोड़ देवी-देवताओं की प्रार्थना कर देख चुकी हैं। सबसे निराश होकर वह भगवान की शरण आई। हृदय के प्रेम को प्रभु ने तुरन्त पहचाना। ‘तेहि क्षण राम मध्य धनुष तोरा’— इधर पुकार हुई उसी क्षण उधर धनुष टूट गया। सीता को सफलता मिल गयी। पहले तो परम्परा के अनुसार उन्होंने जिस किसी की अभ्यर्थना की; किन्तु सफलता तभी मिली जब उस परमात्मा का स्मरण किया, जिसका सुमिरन करने के लिए रामचरित मानस में आदेश है।

देवपूजन हमारी परम्परा में है। सीता जी भी उसी परम्परा से गुजरीं; किन्तु सफलता तभी मिली जब ‘सकल उरवासी’— एक प्रभु के शरण गयीं। इसलिए जब तक समझ में न आये तब तक सब करो, चाहे जैसी पूजा करो; किन्तु बोध हो जाने पर भजन केवल भगवान का, समर्पण एक प्रभु के प्रति ही होना चाहिए।

विश्वकर्मा शब्द का सांकेतिक अर्थ है कि विश्व में कर्म ही प्रधान है- ‘कर्म प्रधान विश्व करि राखा।’ विश्व में कुछ पाना है तो कर्म करो और ‘जो जस करइ सो तस फल चाखा।’ जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। चाहे प्रगति की मंजिल का स्पर्श कर लो या पतन के गर्त में चले जाओ! शुभ-अशुभ कर्म तो अनन्त हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ कर्म है- हरि का स्मरण! उसका फल विपरीत भोग नहीं मिलता अपितु जैसा आप चाहते हैं सर्वतोमुखी समृद्धि ही मिलती है।

भगवान राम का अभिषेक हो चुका था। तीनों लोक में सुख-शान्ति की

लहर दौड़ गयी थी। उन दिनों भगवान ने एक सभा बुलायी- ‘एक बार रघुनाथ बुलाये। गुरु द्विज पुरवासी सब आये ॥’ गुरु, द्विज, पुरवासी सभी एकत्र हो गये तो उन्होंने सबको सम्बोधित किया- ‘बड़े भाग मानुस तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रन्थन्ह गावा ॥’ मनुष्य-शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं की अपेक्षा आपके पास एक सुविधा अधिक है। देवयोनि में पुण्यों के फलस्वरूप भोग तो है किन्तु पुण्य क्षीण होने पर देवता मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं।- ‘ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति । वे नवीन, अग्रेतर साधना करके परमात्म स्वरूप तक नहीं पहुँच सकते। यह क्षमता है तो केवल मनुष्य शरीर में है। इसीलिए मानव-शरीर को ‘सुर दुर्लभ सदग्रन्थन्ह गावा’ यह देवदुर्लभ है। विशेषता क्या है इसमें? ‘साधन धाम भोच्छ कर द्वारा’- यह साधन का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। साधन का अर्थ आटा, रोटी, दाल या जीविकोपार्जन के साधन नहीं बल्कि वह साधन जो आपको मुक्तिपर्यन्त दूरी तय करा दे। वह साधन है श्रद्धा, समर्पण, विवेक, वैराग्य- जो भगवत्प्राप्ति के लिए चाहिए, वह सब भगवान ने इस मानव-शरीर को प्रदान किया है।

उपर्देश का समापन करते हुए भगवान ने कहा, ‘जो परलोक इहाँ सुख चहहू। सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहहू ॥’ यदि परलोक, परमश्रेय चाहते हैं अथवा इसी लोक में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो आप मेरी बात ध्यान से सुनें! डायरी में लिखकर नहीं बल्कि हृदय में दृढ़तापूर्वक धारण कर लें, जिससे इसकी सृति सदैव बनी रहे। वह है क्या? ‘सुलभ सुखद भारग यह भाई। भगति मोरि पुराण श्रुति गाई ॥’ सबके लिए सुलभ, सभी के लिए सुखदायी केवल एक ही मार्ग है- मेरी भक्ति। यही श्रुतियों ने गाया है। सीताजी बगल में विराजमान थीं उनकी भक्ति नहीं कहा, हनुमान जी चॅंवर झल रहे थे उनकी भक्ति के लिए इंगित नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी भक्ति करो- यही श्रुतियों ने गाया है। समृद्धि चाहते हो मेरी भक्ति, सबके लिए केवल एक मार्ग-मेरी भक्ति! अभिप्सित हो तब भी मेरी भक्ति, सबके लिए एक मार्ग-मेरी भक्ति! भजन केवल एक परमात्मा का करना चाहिए- मानस का सम्पूर्ण सत्य इतना ही है। अनन्त योनियाँ भोग भोगने के लिए हैं। केवल मनुष्य कर्मों का निर्माता है- ‘कर्मनुवन्धीनि मनुष्यलोके।’ मनुष्य-योनि में कर्मों के अनुसार वन्धन तैयार होता है। आपके भाग्य प्रारब्ध में कुछ नहीं लिखा हो, सब कुछ लिख जायेगा, यदि आप सम्यक् कर्मों का परिपालन करें। कर्म एक ऐसा यंत्र है कि आप भगवान तक को प्राप्त कर सकते हैं।

भगवान बुद्ध गंगा के किनारे चर्या कर रहे थे। एक ज्योतिषाचार्य उधर से निकले। उन्होंने पदचिन्ह देखा तो बैठ गये। पुस्तकों का गट्ठर खोला और उस पदचिन्ह का विश्लेषण करने लगे। उन्हें विदित हुआ कि वह पदचिन्ह-चक्रवर्ती सम्राट् का होना चाहिए। उन्हें लगा कि ज्योतिष झूठा है; क्योंकि चक्रवर्ती है तो वह फटेहाल नंगे पाँव क्यों धूम रहा है? कहाँ गया उसका चँवर, छत्र और ऐश्वर्य? उसने पुस्तकों का गट्ठर गंगा में प्रवाहित कर देने का निश्चय किया। अकस्मात् उसे स्मरण हुआ कि पदचिन्ह तो तत्काल का है। यह सज्जन अभी समीप ही होंगे। देख तो लूँ कि वे हैं कौन? उसने दाहिने-बायें ढूँढ़ा। एक पीपल-वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध पद्मासन लगाये ध्यानस्थ बैठे थे। आचार्य ने हाथ की रेखायें देखी, पदचिन्हों का अवलोकन किया, ग्रीवा एवं मस्तक की रेखाओं का परितुलन किया और अन्ततः भगवान बुद्ध को ज्ञकज्ञोरते हुए बोला, “महाशय! आप हैं कौन? आपने तो मेरे जीवन भर के परिश्रम पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है? हमने तीस वर्ष तक मन लगाकर ज्योतिष विद्या पढ़ी। आप में मैंने चक्रवर्ती सम्राट् के लक्षण पाया। इन लक्षणों से युक्त गत दो हजार वर्षों में केवल दो हुए हैं, तीसरे महानुभाव आप हैं। आपको सम्राट् होना था किन्तु आप मात्र एक खप्पर लेकर गली-गली भिक्षाटन कर रहे हैं? लगता है ज्योतिष झूठा है। हाथ-पाँव के मोड़ पर रेखायें स्वाभाविक हैं। इन रेखाओं से जैसा कुछ होना चाहिए वैसा है नहीं! कृपया अपना परिचय दें कि आप कौन हैं?”

बुद्ध ने कहा, “पण्डित! तुम्हारा ज्योतिष सत्य है। मेरे जन्म के अवसर पर ज्योतिषाचार्यों ने कहा भी था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट् होगा। जब मैं बड़ा हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट् के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएँ हो चली थीं किन्तु भजन के प्रभाव से हमने उस संस्कार को काट दिया है। वह संस्कार अब मुझे विवश नहीं कर सकता। वह संस्कार मात्र भौतिक जीवनयापन का एक तरीका था, उससे शाश्वत कुछ नहीं होना था। भजन और तपस्या के प्रभाव से मैंने उस कुसंस्कार को छिन्न-भिन्न कर दिया है।”

‘मंत्र महामणि विषय व्याल के। मेट्ट कठिन कुअंक भाल के॥’ असाध्य कुअंक, घोर नरक ही क्यों न लिखा हो, आपके भाग्य में यातनाएँ ही क्यों न लिखी हों वह भी मिट जायगी, केवल आप श्रद्धा और समर्पण के साथ एक प्रभु का नाम लें। दो-ढाई अक्षर का कोई भी नाम (ॐ अथवा राम) जो सीधा उस परमात्मा को ही सम्बोधित करता हो, ऐसे नाम का जप समर्पण के साथ आरंभ भर कर दें- चलते-फिरते, उठते-बैठते नाम आता रहे, कंजूस के सोने की तरह

कभी चित्त से न उतरे, विस्मृत न हो। शौच जाते, पानी पीते, भोजन करते, सोते-जागते सदैव स्मृति पटल पर बना रहे, श्रद्धा-समर्पण भाव के साथ नियमित नाम-जप से चार छः महीने में ही आप पायेंगे कि भगवान आपके साथ हैं। अतः सब लोग श्रद्धा के साथ एक परमात्मा का भजन करें, आपकी सारी व्यवस्था भगवान स्वयं करने लगेंगे।

‘कर्म प्रधान विश्व करि राखा’ विश्व में शुभाशुभ रचनाओं की जिम्मेदारी कर्म पर आती है। विश्व में कर्म ही सब कुछ है। अपना सत्कर्म वह है जो भगवान के प्रति समर्पण द्वारा आपको अपने घर की ओर ले चले, अपने सहज स्वरूप की ओर ले चले, आपको अपने स्वरूप का दर्शन और स्थिति दिला दे। आपको पूर्ण कर दे वह पुण्य-कर्म और पतन के गर्त में ले जाय वह पाप-कर्म कहलाता है। संसार में कितना ही कुछ हो जाय, एक दिन सब छोड़कर जाना ही होता है। क्यों न वह कर्म करें जिस पर भगवान सदैव आगे-पीछे रक्षक के रूप में खड़े रहें।

मनुष्य कर्मों का निर्माता है। महाराज दशरथ के भाग्य में यह नहीं लिखा था कि तुम पुन्र-वियोग में मरोगे। यह इसी जन्म की उनकी कमाई थी। युवराज दशरथ यौवन के उमंग में शब्दवेधी बाण का अभ्यास कर रहे थे। जंगल में झुरमुट से पक्षी की आवाज आयी- चिक! उन्होंने शरसन्धान किया। चिड़िया पृथ्वी पर आ गयी। बन्दर बोला- ‘खाऊँ! तो वह भी जमीन पर आ गिरा। मृग बोला- पिक या वाघ ने दहाड़ा तो बाण सीधा उसकी छाती में लगा।

एक दिन एक घटना गयी! जलाशय से ‘बुड़-बुड़’ की ध्वनि आयी। युवराज ने सोचा, हाथी पानी पी रहा है। उन्होंने तीर चलाया तो श्रवण की छाती में जा लगा। युवराज को पश्चाताप हुआ। श्रवण ने उन्हें आश्वस्त कर कहा- मृत्यु का कोई न कोई निमित्त तो होता ही है। आप चिन्ता न करें। मेरे माता-पिता प्यासे हैं, आप उन्हें जल पिला दें। मरणान्तक वेदना है, अब तब लगा है फिर भी उस पितृभक्त को माता-पिता के प्यासे होने की चिन्ता है अपनी नहीं। और कोई होता तो कहता कि आप तो युवराज हैं, पहले मेरा इलाज करावें। ऐसे ही भक्तों का इतिहास हमारी संस्कृति है। दशरथ ने तपस्वी दम्पत्ति को जल निवेदित किया। वे बोले, “श्रवण! आज तुम बोलते क्यों नहीं हो? हमें व्याकुलता हो रही है। जब तक तुम बोलोगे नहीं, हम जल ग्रहण नहीं करेंगे!” युवराज ने सारी परिस्थिति बता दी। तपस्वी विगड़ खड़े हुए। उन्होंने शाप दिया। शाप एक प्रकार से वरदान भी था। दशरथ को उस समय तक कोई सन्तान न थी। कालान्तर में

उन्हें चार पुत्र हुए। कैकेयी के दुराग्रह से राम को वन जाना पड़ा। उन तपस्थियों का आशीर्वाद फलीभूत हुआ, पुत्र हुए और वियोग भी हुआ। उसी वियोग में दशरथ का प्राणान्त हुआ। मृत्यु से पूर्व दशरथ ने कहा- “कौशल्ये! अब तो तुम भी मुझे नहीं दिखायी देती। हमें केवल श्रवण कुमार के माता-पिता दिखायी दे रहे हैं। मेरा अन्त आ गया है!” दशरथ मर भी गये। यह पूर्वजन्म का संचित नहीं, इसी जन्म का अर्जन था। अतः मनुष्य कर्मों का निर्माता है और कर्म ही विश्व में सब कुछ है। विश्व में आप अपनी सुरचना कर सकते हैं। भगवान् की गोद में अपने को फेंककर समर्पण के साथ चिन्तन करें, विश्व का पार पा जायेंगे। यदि आप भूल-भुलैया की ओर बढ़े तो आवागमन का दो चक्कर और बढ़ जायेगा।

प्रायः लोग कहते हैं कि यह सब हमारे कर्म में नहीं है, हमारे भाग्य में ऐसा कहाँ; किन्तु यदि मनुष्य शरीर मिला है तो आपका भाग्य पूर्ण है। इसके अतिरिक्त कर्म में कुछ लिखा हो या न लिखा हो, कोई अन्तर नहीं पड़ता। ‘बड़े भाग्य मानुष तन पावा’ बड़ा भाग्य तो उसी दिन से है कि अधम योनियों में भटकते-भटकते आप इस घाट पर पहुँच गये कि मानुष तन पा गये। भले ही वह भिखारी की स्थिति में मिला हो या सम्राट की स्थिति में, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि मनुष्य कर्मों का रचयिता है।

एक था केवट - लोक वेद सब भाँतिहि नीचा। जासु छाँह छुइ लेइय सींचा।। लोक और वेद दोनों में उसका स्थान निम्न था किन्तु राम ने जिस दिन से अपना लिया, तीनों लोकों में पवित्र पुरुष था तो केवट! केवट भक्त शिरोमणि हो गया। आज बड़े आदमी किसी गरीब को अपनाते हैं तो कहते हैं- तुम हमारे हो, थोड़ी दूर बैठ जाओ। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। राम अपनाते हैं तो अपना रामत्व प्रदान कर देते हैं, अपनी भगवत्ता में समाहित कर लेते हैं। भगवान् ने कहा- तुम मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहेड़ पुर आवत जाता।। तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितना भाई भरत! हमारा घर तुम्हारा घर है, सदा आते-जाते रहना। राम ने उसे सीने से लगाया। गुरु वशिष्ठ का चरण-स्पर्श केवट करने लगा तो उन्होंने भी उसे गले लगाया। जब भी अयोध्या में केवट पहुँचता, भरत के समानाज्ञर उसे भी आसन मिलता था। ‘जो जस करइ सो तस फल चाखा’ बाल्यकाल से ही उसने सोचना आरंभ किया कि कुछ कर्म में नहीं है। नाव इस पार उस पार करते, धोंधा-मछली मारते मूर्वज चले गये। खटो खाओ मर

जाओ- बस इतना ही जीवन है या अन्य कोई रास्ता है? उसकी समझ में आ गया, वह चिन्तन करने लगा। राम के वियोग में वह नाव चलाना ही भूल गया। भगवान ने उसके प्रेम का प्रवाह देखा, रास्ता बदलकर प्रभु उसके पास आये, उठा लिया, हृदय से लगा लिया, चरण भी धुला लिया और केवट भुवन भूपण बन गया। अतः मनुष्य कर्मों का रचयिता है न कि पूर्वकृत संस्कारों का दास।

लंका-अभियान में सागर-सन्तरण की समस्या आयी। विभीषण ने भगवान राम को समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना का परामर्श दिया। भगवान कुश की चटाई विछाकर बैठ गये। लक्ष्मण को यह अच्छा न लगा। 'मन्त्र न यह लछिमन मन भावा। राम वचन सुनि अति दुख पावा॥। कादर मन कर एक अधारा। दैव-दैव आलसी पुकारा॥' हे नाथ! दैव का क्या भरोसा? भाग्य, तकदीर, होनहार, संस्कार, मुकद्दर, प्रारब्ध इत्यादि दैव के पर्याय हैं। भाग्य में नहीं लिखा है तो हाथ जोड़ने से लिख उठेगा? दैव तो कायरों के मन की वैशाखी है। आप धनुष उठाइये, समुद्र ही सुखा दीजिए। भगवान ने कहा- लक्ष्मण! ऐसा ही होगा, पहले हमें नीति का पालन कर लेने दो। तीन दिन उन्होंने नीति का पालन किया और चौथे दिन ज्योंही वाण का अनुसंधान किया, समुद्र एक स्वरूप धारण कर प्रस्तुत हुआ। उसने उपाय बताया कि आपकी सेना के दो युवक नल और नील विश्वकर्मा के बेटे हैं। उनके स्पर्श से पत्थर जल पर तैरने लगेंगे। आप द्वारा निर्मित इस सेतु से सम्पूर्ण सेना सागर पार हो जायेगी और आपका सुयश यह सेतु अनन्त काल तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा।

**वस्तुतः** संसार ही समुद्र है। ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति ही वानरी सेना है। भगवान ही इस सेना के संरक्षक हैं, अनुभवों के द्वारा सदैव साथ हैं। नल और नील नियम और नाम हैं। नाम को जब आप नियमित रूप देते हैं तो वह भवसागर पर तैरने वाला हो जाता है। आपका हर संकल्प संसार की अभिवृद्धि करने वाला, दुखोनेवाला है किन्तु नाम जब नियमित रूप ले लेता है तो हर संकल्प भगवान के नाम से ओतप्रोत होने लगता है। नाम का इतना जप करो कि नियमित रूप ले ले, श्वास में प्रवाहित हो जाय। जहाँ स्वर निरोध की स्थिति आई, संकल्प-विकल्प जिस क्षण शान्त हुए, स्वर स्थिर हुआ, इस निरोध के साथ ही इसकी ओट में जो सत्ता छिपी है उसी का नाम राम है। 'जे रामेभर दर्शन करिहहिं। ते तनु तजि भम लोक सिधरिहिं॥। सृष्टि में कभी भी कोई मनुष्य होगा तो यही सेतु है।'

विश्वकर्मा का आशय है कि विश्व में कर्म ही प्रधान है। कर्म करते समय पूजन करें। पूजन विश्व के निर्माता की करें और आदेश का पालन करें कि 'नर तन भवं वारिधि कहँ बेरो। सन्मुख भर्स्त अनुग्रह मेरो।। करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा।। जो न तरइ भव सागर, नर समाज अस पाइ। सो कृत निन्दक मन्दमति, आत्माहन गति जाइ।।' अर्थात् मनुष्य शरीर भवसागर से पार होने के लिए जहाज है। मेरी अनुकूलता ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु केवट है। मानव-तन का यह साज दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ मानव-तन को पाकर जो भवसागर नहीं तर जाता वह कृतनिन्दक है, करने से कतराता है, कल पर टालता है, मन्दमति है, बुद्धि का हलका है और अपनी आत्मा का हत्यारा है। अतः मनुष्य कर्मों का रचयिता है। सो सुख करम धरम जरि जाऊ। जहाँ न राम पद पंकज भाऊ।। ऐसे शुभ कर्म करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं जो अविनाशी पद, भगवान का धाम है। वह आपका ही छिपा हुआ स्वरूप है, आपका अनन्त जीवन और शाश्वत शान्ति का पद है। उसे पाने के पश्चात् पुनः कोई कामना, कोई अभाव नहीं रहेगा। अशुभ कर्म करके आप भवाटवी में भटकेंगे। अपार संसृति का भ्रमण! सौभाग्य से आपको मानव तन मिला है तो विश्व का सर्वोत्कृष्ट कर्म नियत कर्म करके लोक में समृद्धि और परलोक में शाश्वत शान्ति के उपभोक्ता बन सकते हैं।

॥ ॐ श्री सद्गुरु भगवान की जय ॥

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।  
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥

जो पुरुष ‘ओम् इति’ ओम् इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष परमगति को प्राप्त होता है। कृष्ण एक योगी थे, परमतत्त्व में स्थित महापुरुष थे, सद्गुरु थे। योगेश्वर श्रीकृष्ण ने बताया कि ओम् अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू इसका जप कर और ध्यान मेरा कर। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वह प्राप्त है, जिसमें वह विलय है, इसलिए नाम ‘ओम्’ का बताया और रूप अपना। योगेश्वर ने कृष्ण-कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया। लेकिन कालान्तर में भावुकों ने उनका ‘भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं; जैसा कि “मनुष्य की श्रद्धा जहाँ कहीं टिक जाती है वहाँ मैं ही खड़ा होकर उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता तथा मैं ही फल का विधान करता हूँ किन्तु वह फल भोगने में आ जाता है जबकि मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है, उसका पतन नहीं होता।”

- ‘यथार्थ गीता : श्रीमद्भगवद्गीता’  
(अध्याय ७, श्लोक १६)

# मूर्तिपूजा वैद्य या अवैद्य?

मूर्तिपूजा आध्यात्मिका की प्रवेशिका मात्र है।

जिससे बच्चे-बच्चे में आध्यात्मिका का बीजारोपण हो सके।

मूर्तिपूजा प्राथमिक कक्षा (अवस्था) है इसलिए एक सीमा तक ही वैध है।

इससे उन्नत कक्षाओं (अवस्थाओं) में पहुँचने के लिए किसी महापुरुष का सान्निध्य अपेक्षित है।

-स्वामी अडगडानन्द

## मूर्तिपूजा वैध या अवैध?

वन्धुओं!

आज की जनसभा में आपकी ओर से कतिपय प्रश्न आये हैं। उनमें से एक सज्जन ने जानना चाहा है कि मूर्तिपूजा वैध है या अवैध?

यह विश्व के अत्यन्त विवादास्पद प्रश्नों में से एक है। मूर्तिपूजकों तथा मूर्तिभंजकों के संघर्षों से इतिहास भरा पड़ा है। विश्व में सर्वाधिक मूर्तियाँ भारत में हैं। तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं की गणना तो कब की हो चुकी थी, आज भी उनकी अभिवृद्धि होती जा रही है। किसी को लाठियों की मार से मर गया तो ब्रह्म हो जाता है। आजकल वच्चों के नाम गुड़-गुड़ी रखते ही हैं। गुड़ी माई का एक चवूतरा है वरैनी गाँव में। कहीं थोड़ा-सा लाल रंग पोत दें, प्रणाम करने वालों की कमी नहीं रहेगी, लाइन लग जायगी। आपके परिवार का भले ही नियोजन हो गया हो किन्तु देवी-देवताओं की वृद्धि पर कोई अंकुश नहीं है। देवताओं की कमी पड़ती है तो लोग मजारों की ओर बढ़ जाते हैं। विगत दो-ढाई हजार वर्षों में आपके धर्मचारियों ने इन देवताओं को बढ़ाने का ही काम किया है। पूजन का आरम्भ गणेश से करके न जाने किन-किन देवताओं का नाम लेते चले जायेंगे, भगवान का नाम लेते ही नहीं। अतः आपका प्रश्न विचारणीय है कि मूर्तिपूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।

वैसे तो पूरा विश्व ही मूर्तिपूजक है। पंचभूतों से निर्मित किसी आकार पर श्रद्धा स्थिर करना मूर्तिपूजा है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, पुस्तक, आकाश इत्यादि सभी मूर्तिपूजा के अन्तर्गत हैं। कौन मूर्तिपूजक नहीं है?

यह भी सच है कि भारत में सबसे अधिक मूर्तियाँ हैं, मन्दिर हैं; किन्तु भारत मूर्तिपूजक नहीं है। ये मंदिर-मूर्तियाँ आध्यात्मिक देश भारत में अध्यात्म की जिज्ञु कक्षाएँ हैं। माताएँ छोटे वच्चों को सिखाती हैं कि पिता को प्रणाम कर, बड़े भाई को प्रणाम कर। यह कुलदेवी हैं। घर के प्रत्येक कोने में भगवान का कोई रोई चित्र! वहाँ प्रणाम करो। धूपवर्ती जलाओ। तुलसी को प्रणाम करो,

पीपल को प्रणाम करो। यह गंगा इत्यादि पवित्र नदियाँ हैं। सूर्य, चन्द्र इत्यादि नक्षत्र हैं। माताएँ सर्वत्र प्रणाम कराती हैं, जिससे बच्चों में आध्यात्मिकता के संस्कार पड़ जायें। वे समझ लें कि कोई शाश्वत सत्ता है जो सक्षम है, हमें शक्ति देती है। महापुरुषों ने भजन की पूर्तिकाल में जिस तत्त्व को पाया वह परमात्मा कण-कण में व्याप्त, ओत-प्रोत मिला इसलिए जड़-चेतन सबको प्रणाम करने का प्रशिक्षण वात्यकाल से ही मिलने लगता है।

**शनैः-शनैः:** अठारह-वीस वर्ष की आयु का होते-होते वही बालक इस चिन्तन में पड़ता है कि भगवान् एक है अथवा अनेक! हम भजन किसका करें? इस प्रश्न के समाधान हेतु वह बड़े-बड़े विद्वानों से मिलता है। तीर्थों में, बड़े मन्दिरों में जाता है, सन्तों का सान्निध्य लाभ करता है और जहाँ कहीं महापुरुष सद्गुरु मिल गये, उनसे साधन-क्रम समझता है फिर वह शान्त एकान्त झाड़ियों, कुटीरों और खंडहरों में पाया जाता है। आरंभ का वह कट्टर मूर्तिपूजक लौटकर कभी मन्दिर में नहीं जाता। साधना ने जहाँ सही दिशा पकड़ी तो वह जिज्ञासु शान्त वनस्थलियों में पाया जाता है। वह एकान्तसेवी हो जाता है।

बुद्ध मूर्तिपूजक थे; किन्तु मूर्तिपूजा का जितना खण्डन गौतम बुद्ध ने किया उतना अन्य किसी ने नहीं किया। महावीर मूर्तिपूजक थे। गृह-परित्याग से पूर्व सारे धर्म-कर्म वैसे ही करते थे जैसा आप करते हैं। गृहत्याग से पूर्व एक वर्ष तक उन्होंने ब्राह्मणों को एक करोड़ स्वर्ण-मुद्रा का दान दिया था। जैन कोई अलग धर्म रहा होता तो वे ब्राह्मणों को दान क्यों देते? आपकी परम्पराओं का भी उन्होंने भली प्रकार निर्वाह किया किन्तु जब साधना में प्रवृत्त हुए तो लौटकर मंदिर कभी नहीं गये। जड़ भरत, प्रत्येक महापुरुष, हमारे गुरुदेव और स्वयं हमारा भी यही इतिवृत्त है। अस्तु, भारत मूर्तिपूजक नहीं है। मूर्तिपूजा आध्यात्मिकता की प्रवेशिका मात्र है, जिससे बच्चे-बच्चे में आध्यात्मिकता का बीजारोपण हो सके।

शिशु के चेतन, अवचेतन मन पर संस्कारों के दूरगामी परिणामों की शोध कर भारतीय मनीषा ने गर्भाधान संस्कार की परिकल्पना कर ली। उन्होंने पाया कि गर्भस्थ बालक भी सुनता है, समझता है और आचरण में ढाल लेता है। अभी कुछ दिनों पूर्व एक सज्जन ढाई-तीन वर्ष का एक बालक लेकर आये, जो रामचरित मानस का “नमामीशमीशान निर्वाण रूपं” वाली शिव-स्तुति पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि यह बिना सिखाये पढ़ रहा है। जब यह गर्भ में था तो मैं प्रतिदिन इसकी माँ को यह स्तोत्र प्रातः-सायं सुनाया करता था और वह बड़े

मनोयोग से तल्लीन होकर इसे सुनती थी। इसी प्रकार का कथानक महाभारत में अभिमन्यु का है, जिसने गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह-भेदन कला का ज्ञान अर्जित किया था। महर्षि अष्टावक्र की कथा भी ऐसी ही है। उनके वेदपाठी पिता शिव्यों को श्रुतज्ञान दे रहे थे, उनकी माँ भी तल्लीन हो सुन रही थी। पाठ में त्रुटि होने पर गर्भस्थ शिशु ने टॉंका। पिता जी क्रुच्छ हो गये- इतना टेढ़ा! अभी जन्मा भी नहीं मुझे ल़लकार रहा है! शाप दिया कि आठ अंगों से टेढ़े हो जाओ! वही वालक अष्टावक्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। उपनिषदों में उनकी अनेक गाथाएँ हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को विदेहराज जनक की कैद से मुक्त कराया था। अस्तु, वच्चे गर्भाधान से ही सीखना आरंभ कर देते हैं। इसीलिये पूर्वजों ने इसी समय से एक परमात्मा का संस्कार वच्चे-वच्चे में डालना आरंभ किया।

इसके बाद जातकर्म, मुण्डन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार इत्यादि पोडश संस्कारों के माध्यम से केवल एक बात वतायी जाती है कि “सहस्रशीर्प पुरुषः” अर्थात् वह परमात्मा अनन्त हाथ, पैर, मुख वाला है। उसके तेज के एक अंश मात्र से इस सृष्टि का सृजन और पालन है। पूर्व महर्षियों ने उसी एक परमात्मा को मानस यज्ञ द्वारा विदित किया। ब्रह्मा ने जिसका ध्यान किया, इन्द्र ने जिसकी स्तुति की, वही एक सत्य है, उसे धारण करो। वस इतना ही कर्मकाण्ड में वताया जाता है। काण्ड का अर्थ है घटना! जन्म एक घटना है, विवाह भी एक घटना है। इसी प्रकार जीवनपर्यन्त प्रमुख-प्रमुख अवसरों पर एक परमात्मा की शोध के लिए उत्त्वेरित करना, इस भावना का वीजारोपण करना भारतीय पुरोहितों का आध्यात्मिक अवदान (व्यवस्था) है।

शिशु कक्षाओं में ‘क’ माने कवूतर, ‘ख’ माने खरगोश, ‘ए’ फार एप्पिल, ‘बी’ फार बैट पढ़ाया जाता है। प्रत्येक अक्षर को समझने के लिए वड़े-वड़े चित्रों की पुस्तक में भरमार रहती है। ‘भेड़िया नन्हीं लाल चुन्नी की नानी बन बैठा’ जैसी कहानियाँ कुतूहलवर्द्धन मात्र के लिए होती हैं। वही वच्चे जब माध्यमिक कक्षाओं में जाते हैं तो महाराणा का भाला और चेतक, अकवर का साम्राज्य विस्तार जैसे कुछ स्वत्य ऐतिहासिक मानचित्र रह जाते हैं। वही छात्र स्नातक, परास्नातक और शोध कक्षाओं में पहुँचने पर मोटी-मोटी पुस्तकें पढ़ डालता है जिसमें एक भी चित्र नहीं रहता। वहाँ न तो कवूतर है न एप्पल! क्योंकि चित्रों के माध्यम से जिस आकृति का बोध कराना था उसे करा दिया, वर्ण पकड़ में आ दा तो चित्रों की उपयोगिता समाप्त हो गयी। ठीक इमीं प्रकार ये मूर्तियाँ

आध्यात्मिकता की प्राथमिक कक्षाएँ हैं, परिचयाक्षर हैं, आरंभिक उपकरण हैं किन्तु मरने की घड़ी तक यदि आपका बच्चा ए फार ऐप्पल ही पढ़ता रहे तो शोचनीय है। इससे आगे भी कक्षाएँ हैं। इसी प्रकार मंदिर जाना उचित है किन्तु जीवनपर्यन्त जाना साधक की कायरता है।

विश्व स्तर पर भगवान के मन्दिर तो अरबों-खरबों बने हैं किन्तु भगवान की वास्तविक प्रतिमा एक में भी नहीं है। क्योंकि “जिन देखा सो कहा नहिं, कहा सो देखा नाहिं।” रहिमन अगम बात के, कहन सुनन को नाहिं।।” जिन्होंने उसे देखा, उसने कहा नहीं और जो कहता है कि भगवान ऐसे हैं, उस बेचारे ने देखा ही नहीं। बस्तुतः वह अगम्य है, कहने-सुनने की बात नहीं है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि वह नित्य है, अगोचर है; इन्द्रियों से देखने-जानने में नहीं आता। मन और बुद्धि जहाँ तक निर्णय कर सकते हैं वहाँ तक भगवान नहीं हैं। इसलिए इन्द्रियों का दमन, मन का शमन करके उन महापुरुषों ने उसे अनुभव की आँख से पाया। आदि शंकराचार्य ने कहा— अनिर्वचनीय! वाणी से उसका निर्वचन किया ही नहीं जा सकता! लेकिन तुम उसे प्राप्त कर सकते हो! कैसे? “करतल भिक्षा तरुतल वासं भज गोविन्दम् मूढमते!” रे मूर्ख! भजन कर! हथेली पर भिक्षा और वृक्ष के नीचे निवास करने को मिले तब भी “भज गोविन्दम्”— हर हालत में भजन कर! कबीर ने कहा, “लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल। लाली देखन मैं गयी, मैं भी हो गई लाल।।” उन्होंने भगवान के सहज प्रकाश को लाली की संज्ञा दी। उस मेरे लाल की लाली ही सर्वत्र व्याप्त है— ‘जित देखूँ तित लाल।’ ‘ईशावास्यमिदं सर्वं।’ जहाँ उस लाली का स्पर्श हुआ, मैं भी लाल हो गया, तद्रूप हो गया, उसी में समाहित हो गया। पूज्य महाराज जी कहते थे कि नमक की पोटली समुद्र का थाह लेने गयी और समुद्र ही होकर रह गयी, उसी में विलीन हो गयी। लौटकर सन्देशा कौन दे?

प्रत्येक महापुरुष का एक ही निर्णय है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि “तुम्हरी कृपा पाव कोई कोई।” भगवन्! आपकी कृपा से विरला ही कोई आपको प्राप्त करता है। जब पाता है तो भगवान हैं कैसे? “जानत तुम्हि तुम्हहि होई जाई।” वह तुम्हें जानकर तुम ही हो जाता है। सेवक सदा के लिए खो जाता है, स्वामी ही शेष बचता है। गोस्वामी जी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। “सुरसरि मिले सो पावन कैसे। ईस अनीसहिं अन्तर जैसे।।” एक वूँद जल का स्पर्श यदि गंगा से करा दिया जाय तो वूँद का पृथक् अस्तित्व ढूँढ़ने से भी

मिलेगा। वह बूँद भी गंगा कही जायेगी। गंगा की धारा ही सर्वत्र दिखायी देगी। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का विशुद्ध अंग—यह जीवात्मा साधना के सही दौर में पड़कर, अंशी उस परमात्मा का स्पर्श करने पर “जानत तुम्हहि तुम्हहि होई जाई” उसी में मिल गया। जो अधिक था उसका नाम शेष रहता है, जो अंग मात्र था उसकी संज्ञा अंशी में समाहित हो जाती है। यही है सहज स्वस्थ्य की प्राप्ति- कैवल्य पद! इसलिए भगवान के मंदिर तो बहुत बने किन्तु उसकी प्रतिमा किसी में भी नहीं है।

गोस्वामी जी ने इस प्रश्न को कई दृष्टियों से समझाने का प्रयास किया है। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रश्न किया, कि जिसका आप दिन-रात चिन्तन करते हैं वह राम कौन हैं— “राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई॥” राम वही हैं जो अयोध्या नरेश के पुत्र थे या अलख अविनाशी कोई अन्य? “जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि, नारि विरह मति भोरि। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरि॥१/१०८॥। यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? एक स्त्री के विरह में हाय सीते! हाय सीते! करने वाला, वृक्षों और लताओं से उसका पता पूछने वाला ब्रह्म कैसे हो सकता है। वृक्षों ने कभी पहले भी इनसे वार्तालाप किया था क्या? ‘देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरि।’ इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर महिमा देखकर कि जिधर देखा राम, लक्ष्मण और सीता को खड़ा पाया, आँखे मूँद ली, इसलिए मेरी बुद्धि में एक भ्रम है कि राम कौन हैं? कैसे हैं?

भोलेनाथ पहले तो विगड़ खड़े हुए, फिर ध्यान धर के देखा और बोले, पार्वति! यह प्रश्न तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें तो कोई सन्देह ही नहीं है किन्तु संसार का यह प्रश्न अवश्य है। जगत् के हित के लिए तुमने प्रश्न किया है तो सुनो, ‘आदि अन्त कोउ जासु न पावा। मति अनुमानि निगम अस गावा॥।’ आदि अर्थात् कब जन्म और अन्त अर्थात् रहेगा कब तक, यह तो कोई नहीं जान सका; किन्तु अपने विवेक के अनुसार वेदों ने उसका गायन इस प्रकार किया है कि ‘विनु पद चलइ सुनइ विनु काना। कर विनु करम करइ विधि नाना॥।’ विना पैरों के वह सर्वत्र चलता है, विना हाथों के सर्वत्र कार्य करता है। ‘तन विनु परम नयन विनु देखा’— विना शरीर के वह स्पर्श करता है, विना आँखों के सर्वत्र देखता है। अब बुलाओ कोई फोटोग्राफर! खींच ले उसका चित्र, जो विना पैर के ल रहा है, विना शरीर के स्पर्श कर रहा है। ‘असि सब भाँति अलोकिक

करनी। महिमा जासु जाइ नहिं वरनी॥’ अलौकिक अर्थात् सृष्टि से परे जिसकी रहनी है, जिसकी महिमा वाणी का विषय नहीं है, अनुभवगम्य है। अन्त में वे निर्णय देते हैं— ‘जेहि इमि गावहिं वेद बुध, जाहि धरहिं मुनि ध्यान। सो दशरथ सुत भगत हित, कोशलपति भगवान्॥’ जिसे इस प्रकार वेद और बुध अर्थात् प्रत्यक्षदर्शी तत्त्वदर्शी महापुरुष गायन करते हैं, मुनि लोग जिसका ध्यान धरते हैं वह हैं दशरथसुत, भक्त के हितैषी, कोशल के स्वामी भगवान्! मुनि लोग किसी मूर्ति का ध्यान नहीं धरते। मुनि लोग उसका ध्यान धरते हैं जो बिना पैरों के चलता है, बिना आँखों के देखता है, जिसकी करनी हर तरह से अलौकिक है। यदि कोई कदाचित् इसके अतिरिक्त किसी का ध्यान धरता है तो वह अभी मुनि ही नहीं है।

भगवान् दशरथ सुत हैं। मानस वस्तुतः आत्मदर्शन की कुंजी है इसलिए रहस्यात्मक ही है। मानस मन को, अन्तःकरण को कहते हैं। रामचरित मानस अर्थात् राम के वे चरित्र जो आपके अंतःकरण में प्रसारित हैं। ये हैं सबमें किन्तु दिखायी तो नहीं देते? सूक्ष्मता से मन का विश्लेषण करें तो काम के चरित्र, लोभ-मोह के चरित्र, राग-द्वेष के चरित्र दिखायी पड़ेंगे। राम के चरित्र तो नहीं दिखायी पड़ते। अब राम के प्रसुत चरित्र जिस प्रकार जागृत होते हैं, जागृत होकर आपसे रामपर्यन्त की दूरी तय कराते हैं वह साधना विधि इस रामायण में अंकित है। यह पूरी की पूरी रामायण मानसिक है। आपके मन के अन्तराल में प्रसुत राम अर्थात् उस परम चेतन की जागृति और रामपर्यन्त दूरी तय करा देने वाली प्रक्रिया इस मानस में है। इसमें दसो इन्द्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। विषयों के सेवन से मन का निरोध होता नहीं। “जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई॥” “सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नव नूतन मार” इच्छा और भड़क उठेगी। मन का जब भी निरोध होगा, भजन से होगा, भगवान् के सुमिरण से होगा। सुमिरन में श्रद्धा की डोरी लग जाय, दसो इन्द्रियाँ संयमित होकर एक इष्ट की दिशा में जिस क्षण प्रवाहित हुई कि राम प्रकट हो जायेंगे।

भगवान् भक्त हितैषी हैं। भक्त वही है जो सम्पूर्ण इन्द्रियों की चेष्टाओं को समेट कर एक हरि का सुमिरन करे। कोश कहते हैं आत्मिक सम्पत्ति के संग्रह को! वही आपका निजधन है, जो एक बार प्राप्त हो जाय तो निश्चित मुक्ति देकर ही दम लेता है। उस सम्पत्ति का जो मालिक है, वह है भगवान्।

यही कारण है भगवान् के मन्दिर अवश्ये बने किन्तु भगवान् की मूर्ति किसी

मन्दिर में कहीं नहीं है, हो भी नहीं सकती। जो विना पैरों के चलता है, अलौकिक है, जिसने जाना उसी में समा गया, लौटकर किसी ने कहा नहीं, अनिर्वचनीय है। “कह कवीर गूँगे की शक्कर खाय सोई पै जाने।” गूँगा शक्कर खाता है, सिर हिलाता है, मुस्कराता है किन्तु उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए जितनी भी मूर्तियाँ हैं अधिकांशतः उन महापुरुषों की हैं जो परमात्मा का स्पर्श करके परमात्म भाव को प्राप्त हो गये हैं। मूर्तियाँ कैवल्य-पद प्राप्त परमात्मस्वरूप महापुरुषों की हैं अतः परमात्मा की ही हैं। हमारे वे पूर्वज परमात्म स्वरूप हैं चाहे वे कृष्ण हों, राम हों, नानक या बुद्ध हों अथवा भगवान् महावीर हों या शिव हों! ऐसे ही श्रद्धास्पदों की मूर्तियाँ मन्दिरों में विराज रही हैं। महापुरुष जिस भी रूप में सृष्टि में आ जाता है उस रूप का स्मरण करते ही वह तुरन्त प्रेरणा देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। महापुरुष का वह स्वरूप कभी मरता नहीं। पूज्य महाराज जी कहते थे- हो! मैं कभी मरिहों ना! शरीर तो छूट जायगा तेकिन मैं मरिहों न! सूक्ष्म शरीर से मैं सदैव यहाँ विद्यमान रहूँगा। जो कहीं से मुझे पुकारेगा मैं उसकी मदद करूँगा।

हमने प्रश्न किया कि, महाराज जी! यदि शरीर रखा जाय तो? उन्होंने कहा- हो! वृद्धावस्था में कष्ट होता है, खाँसी-खुरी रहती है। जिस कमी की पूर्ति के लिए शरीर मिला था वह पूर्ण हुआ। भजन का परिणाम निकल आया, स्वरूप मिल गया तब क्यों रखा जाय? वडे-वडे अवतार हुए, क्रष्ण-महर्षि हुए, आज किसी का भी तो शरीर नहीं दिखायी देता। किसी न किसी निमित्त से शरीर तो त्यागना ही होगा। तुम लोग शरीर को देखते भर हो किन्तु यह है नहीं! ठीक पाँचवें दिन महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। अत्रि महाराज भी आज हैं। हर महापुरुष आज भी हैं। श्रद्धा से आप उनका स्मरण करें तो वे आपका मार्गदर्शन करेंगे; किन्तु आप जब भली प्रकार भजन के प्रशस्त पथ पर आ जायेंगे तो वर्तमान में जो महापुरुष इसी स्थिति वाले भगवत्ता को प्राप्त होंगे, वे करुणा करके उन महापुरुष से आपका सम्बन्ध जोड़ देंगे, उनकी गोद में फेंक देंगे। ‘सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय’ सन्देह और भ्रम समूल नाट हो जाते हैं; साधना गति पकड़ लेती है।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि अर्जुन! कामनाओं से जिनकी वुद्धि आक्रान्त है वे मृद्गवुद्धि अविवेकीजन अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। किन्तु मैं सर्वत्र हूँ ल, जहाँ मनुष्य की श्रद्धा पेड़ में, खम्मे में, पौधे में, मूर्ति में या कहीं भी टिक

गयी, उसकी ओट में खड़ा होकर मैं ही उसकी देवश्रद्धा को पुष्ट करता हूँ, फल का विधान करता हूँ। फल तत्काल मिलता है; किन्तु भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है।

जब फल मिलता ही है तो आपत्ति क्या है? किसी की भी पूजा करें? नहीं! श्रीकृष्ण कहते हैं- अर्जुन! देवताओं को पूजने वाले मेरी ही पूजा करते हैं किन्तु वह पूजन अविधिपूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। जब पूजन करना ही है तो विधिपूर्वक क्यों न करें? जब श्रम ही करना है तो उस प्रकार से क्यों न करें कि वह नष्ट न हो, सदा हमारा साथ दे। विधि भी योगेश्वर श्रीकृष्ण ने बताया कि वह विधि है नियत कर्म, गीतोक्त कर्म! एक आत्मा ही परमपूज्य, नित्य, सत्य, सनातन तत्त्व है; भगवान है। उसको पाने की एक नियत विधि है, एक निश्चित विधि है, उसका नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्यरूप देना कर्म है। मनुष्य शरीर मिला है तो आपका दायित्व उतना ही है इसलिए यही 'कार्यम् कर्म' है। वह कर्म केवल मेरे निमित्त है, मेरी प्राप्ति का उपाय है इसलिए वही 'मदर्थं कर्म' कहलाता है। कामनाओं से रहित होकर मेरा चिन्तन कर! अतः इसे कर्म कहा गया है इसलिए गीता में निर्धारित विधि से पूजन करना चाहिए। इसी चिन्तन-क्रम में जहाँ कहीं उसे तत्त्वदर्शी मिल गये, रास्ता मिल जाता है। वह अपने सही मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। भजन जागृत हो जाता है।

अर्जुन ने प्रश्न किया- भगवन्! उस ज्ञान को मैं कहाँ प्राप्त करूँ? भगवान बोले, "किसी तत्त्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उसे प्राप्त करो। उनसे ज्ञान लेने के पश्चात् तुम्हें फिर कभी सन्देह नहीं होगा कि रास्ता इधर सही या उधर, भजन यह सही या वह? कभी सन्देह नहीं होगा और तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे जिसके पश्चात् कुछ भी पाना शेष नहीं रहता।"

क्यों? स्वयं भगवान ही सामने खड़े थे! किसी तत्त्वदर्शी के समक्ष भेजने की क्या आवश्यकता थी? भगवान श्रीकृष्ण के ही शब्दों में वह भी एक तत्त्वदर्शी हैं, पुरुषोत्तम हैं, योगेश्वर हैं। जो स्वयं योगी हो तथा दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो उन्हें योगेश्वर कहते हैं। वह योग का ईश्वर, योग का विशेषज्ञ, योग का स्वामी, प्रेरक और संचालक होता है। भगवान श्रीकृष्ण जानते थे कि आज का यह अधिकारी पात्र हमारे समक्ष है, भविष्य की पीढ़ी को सन्देह

मन्दिर में कहीं नहीं है, हो भी नहीं सकती। जो बिना पैरों के चलता है, अलौकिक है, जिसने जाना उसी में समा गया, लौटकर किसी ने कहा नहीं, अनिर्वचनीय है। “कह कबीर गँगे की शक्कर खाय सोई पै जाने।” गँगा शक्कर खाता है, सिर हिलाता है, मुस्कराता है किन्तु उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए जितनी भी मूर्तियाँ हैं अधिकांशतः उन महापुरुषों की हैं जो परमात्मा का स्पर्श करके परमात्म भाव को प्राप्त हो गये हैं। मूर्तियाँ कैवल्य-पद प्राप्त परमात्मस्वरूप महापुरुषों की हैं अतः परमात्मा की ही हैं। हमारे वे पूर्वज परमात्म स्वरूप हैं चाहे वे कृष्ण हों, राम हों, नानक या बुद्ध हों अथवा भगवान् महावीर हों या शिव हों! ऐसे ही श्रद्धास्पदों की मूर्तियाँ मन्दिरों में विराज रही हैं। महापुरुष जिस भी रूप में सृष्टि में आ जाता है उस रूप का स्मरण करते ही वह तुरन्त प्रेरणा देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। महापुरुष का वह स्वरूप कभी मरता नहीं। पूज्य महाराज जी कहते थे— हो! मैं कभी मरिहौं ना! शरीर तो छूट जायगा लेकिन मैं मरिहौं न! सूक्ष्म शरीर से मैं सदैव यहाँ विद्यमान रहूँगा। जो कहीं से मुझे पुकारेगा मैं उसकी मदद करूँगा।

हमने प्रश्न किया कि, महाराज जी! यदि शरीर रखा जाय तो? उन्होंने कहा— हो! वृद्धावस्था में कष्ट होता है, खाँसी-खुरी रहती है। जिस कमी की पूर्ति के लिए शरीर मिला था वह पूर्ण हुआ। भजन का परिणाम निकल आया, स्वरूप मिल गया तब क्यों रखा जाय? बड़े-बड़े अवतार हुए, ऋषि-महर्षि हुए, आज किसी का भी तो शरीर नहीं दिखायी देता। किसी न किसी निमित्त से शरीर तो त्यागना ही होगा। तुम लोग शरीर को देखते भर हो किन्तु यह है नहीं! ठीक पाँचवें दिन महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। अत्रि महाराज भी आज हैं। हर महापुरुष आज भी हैं। श्रद्धा से आप उनका स्मरण करें तो वे आपका मार्गदर्शन करेंगे; किन्तु आप जब भली प्रकार भजन के प्रशस्त पथ पर आ जायेंगे तो वर्तमान में जो महापुरुष इसी स्थिति वाले भगवत्ता को प्राप्त होंगे, वे करुणा करके उन महापुरुष से आपका सम्बन्ध जोड़ देंगे, उनकी गोद में फेंक देंगे। ‘सद्गुरु मिले जाहि जिभि संशय भ्रम समुदाय’ सन्देह और भ्रम समूल नष्ट हो जाते हैं; साधना गति पकड़ लेती है।

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि अर्जुन! कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रान्त है वे मूढ़बुद्धि अविवेकीजन अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। किन्तु मैं सर्वत्र हूँ न्सलिए जहाँ मनुष्य की श्रद्धा पेड़ में, खम्भे में, पौधे में, मूर्ति में या कहीं भी टिक

गयी, उसकी ओट में खड़ा होकर मैं ही उसकी देवशब्दा को पुष्ट करता हूँ, फल का विधान करता हूँ। फल तत्काल मिलता है; किन्तु भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है।

जब फल मिलता ही है तो आपत्ति क्या है? किसी की भी पूजा करें? नहीं! श्रीकृष्ण कहते हैं- अर्जुन! देवताओं को पूजने वाले मेरी ही पूजा करते हैं किन्तु वह पूजन अविधिपूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। जब पूजन करना ही है तो विधिपूर्वक क्यों न करें? जब श्रम ही करना है तो उस प्रकार से क्यों न करें कि वह नष्ट न हो, सदा हमारा साथ दे। विधि भी योगेश्वर श्रीकृष्ण ने बताया कि वह विधि है नियत कर्म, गीतोक्त कर्म! एक आत्मा ही परमपूज्य, नित्य, सत्य, सनातन तत्त्व है; भगवान् है। उसको पाने की एक नियत विधि है, एक निश्चित विधि है, उसका नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्यरूप देना कर्म है। मनुष्य शरीर मिला है तो आपका दायित्व उतना ही है इसलिए यही 'कार्यम् कर्म' है। वह कर्म केवल मेरे निमित्त है, मेरी प्राप्ति का उपाय है इसलिए वही 'मदर्थ कर्म' कहलाता है। कामनाओं से रहित होकर मेरा चिन्तन कर! अतः इसे कर्म कहा गया है इसलिए गीता में निर्धारित विधि से पूजन करना चाहिए। इसी चिन्तन-क्रम में जहाँ कहीं उसे तत्त्वदर्शी मिल गये, रास्ता मिल जाता है। वह अपने सही मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। भजन जागृत हो जाता है।

अर्जुन ने प्रश्न किया- भगवन्! उस ज्ञान को मैं कहाँ प्राप्त करूँ? भगवान बोले, "किसी तत्त्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उसे प्राप्त करो। उनसे ज्ञान लेने के पश्चात् तुम्हें फिर कभी सन्देह नहीं होगा कि रास्ता इधर सही या उधर, भजन यह सही या वह? कभी सन्देह नहीं होगा और तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे जिसके पश्चात् कुछ भी पाना शेष नहीं रहता।"

क्यों? स्वयं भगवान ही सामने खड़े थे! किसी तत्त्वदर्शी के समक्ष भेजने की क्या आवश्यकता थी? भगवान श्रीकृष्ण के ही शब्दों में वह भी एक तत्त्वदर्शी हैं, पुरुषोत्तम हैं, योगेश्वर हैं। जो स्वयं योगी हो तथा दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो उन्हें योगेश्वर कहते हैं। वह योग का ईश्वर, योग का विशेषज्ञ, योग का स्वामी, प्रेरक और संचालक होता है। भगवान श्रीकृष्ण जानते थे कि आज का यह अधिकारी पात्र हमारे समक्ष है, भविष्य की पीढ़ी को सन्देह

न हो जाय कि भगवान तो गये अब भजन किसका करें? पूछें किससे? इसलिए उन महापुरुष ने साधक को तत्त्वदर्शी महापुरुष की शरण भेजा।

अस्तु, मूर्तिपूजा जैसी छोटी-छोटी पूजाओं से होता हुआ साधक जब उन्नत अवस्थाओं, कक्षाओं में पहुँचता है तत्त्वदर्शी महापुरुष का सान्निध्य मिल जाता है। उनसे साधना मिलने पर वही साधक शान्त एकान्त वातावरण में जहाँ पूजा करनी चाहिए वहाँ पूजा करने लगता है।

आरंभ में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को नहीं बताया किन्तु अठारहवें अध्याय में पहुँचते-पहुँचते अर्जुन ने प्रश्न करना बन्द कर दिया, उसकी शंकाओं का शमन हो गया। जो वह नहीं पूछ सका था, भगवान ने स्वयं बता दिया। अन्त में पात्रता देख भगवान ने स्वयं बताया कि ईश्वर रहता कहाँ है? “ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशोऽर्जुन तिष्ठति” (गीता १८/६१) वह ईश्वर सब प्राणियों के हृदय-देश में निवास करता है। इतना समीप हृदय के अन्दर, फिर लोग जानते क्यों नहीं? भगवान ने बताया— अर्जुन! मायारूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भ्रमवश इधर-उधर भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। उसे जानने के लिए शरण किसकी जायें? अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं— तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् ॥ (१८/६२) उस हृदयस्थित ईश्वर की शरण जाओ, सम्पूर्ण भावों से जाओ। आधा भाव पशुपतिनाथ में, कुछ भाव वैष्णो देवी में, कुछ कामाख्या देवी और मैहर देवी में इस प्रकार आपके भाव तो बिखर गये। हर जगह आपका भाव ही तो घसीटकर आपको ले जाता है। इस प्रकार भगवान नहीं मिलेंगे। उन्हें पाने के लिए सम्पूर्ण भावों से, पूरे मनोयोग से, अनन्य भाव से हृदयस्थित ईश्वर की शरण जाओ।

मान लें, हमने सारी मान्यताएँ तोड़ी, एक ईश्वर की शरण चले ही गये तो लाभ क्या है? इस पर भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि उसकी कृपाप्रसाद से तुम परम शान्ति प्राप्त कर लोगे, उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है। इसलिए जहाँ सद्गुरुओं से विद्या मिल गयी, वह पूजा वहाँ करता है जहाँ करनी चाहिए। वह हृदय में पूजन करता है, ‘विन पद चलइ सुनइ विन काना।’ ‘जाहि धरहिं भुनि ध्यान’ उसका ध्यान करने लग जाता है। आरंभ में हर कोई मूर्तिपूजक होता ही है। जहाँ उस कक्षा को उत्तीर्ण कर वह उन्नत श्रेणी में प्रवेश पाता है तो पिछली कक्षाओं में पुनः नहीं बैठता। अतः मन्दिर में जाना शुभ है, कल्याणकारी है किन्तु जीवनपर्यन्त जाना, उन्नत कक्षाओं के लिए सोचना इतने से भजन की पूर्ति मान लेना यह नासमझी उस पथिक की अवस्था है। मूर्तिपूजा

एक पड़ाव है, प्रांथमिक कक्षा है इसलिए एक सीमा तक वैध है। इससे आगे बढ़ने पर यह सब कुछ छूट जाता है। वह वहीं पूजन करने लगता है जहाँ पूर्व मनीषियों ने की ।

मनुष्य मात्र के लिए यही व्यवस्था लागू होती है। कोई दार्शनिक हो या बड़ा वैज्ञानिक हो, ज्ञाता हो किन्तु इस आध्यात्मिक परिवेश में वह पाँच साल का अबोध बालक प्राइमरी का छात्र ही होता है; क्योंकि उसकी खोजें भौतिक पदार्थों तक ही सीमित हैं, सत्य पर नहीं। पृथ्वी के बीच एक-एक कण एवं सम्पूर्ण शोध कर लिया हो किन्तु संसार का ही चक्कर लगाया, मनुष्य के एक पार्थिव जीविका तक सीमित है, किन्तु आत्मिक सत्यपथ की नहीं। ईश्वर कभी एक से दो हुआ ही नहीं। यदि है तो यह धोखा है। इसलिए एक परमात्मा में श्रद्धा रखकर जो उनका परिचायक हो, छोटा दो-ढाई अक्षर ॐ, राम अथवा कोई नाम जो उस परमात्मा का बोध कराता हो उसका चिन्तन व वर्तमान में उपस्थित सन्त महापुरुष का शरण, सान्निध्य एवं सत्संग करें, सब मार्ग सुलभ-प्रशस्त होता चला जायेगा।

॥ ॐ श्री सद्गुरु भगवान की जय ॥

साधना की अवधि में भयंकर विघ्न आ सकते हैं लेकिन साधक को चाहिए कि अपनी टेक पर अडिग रहे। प्रण का सच्चा उत्साही ही इस पर चल पाता है। प्रण पर अडिग रहकर साधनारत रहने से विपत्ति भी सम्पत्ति बन जाती है, जैसा अर्जुन या महर्षि काक के जीवन में दृष्टिगोचर होता है। अर्जुन ने उर्वशी को मातृवत् ही देखा, भले ही उसे एक वर्ष के लिए नपुंसक बनना पड़ा। वह शाप भी अज्ञातवास की अवधि में सहायक सिद्ध हुआ, अर्जुन के लिए वही वरदान हो गया। काकभुसुण्ड की दृढ़ता के लिए मिलनेवाले शाप के पीछे वरदानों का ताँता लग गया। अतः साधक को अपने धर्म पर प्राणपण से स्थिर रहना चाहिए।

—पूज्य श्री परमहंस महाराज जी की वाणी  
“जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति” से उद्धृत

## ध्यान?

ध्यान साधना का परिणाम है न कि आरम्भ।

आरम्भ में तो इन्द्रियाँ संयमित और विषय-रस से शून्य किसी प्रकार हों? थास की गति, मन का वेग स्थिर कैसे हो? इस पर विचार करना है। इसका विचार करके साधन में तग जाना ईश्वरीय प्रेम का उत्स (उद्गम) है।

प्रेम सतत् अभ्यास और शब्दा से होता है। इसके पश्चात् ही ध्येन का स्तर आता है।

-स्वामी अड्डगड़ानन्द

ब्रह्मलीन स्वामी श्री ओमप्रकाशानन्द जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कछवा, मिर्जापुर की विशाल जनसभा में दिनांक १.१२.२०००, शुक्रवार को पूज्य महाराज जी द्वारा ध्यान-सम्बन्धी जिज्ञासाओं का निराकरण।

## ध्यान?

बन्धुओ!

आप सब की श्रद्धा के प्रतीक इस समारोह में दूर-दूर से पधारे हुए सन्त-महात्माओं सहित विशाल जनसमूह की उपस्थिति स्वामी ओमप्रकाशानन्द जी की अगाध लोकप्रियता के अनुरूप ही है, जिससे हम सभी आनन्दित हैं। महात्माओं की ओर से ध्यान-सम्बधी प्रश्न आये हैं। उनमें से कुछेक ने जगह-जगह ध्यान-शिविरों में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है किन्तु उन्हें शान्ति नहीं मिल रही है। उनका आग्रह है कि हम भी ऐसे शिविरों का आयोजन करें। एक ने पूछा है- ध्यान किसका करें? समाज में ध्यान को लेकर अनेक उलझने हैं। गुरुदेव भगवान की पावन कृपा के आलोक में आइए आज इन्हीं प्रश्नों को सुलझाने का निमित्त बनें।

भारत और विदेशों में ध्यान-शिविर लगाये जाते हैं, जिनमें प्रत्येक के तरीके भिन्न हैं। कठिपय मनीषियों ने ध्यान से पूर्व हठयोग के नाम से प्रचलित नेति, धौति, वस्ति, नौलि, ब्राटक और कपालभाति के पट्टकर्मों के सम्पादन पर बल दिया है। अन्य मनीषी ध्यान के लिए बताते हैं कि पहले लेटकर पाँव का अङ्गूठा देखो, बड़ी उँगली देखो, अब छोटी उँगली देखो। भावना करते रहो कि वे संकल्पहीन होते जा रहे हैं। इस प्रकार शरीर के अंगों को शिथिल करते शिर तक चले जाओ और अचेत हो जाओ- यही ध्यान है। तंत्र आख्यायिकाओं में ध्यान के लिए मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध या खेचरी इत्यादि मुद्राओं को सहायक बताया गया है। कोई मनीषी किसी पुष्प पर ध्यान केन्द्रित कराते हैं तो कोई ‘ऐं’ ‘क्लीं’ जैसे किसी अक्षर या नाद को माध्यम बनाते हैं। एक विश्वविश्रुत आचार्य भस्त्रिका प्राणायाम जैसी विधा का निर्देश करते हैं कि लुहार की भाथी की तरह तीव्र श्वास लो और छोड़ते जाओ। थककर शान्त होते ही आप में ध्यान घटित होने लगेगा। ‘योग’ सिखाने वाले अनेक आचार्य मंत्रों की कमेन्ट्री बोलते हैं, जिसे सुनकर साधक अचेत होने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार कोई गायत्री इत्यादि देवी-देवताओं के रूप का ध्यान कराते हैं तो कोई शरीर के स्पन्दनों में ध्यान लगाते हैं। हमें देखना है, ध्यान के विषय में हमारे आर्ष-ग्रन्थों में क्या निर्देश हैं?

रामचरित मानस के अनुसार ध्यान साधना का आरंभ नहीं है, ध्यान साधना का परिणाम है। अरण्यकाण्ड का प्रसंग है। महर्षि अगस्त्य अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष थे। उन्हीं के दिये हुए बाण से दशानन मारा जा सका था। उन महर्षि के सहस्रों शिष्य थे। उनमें से एक सुतीक्ष्ण जी थे। वे बड़े भोले-भाले थे। उनकी सरलता से प्रभावित हो गुरुदेव ने उन्हें एक सरल-सी सेवा दे दी- तुम पूजा की चौकी साफ किया करो, शालिग्राम जी को नहलाया करो। आश्रम के समीप कावेरी नदी थी। किनारे पर जामुन के वृक्ष थे। उसी शालिग्राम जी से वे जामुन तोड़ते। क्रमशः जामुन ऊपरी शाखाओं में बचे तो खींच-खींच कर मारने लगे।

एक दिन शालिग्राम जी नदी में चले गये। सुतीक्ष्ण ने बहुत डुबकियाँ लगाई किन्तु वह नहीं मिले। उन्होंने एक गोल-मटोल सी जामुन चौकी पर रख दी। गुरुदेव ने चन्दन लगाना चाहा तो उँगली जामुन में धूँस गयी। सुतीक्ष्ण को बुलाया, पूछा— यह क्या है? उन्होंने कहा, ‘गुरुदेव! शालिग्राम।’ गुरुदेव ने पूछा, “यह इतना कोमल कैसे हो गया?” वे बोले— ‘पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी। सालिक सड़ गये हम का जानी?’ महर्षि ने कहा- “वाह रे ब्रह्मज्ञानी! अब जाओ असली भगवान को लेकर ही आना अन्यथा दिखायी न पड़ना।” जो आश्रम था वह भी छूटा।

आश्रम में रहते-रहते सुतीक्ष्ण जी को साधन-क्रम तो ज्ञात ही था। वे जंगल में एक कुटी बनाकर रहने लगे।

ऋषि अगस्ति कर शिष्य सुजाना। नाम सुतीछन रति भगवाना॥

मन क्रम वचन राम पद सेवक। सपनेहुँ आन भरोस न देवक॥

वे मन-क्रम-वचन से राम के चरणों के सेवक थे। स्वप्न में भी दूसरे देवता का भरोसा उन्हें नहीं था। वे चिन्तन में लग गये। एक दिन सुतीक्ष्ण को पता चला कि प्रभु कहीं समीप आ गये हैं। वे अपने भाग्य को कोसने लगे-

हे विधि दीनवन्धु रघुराया। मोसे शठ पर करिहहिं दाया॥

मेरे ऐसे धूर्त पर भी क्या वे दया करेंगे? कमी क्या थी उनमें? ‘मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहीं। भगति विरति न ज्ञान भन माहीं।।’ मेरे हृदय में दृढ़ भरोसा नहीं है, भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है। कोई भी गुण तो नहीं है, जिससे प्रभु अनुकम्पा करेंगे? ‘नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृढ़ चरन कमल अनुरागा।।’ जप भी सन्तोषजनक नहीं है। योग-साधना भी नहीं हो रही है। चरणों में अचल

अनुराग भी तो नहीं है। प्रभु का एक गुण स्मरण आया- ‘एक वानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की ॥’ प्रभु की एक विरुद्ध है कि जिसे अन्य किसी का भरोसा न हो, प्रभु उस पर अवश्य कृपा करते हैं। इतना विचार आते ही मन में निश्चय हुआ- होइहें सुफल आज मम लोचन। देखि वदन पंकज भव मोचन ॥। भाव सुदृढ़ होते ही सुतीक्ष्ण प्रेम-विद्वल हो गये। जहाँ स्वरूप हृदय में आया, वे अचल स्थिर होकर बैठ गये- ‘मुनि मग माँझ अचल होई वैसा। पुलक शरीर पनस फल जैसा ॥।’ वे बीच रास्ते में अचल, स्थिर बैठ गये।

क्या कोई पगड़ंडी थी कि सुतीक्ष्ण जी उसके बीचोबीच बैठ गये? नहीं, मृष्टि में दो ही मार्ग हैं- प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग कहीं पहुँचाता नहीं बल्कि संसार के आवागमन चक्र में अनन्त काल तक भटकने का पर्याय है। निवृत्ति मार्ग भक्ति मार्ग है जो भगवान का स्पर्श करा शान्त हो जाता है। आगे कोई सत्ता ही नहीं तो ढूँढ़ेगा किसे? चलकर जायेगा कहाँ? इसलिए भक्तिमार्ग में जप-तप, नियम-संयम का अभ्यास करते-करते जहाँ प्रेम का अविरल प्रवाह हुआ, भगवान तुरन्त हृदय में प्रकट हो जाते हैं- ‘अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा। प्रकटे हृदय हरन भव भीरा ॥।’

भगवान समीप आ गये। ‘मुनिहि राम वहुं भाँति जगावा। जाग न ध्यान जनित सुख पावा ॥।’ विविध तरीकों से भगवान ने उन्हें जगाने का उपक्रम किया किन्तु मुनि ध्यान में तल्लीन थे, नहीं जगे। भगवान ने एक उपाय किया। ध्यान का स्वरूप परिवर्तित हो गया। मुनि विकल होकर उठ खड़े हुए। हृदय में जो स्वरूप था वही बाहर दृष्टिगोचर हुआ। मुनि चरणों में गिर पड़े। प्रभु राम ने कहा, “ऋषिवर! आपके गुरु जी का दर्शन करना है। आपके साथ चलना चाहता हूँ।” सुतीक्ष्ण जी ने कहा- “प्रभु! आपको किसी का दर्शन नहीं करना है। आप तो मेरे गुरु की आज्ञा की पूर्ति कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था कि असली भगवान लेकर आना, आप वही पूरा कर रहे हैं।”

वस्तुतः ‘हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होहिं मैं जाना ॥।’ भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं किन्तु प्रेम से ही प्रकट होते हैं। इसी प्रकार सुतीक्ष्ण जी भजन तब भी करते थे जब गुरुदेव के आश्रम में थे। आरंभ में वे सेवारत थे, भजन विधि प्राप्त किया। शनैः-शनैः अभ्यास का उत्थान होते-होते भजन-कुटीर के एकान्त में भजन करने लगे। दिशि और विदिश का भान नहीं रह। ‘कवहुँक नृत्य करइ गुन गाई।’ चलते-फिरते, उठते-वैठते एक धुन सवार

हो गई। भगवान् त्रे प्रीति का अविरल प्रवाह देखा, ध्यान की स्थिति आई, भगवान् हृदय में प्रकट हो गये। हृदय में ध्यान स्थायित्व ले लेता है तो 'सियराम मय सब जग जानी।' 'जहँ तहँ देख धरे धनु बाना।' ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। अस्तु, ध्यान परिणाम है। शिविर लगाने से ध्यान कभी नहीं आयेगा। ध्यान के लिए भजन कैसे करें? किसका करें? उसकी विधि जानना चाहिए। शनै:-शनै: हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिवृद्धि करें, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करें। प्रेम का अविरल प्रवाह जिस क्षण होगा, तत्क्षण भगवान् प्रकट हो जायेगे। ध्यान की स्थिति आ जायेगी। ध्यान तो परिणाम है न कि साधन का आरंभ। आरंभ तो है कि इन्द्रियों का संयम कैसे करें? मन का शमन कैसे करें? इष्ट कौन है? इसका निश्चय करके साधना में लग जाना ईश्वरीय प्रेम का उत्स (उद्गम) है। प्रेम कहने से नहीं होता। यह तो सतत् अभ्यास और श्रद्धा से हो जाता है। इसके पश्चात् ही ध्यान का स्तर आता है।

मानस के ही एक अन्य प्रसंग पर दृष्टिपात् करें। किञ्चिन्धाकाण्ड के वालि-उद्धार प्रकरण में है— 'जिति पवन मन गो निरसि मुनि ध्यान कवहुँक पावहीं।' पहले श्वास-प्रश्वास का यजन करते हुए पवन को जीतते हैं, श्वास में उठने वाले संकल्प-विकल्प के उद्भेद को, वायुमण्डल को जीतते हैं। मन और इन्द्रियों को भली प्रकार विषयरूपी रस से निरस करने के उपरान्त ही मुनिजन सतत् अभ्यास के फलस्वरूप कभी उन प्रभु का ध्यान पाते हैं— 'ध्यान कवहुँक पावहीं।' यह परिणाम है न कि आरंभ! पहले इन्द्रियाँ संयमित, विषय रस से शून्य किस प्रकार हों, श्वास की गति, मन का वेग स्थिर कैसे हो?— इस विधि पर विचार करना है। इस विधि के बिना केवल ध्यान शिविर लगाने से कुछ नहीं होगा।

### 'पातञ्जल योगदर्शन' में ध्यान

योगदर्शनकार महर्षि पतञ्जलि एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उन महापुरुष ने योग की परिभाषा दी- 'अथ योगानुशासनम्।' योग एक अनुशासन है। अनुशासन किस पर करें? अगले ही सूत्र में वे बताते हैं- 'योगश्चित्तवृत्ति निरोधः।' चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम योग है। चित्तवृत्तियाँ अनन्त हैं, उनमें वेग है। मन वायु से भी तेज चलने वाला है। इन वृत्तियों का निरोध योग है। हमें अपनी वृत्तियों को अनुशासन में रखना है। मान लें, हमने-आपने परिश्रमपूर्वक चित्तवृत्तियों का निरोध कर ही लिया, उससे लाभ? महर्षि कहते हैं- 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्।' उस समय द्रष्टा यह आत्मा अपने ही संहज रूप परमात्मा में

स्थित हो जाता है। तो क्या स्वरूप में स्थित होने से पूर्व आत्मा मलिन था? महर्षि ने बताया- ‘वृत्ति सारूप्यमितरत्र’ दूसरे समय में जैसा वृत्तियों का प्रवाह है वैसा ही वह आत्मा है। जैसी वृत्ति वैसा ही आपके लिए यह आत्मा है।

वृत्तियाँ क्या हैं? सूत्रकार उनका स्वरूप बताते हैं- ‘वृत्तयः पञ्चतथ्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः’ (१/५) चित्तवृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं और हर वृत्ति के दो भेद हैं। वे कभी क्लेशों को देने वाली होती हैं, आवागमन के प्रवाह में भटकाने वाली होती हैं तो कभी यही वृत्तियाँ क्लेशों से मुक्ति प्रदान करने वाली भी होती हैं। वृत्तियाँ तो अनन्त हैं किन्तु वे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति रूप से पाँच प्रकार की होती हैं।

प्रश्न उठता है, उन वृत्तियों का निरोध कैसे हो? यह अनुशासित कैसे हों? ‘अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः’- अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्तियों का भली प्रकार निरोध हो जाता है। वैराग्य क्या है? अगले सूत्र में कहते हैं कि देखी और सुनी वस्तुओं में राग का त्याग, लगाव का त्याग वैराग्य है और परम का दर्शन करके साधना का भी अन्त परम वैराग्य है। अभ्यास क्या है? प्रयत्न कैसे करें? चित्त को किसमें लगाएँ? ‘क्लेश कर्म विपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः।’ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के रूप में पाँच क्लेश जीव के दुःख के कारण हैं। भले-बुरे कर्मों के विप्राक अर्थात् परिणाम और उनके समुदाय या संग्रह के सम्बन्ध से जो रहित है वह विशेष पुरुष ईश्वर है। पहले कभी इनका सम्बन्ध पुरुष से था, अब नहीं है। यदि कभी सम्बन्ध ही नहीं था तो ईश्वर के साथ इन स्थितियों से अपरामृष्टा की संकल्पना ही क्यों की जाती? वह विशेष पुरुष ईश्वर है। काल उस ईश्वर को घटा-बढ़ा नहीं सकता। वहाँ काल की भी पहुँच नहीं! वह गुरुओं का भी गुरु है अर्थात् सद्गुरु है क्योंकि वह परम सत्य से समाविष्ट है। ‘तस्य वाचक प्रणवः’ उसका वाचक नाम- उँकार है। उसके नाम ओम् का जप करो और उसके अर्थस्वरूप उसी का ध्यान धरो। इसके प्रभाव से अन्तराय अर्थात् विज्ञों का पार पा लोगे। यहाँ सूत्रकार ने स्पष्ट कर दिया कि ध्यान जिस किसी का नहीं करना है, ध्यान एकमात्र परमात्मा का ही करना है और उसी का नाम जपना है।

योगदर्शन के दूसरे अध्याय ‘साधनपाद’ में महर्षि ने बताया कि योग का आरम्भ कहाँ से होता है? ‘तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः’-तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति क्रिया योग है। इस योग के आठ अंग हैं-

‘यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टावर्गानि ॥’ इनमें से यम पाँच हैं- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति पाँच नियम हैं। शौच अर्थात् अन्तःकरण की शुद्धि, संतोष अर्थात् जो सम है, तप का आशय है मनसहित इन्द्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाना, स्वाध्याय अर्थात् स्वयं का अध्ययन कि भजन में मन कितना लग रहा है तथा उन परम प्रभु के प्रति समर्पण। इनमें से तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीन क्रियायोग हैं। जहाँ ये तीन क्रियायें आरंभ हुईं, भजन आरंभ हो गया (योग की शुरुआत हो गई), क्रमशः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह सधेंगे। तदनन्तर शौच और सन्तोष आएँगे।

यम, नियम के पश्चात् योग का तीसरा अंग है आसन! ‘स्थिर सुखमासन ।’ स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। एक सेठ प्रातः से सायंपर्यन्त गद्दी पर बैठा रहता है, क्या इसी का नाम आसन है? नहीं! इस आसन की सिद्धि कब होती है? महर्षि बताते हैं- ‘प्रयत्न शैथिल्यानन्त समापत्तिभ्याम्’ यम और नियमों का जो प्रयत्न चल रहा था, उसमें शिथिलता आ जाय तथा अनन्त परमात्मा में भली प्रकार मन लगाने से यह आसन सिद्ध होता है। बाहर बैठने का नाम ही आसन होता तो अनन्त में मन लगाने की क्या आवश्यकता थी। योग-साधना के प्रयत्न के शैथिल्य का क्या औचित्य था? वास्तव में आसन का अर्थ है शरीर का सुख से बैठना नहीं अपितु मन जो भाग रहा है उसका स्थिर होना है। अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्यादि के लिए जो प्रयत्न चल रहा था, प्रयत्न न करना पड़े और मन लग जाय, प्रयत्न शिथिल हो जाय, आयास न करना पड़े और अनन्त उस परमात्मा में मन लग जाने से आसन सध जाता है।

आसन के सधते ही- ‘तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ।’ आसन की सिद्धि के साथ ही श्वास-प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। न वाट्य वायुमण्डल के संकल्प मन के भीतर प्रवेश कर पाते हों, न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो, कोई उद्वेग न पैदा हो इसका नाम प्राणायाम है। अब प्राणों के क्रिया-कलाप पर विराम लग गया। (एक आयाम में प्राण प्रवाहित हो गये) इस प्रकार प्राणायाम भी कोई साधना नहीं है। अभ्यास किया गया तप-स्वाध्याय-ईश्वर प्रणिधान का, साधन किया जाता है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का। इसमें सहजता ढलते ही आसन-सिद्धि और आसन सधते ही प्राणायाम- प्राण के व्यापार पर विराम लग गया। यह स्थिति परिणामजन्य है।

यह यम-नियमों के परिपालन का प्रतिफलन है। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए चार स्तरों से गुजरना पड़ता है- 'बाह्याभ्यन्तर स्तम्भवृत्तिः देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः' बाह्य वृत्ति, अभ्यन्तरवृत्ति तथा स्तम्भ वृत्ति है जिसको देशकाल और संख्या द्वारा जाँचते हुए चलने से प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होते-होते स्थायित्व ले लेता है। बाह्य वृत्ति अर्थात् राग-द्वेष, अनन्त इच्छा, वासना से आप्लावित षड्विकारों वाली वृत्ति संसार में भटकाने वाली वृत्ति है। दूसरी ओर विवेक, वैराग्य, तप, स्वाध्याय, ईश्वर के चिन्तन से भरी हुई वृत्ति अभ्यन्तर वृत्ति है। अब बाह्य वृत्ति में चित्त किस देश में (लोभ के देश में, मोह के देश में या काम के देश में), कहाँ विचरण कर रहा है, कितने काल तक ऐसा चिन्तन करता रहा, संख्या द्वारा उसकी जाँच करना चाहिए (घड़ी का आविष्कार समय-ज्ञान के लिए नहीं हुआ था)।

बाह्य वृत्ति में विचरण करने वाला यह मन कभी-कभी अपने संयम-नियम का विश्लेषण करने लंग जाता है। कभी वैराग्य के देश में, कभी ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में तो कभी स्वाध्याय में अर्थात् अभ्यन्तर वृत्ति में चला जाता है किन्तु यह भी है तो चित्त में तरंग ही। संख्या के द्वारा उस पर दृष्टि रखें कि वहाँ कितने समय तक रुका और पुनः वहाँ से हटाकर उसे स्तम्भवृत्ति में लगायें, उसकी गति को कम करें। इसे दीर्घ से सूक्ष्म की ओर ले आयें, स्तम्भवृत्ति में लगा दें।

पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहा करते थे, "हो! विचारों से मन के पीछे पहरा लगाये रहो तभी भजन होगा। सचेतावस्था में रहोगे तभी भजन होगा।" क्रमशः भली प्रकार देखा जाता हुआ यह प्राण दीर्घ, सूक्ष्म और स्थिर हो जाता है। उस समय प्राणायाम की सहज स्थिति आ जाती है। 'बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः' उस समय बाहर और भीतर के विषयों का त्याग हो जाने, अपने आप होने वाला प्राणायाम का यह चतुर्थ स्तर है। यह नहीं कि श्वास को भीतर ले जाओ, घड़े की तरह पेट फुलाओ फिर लुहार की भाथी की तरह बाहर फेंक दो, बाहर ही रोक दो- यह तो प्राणायाम का विकृत रूप है, भ्रामक है जो वास्तविकता का अलाप कर प्रचलन में आ गई है। श्वास ने आपका क्या बिगाड़ा है, यह तो शरीर की जीवनीशक्ति है। श्वास बन्द हों जाय तो हम आप कोई नहीं बचेगा। अविद्या, अस्मिता इत्यादि पंच क्लेशों का उतार-चढ़ाव शरीर पर नहीं, वृत्ति पर है। उन वृत्तियों का निरोध करना है, संकल्पों का निरोध करना है न कि श्वास का। श्वास में उठने वाले संकल्प-विकल्पों के रुकते ही 'ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्'

-प्राणायाम के सम्पन्न होते ही प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। आत्मा और आपके बीच में जो परदा पड़ा है संस्कारों का आवरण क्षीण होने लगता है। 'धारणासु च योग्यता मनसः ।' मन में धारणा की योग्यता आ जाती है।

'विभूतिपाद' के प्रथम सूत्र में ही महर्षि धारणा का स्वरूप बताते हैं- 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा'-किसी देश में चित्त को बाँधना धारणा है। महर्षि धारणा के लिए दो देश पहले ही बता चुके हैं-ओम् का जप और उसके अर्थस्वरूप ईश्वर का ध्यान! आरंभ में प्रयास करने पर भी स्वरूप पकड़ में नहीं आता। ओम् जपते-जपते थोड़ी ही देर में मन पता नहीं क्या जपने लग जाता है; किन्तु प्राणायाम के सध्ते ही मन में धारणा की क्षमता आ जाती है, स्वरूप पकड़ में आ जाता है। 'तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम्' जहाँ चित्त को लगाया गया है-उसी देश में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। ध्यान इतनी साधनाओं का परिणाम है, ध्यान आरंभ नहीं है। ध्यान शिविर इसके लिए उपयोगी है कि इन्द्रियों का संयम कैसे सधे? ध्यान किसका करें? साधन-पद्धति का शिविर तो लगाया जा सकता है, ध्यान का नहीं! ध्यान तो साधना का परिणाम है।

यह ध्यान जब परिपक्व हो जाता है- 'तदेवार्थमात्रं निर्भासम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः ।' जिस लक्ष्य को पकड़ा जाय वह लक्ष्य मात्र शेष रह जाय, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाय, पकड़ने वाला ही खो जाय- इसका नाम समाधि है। 'सम आदि स समाधिः ।' जो आदि-अनादि तत्त्व है परमतत्त्व परमात्मा, उसके साथ 'समत्वं दिलाने वाली अवस्था समाधि है। यहाँ चित्त भी मिट जाता है। 'मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह। जाको कछू ना चाहिए सोई शहंशाह ।' जिस मन पर माया अंकित होती थी वह धरातल ही खो गया, तो माया रहे कहाँ! साथ ही द्रष्टा की स्वरूप में स्थिति! यहीं तो योग का लक्ष्य था।

महर्षि पतंजलि के अनुसार ध्यान सद्गुरु का और जप प्रणव (ओम) का। सद्गुरु वह है जो क्लेश-कर्म-विपाक और उसके आशय से उपराम है, जिसका काल से अवच्छेद नहीं है, अकाल पुरुष की रहनी जिसे प्राप्त है, वह गुरुओं का गुरु है। मानस में है- 'वालक रूप राम कर ध्याना ।' भगवान के वालरूप के ध्यान का विधान है। पूज्य महाराज जी कहते थे कि पाँच वर्ष के वालक और स्थिति प्राप्त महापुरुष की रहनी एक जैसी होती है। महापुरुष का शरीर बड़ा दिखायी देता है किन्तु होते हैं वे वालवत् स्वभाव वाले। गीता, ११/४३ में भगवान श्रीकृष्ण के लिए 'गुरुर्गीरीयान्' सम्बोधन आया है, जिसका आशय है

गुरुओं में श्रेष्ठ। यही महर्षि पतंजलि के ‘पूर्वोपासपि गुरु’ और मानस के ‘तुम त्रिभुवन गुरुदेव बखाना।’ का भी आशय है। यह एक सद्गुरु की स्थिति है।

यदि ऐसे सद्गुरु नहीं मिलते तो दौड़कर किसी को बनायें भी न। सन्तों की सेवा करें, उनके सान्निध्य में रहें, नाम का जप करें, प्रार्थना करें। आत्मा और आपके बीच जन्मात्तरों के संस्कारों के संग्रह का नाम मल है। आत्मा और आपके बीच यही आवरण या विक्षेप पैदा करता है। यह मलावरण-विक्षेप जहाँ धुला, आपकी आत्मा से ही प्रभु रथी होकर बताने लगेंगे- यह करो, यह मत करो। यह भी बता देंगे कि देखो वह सद्गुरु हैं। पूज्य गुरुदेव को भगवान ने ही बताया कि इस मन्दिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। महाराज जी बताया करते थे-हो, उन महापुरुष को हमने पहले भी पचासों बार देखा था। लोग उन्हें देखकर कहते थे- वह देखो पगला जा रहा है। हम भी उन्हें पागल ही समझते थे। भगवान ने ही आकाशवाणी दी कि ये तुम्हारे गुरु महाराज हैं। वे तब समझ में आये जब भगवान ने बता दिया। अस्तु, भजन करना है तो छिपकर करें, पागल होकर करें। दिखावा करने से भजन होता ही नहीं। आज तक सृष्टि में जिन महापुरुषों का कीर्तिमान है वे सब पागल जैसे ही थे। रामकृष्ण परमहंसदेव, जड़भरत, भगवान महावीर, कार्कभुसुण्डि- साधनावस्था में सभी पागल ही प्रतीत होते थे। हमारे गुरुदेव के गुरु महाराज और स्वयं गुरुदेव साधनकाल में पागल ही समझे जाते थे। पूज्य महाराज जी कहा करते थे- हो, हम जहाँ भी जाते लोग समझते यह पागल हैं। बच्चे कंकड़ भी फेंकते किन्तु जब वाणी मिलते तो लोग गुड़-चीटे की तरह लिपट जाते- अरे महाराज, हम तो कुछ और ही समझते थे, आप तो सन्त निकले। वस्तुतः महापुरुष भजन छिपकर करते हैं। कोई अपने उद्योग में लग गया तो उसे लोक-व्यवहार के लिए अवकाश कहाँ? दैनिक समाचार-पत्र पढ़ने वाले कभी-कभी इतने तल्लीन हो जाते हैं कि बगल से कौन निकल गया उन्हें पता ही नहीं चलता; फिर तो जो भजन में ढूब गया उसे क्या पता चलेगा कि बाहर संसार में क्या हो रहा है। भजन एकान्त की वस्तु है। भजन करते समय बगल वाले को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये कब भजन करते हैं? अस्तु, सद्गुरु हैं तो टेढ़ी खीर किन्तु उन्हें प्राप्त करने का सरल-सा उपाय है- साधन समझें और लग जायें। नाम जपते रहें, प्रार्थनारत रहें, श्रद्धा के साथ सत्पुरुषों की सेवा करें फिर भगवान ही बतायेंगे- सन्त विशुद्ध मिलहिं परि तेहीं। रामकृष्ण करि चितवहिं जेहीं।। प्रभु कृपा करके, करुणा करके जिसे एक निगाह देख लें,

विशुद्ध सन्त छप्पर फाड़कर मिल जाते हैं। सद्गुरु जब मिल ही गये तो शेष क्या बचा? 'सद्गुरु मिले जगहि जिमि, संशय थ्रम समुदाइ।' इसके पश्चात् क्रम आता है ध्यान का! ध्यान आरंभिक स्तर कदापि नहीं है। सद्गुरु साधन प्रदान करेंगे तो शनैः-शनैः ध्यान की अवस्था आ जायेगी क्योंकि भजन-साधन लिखने में नहीं आता, यह अनुभवी सद्गुरु के द्वारा साधक के अन्तःकरण में स्फुरित हो जाया करता है।

### गीता में 'ध्यान'

अध्याय ६ में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने बताया कि योगी एकान्त देश का सेवन करते हुए, आशा और संग्रह का त्याग कर चित्त और इन्द्रियों को संयत करने के पश्चात् पवित्र स्थान पर स्थिर आसन से शरीर, शिर और ग्रीवा को एक सीध में रखते हुए मुझमें चित्त लगाये। यहाँ भी ध्यान साधना का आरंभ नहीं है। इससे पूर्व साधक को एकान्त देश का सेवन, मन और इन्द्रियों के संयम का पालन आवश्यक है। ध्यान के आलम्बन के रूप में योगेश्वर ने अपना स्वरूप बताया। जिस किसी भी वक्ति या वस्तु के ध्यान का कोई औचित्य गीता के अनुसार नहीं है।

गीता, अध्याय १८/५१-५५ में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने बताया कि ज्ञान की परानिष्ठा अथवा परम नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधक शब्दादिक विषयों का त्याग, एकान्त देश का सेवन, स्वत्पाहार, शरीर और इन्द्रियों के संयम का पालन, ध्यानयोग परायण होकर मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ भी योगेश्वर श्रीकृष्ण ने ध्यान से पूर्व अनेक पीठिकाओं का निर्देश किया है और ध्यान द्वारा अपनी भक्ति का उल्लेख कर किसी योगश्वर के ध्यान को ही पुष्ट किया है।

जिस किसी का भी ध्यान करने के लिए गीता नहीं कहती। अध्याय ८/६ में है-

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते क़लेवरम् ।  
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥

जो जिसका स्मरण करते हुए शरीर-त्याग करता है वह प्रायः उसी योनि को प्राप्त होता है। जो मेरा चिन्तन करते हुए शरीर-त्याग करता है वह मेरे सहज अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होता है, जहाँ से पुनः लौटकर आवागमन में नहीं आता। इसलिए अर्जुन! तू निरन्तर मेरा चिन्तन कर। अस्तु, योगेश्वर श्रीकृष्ण ने आवागमन से मुक्ति, अविनाशी पद, अमृततत्त्व में स्थिति के लिए अपना ही

ध्यान बताया तथा अन्य किसी का भी ध्यान करें उस-उस योनि की प्राप्ति अपरिहार्य है, निर्विवाद है। अतः भगवान के स्थान पर कुछ भी ध्यान करें, फूल देखें या दीपक, इससे काम नहीं चलेगा। इसी प्रसंग पर योगश्वर पुनः बल देते हुए कहते हैं- अर्जुन! तू निरन्तर मेरा चिन्तन कर और युद्ध कर। अगले ही श्लोक में चिन्तन-विधि उन्होंने स्पष्ट किया कि अर्जुन! वैराग्य में स्थिर रहते हुए, एकान्त देश का सेवन करते हुए अन्तःकरण में योगविधि को धारण करके 'चेतसा नान्यागामिना'-सिवाय मेरे अन्य किसी विषय-वस्तु का स्मरण न करते हुए मेरा निरन्तर चिन्तन कर और युद्ध कर। भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दृश्य दिखायी देता है तो चिन्तन अपूर्ण है। यहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने ध्यान अपना बताया।

नवम अध्याय में अपना परिचय देते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने कहा-

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।  
परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम् ॥

मेरे परमभाव को न जानने के कारण मनुष्य शरीर के आधारवाले मुझ अविनाशी सम्पूर्ण भूतों के महान ईश्वर को मूढ़ लोग तुच्छ मनुष्य कहकर पुकारते हैं। महात्मा और क्या होते हैं? वे भी परम का स्पर्श कर परमभाव में स्थित होते हैं। उन स्थिति वालों का शरीर तो एक मकान मात्र है- साधन-धाम मोच्छ कर द्वारा। किन्तु वे महापुरुष मानव-तन के आधारवाले ही होते हैं।

गीता के अध्याय आठ में वह महापुरुष कहते हैं-

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति

विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥८/११॥

अर्जुन! प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष जिसे प्राप्त होते हैं, जिसे चाहने वाले कठोर ब्रह्मचर्यादि यम नियमों का पालन करते हैं, जो एकमात्र सदा हृदय में धारण करने योग्य है, उस पद को मैं संक्षेप में कहूँगा। वह है क्या?

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध्य च ।

मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥९/१२॥

सम्पूर्ण इन्द्रियों के दरवाजों को संयमित करके, इन्द्रियों का दमन कर योगविधि को हृदय में धारण कर मन को भीतर ही मस्तिष्क में स्थित करके 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' 'ओम्'-जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका जप करते हुए 'मामनुस्मरन्' मेरा स्मरण (ध्यान) करते हुए (अर्थात् मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए) देहाध्यास का त्याग कर जाता है। अभ्यास इतना उन्नत हो जाय कि- - 'त्यजन्देहं'-देह का भान समाप्त हो जाय, विदेहावस्था की स्थिति आ जाय, 'ततो याति परमां गतिम्।' तत्क्षण वह परमगति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने ध्यान अपना, नाम ओम् का और करने का तरीका योगविधि धारण करना, इन्द्रियों को विषयों में भटकने से रोकना बताया।

भगवान इस पर पुनः बल देते हैं-

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥८/१४॥

'अनन्य चेताः'- अर्थात् निरक्तर मेरा स्मरण करता है, 'तस्याहं सुलभं'- उसे मैं सुलभ हूँ। आपके सुलभ होने से लाभ क्या ?

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।

नामुवन्ति महात्मानः संसिद्धं परमां गताः ॥८/१५॥

वह दुःखों की खानि क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। प्रश्न उठता है कि पुनर्जन्म की परिधि में आता कौन है ?

आत्रह्यभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥८/१६॥

स्वयं सृष्टि के रचयिता विधाता और उनसे उत्पन्न जगत् यावन्मात्र जड़-चेतन, स्थावर-जंगम, दिति-अदिति की सन्तानें दानव, देव और मानव पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं। आज हैं, तो कल दूसरा जन्म लेंगे। 'पुनरपि जननम् पुनरपि मरणम्।' इस परिधि में रहने वाले हैं, दुःखों की खानि हैं, क्षणभंगुर हैं किन्तु अर्जुन ! मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यहाँ योगेश्वर के अनुसार अन्यत्र कहीं कोई ध्यान करता है तो वह दुःखों की खानि को आमंत्रित करता है। नष्ट होना है तो नश्वर को पकड़ो, अविनाशी पद पाना है तो योगेश्वर को पकड़ो।

गीता के समापन अध्याय में भगवान ने स्वयं बताया, अर्जुन ! जानते हो भगवान कहाँ रहते हैं ?

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशोऽर्जुन तिष्ठति ।

श्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रास्त्रढानि भायथा ॥१८/६१॥

अर्जुन! वह परमात्मा सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय-देश में वास करता है। इतना समीप है तो लोग देखते क्यों नहीं? मायारूपी यंत्र में आरुढ़ होकर लोग भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। तो करें क्या? योगेश्वर ने बताया-

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् ॥१८/६२॥

अर्जुन! उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सम्पूर्ण भावों से जाओ। यह नहीं कि थोड़ा भाव पशुपतिनाथ, थोड़ा कमच्छा देवी, कुछ अन्यत्र भैरोनाथ, तब तो आप का भाव बिखर गया। इससे कल्याण नहीं होगा। ‘सर्वभावेन’—मन की सम्पूर्ण भावना से लगें।

मान लें सभी मान्यताओं, पूर्वाग्रहों को तोड़कर कोई एक परमात्मा की शरण में चला ही गया तो उससे लाभ क्या है? ‘तत्प्रसादात् परां शान्तिम्’—उसकी कृपा-प्रसाद से तुम परमशान्ति को प्राप्त कर लोगे। इतना ही नहीं ‘स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्’—तुम उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है। यही अमृत तत्त्व अविनाशी पद की प्राप्ति है। किन्तु हृदयस्थित ईश्वर को तो हमने देखा नहीं? उसकी शरण जायें तो कैसे? इस पर भगवान कहते हैं— अर्जुन! इससे भी गोपनीय अति गोपनीय वचन सुन।

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।

मामेवैष्वसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥१८/६८॥

अर्जुन! मुझमें मन को लगाओ, मेरा अनन्य भक्त हो, मुझे नमन कर, सम्पूर्ण भावों से मेरी शरण में आ, मैं सत्य कहता हूँ तू मुझे प्राप्त होगा।

सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥१८/६६॥

सारे धर्मों की चिन्ता छोड़, यह रास्ता ठीक है या वह मार्ग— इस ऊहापोह को छोड़कर तुम मेरी शरण आ जाओ, तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे।

आरम्भ के दो श्लोकों में भगवान ने कहा— ईश्वर हृदय में है, उस हृदयस्थित ईश्वर की शरण जाओ। अगले दो श्लोकों में कहते हैं कि सम्पूर्ण भाव से मेरी

शरण में आओ। बाहर श्रीकृष्ण खड़े हैं उनकी शरण जायें या हृदय में भगवान् हैं उनकी शरण जायें। वास्तव में भगवान् हृदय में हैं किन्तु हृदयस्थ उस परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता है—सद्गुरु ! श्रीकृष्ण एक योगेश्वर हैं। गीता में स्थान-स्थान पर योगेश्वर ने अपना परिचय दिया कि वह सत्य से संयुक्त महापुरुष सद्गुरु के रूप में हैं।

अतः हृदयस्थित ईश्वर को पाना है तो मन-क्रम-वचन से किसी तत्त्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाना होगा, जिसे पतंजलि ने क्लेश-कर्म-विपाक आशय से मुक्त ईश्वर की संज्ञा दी है। संजय प्रत्यक्षदर्शी थे। जो कुछ अर्जुन ने देखा, वह संजय ने भी देखा। अर्जुन को श्रीकृष्ण से दृष्टि प्राप्त हुई थी, वही दृष्टि संजय को व्यास की अनुकम्पा से मिली थी। जो कृष्ण ने दिया, वही व्यास ने दिया।

उस प्रत्यक्षदर्शी संजय ने अन्त में निर्णय दिया—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥१८/७८॥

जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं, योग के अनुरूप धनुष को धारण करने वाला महात्मा अर्जुन है (लक्ष्यवेधी अनुरागी है), वहाँ श्रीः है, विजय है, विभूति है, अचल नीति है। राजन् ! विजय पाण्डवों की होगी; क्योंकि विजय वहीं है जहाँ योगेश्वर हैं अन्यथा प्रकृति पर कोई विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता। भगवान् कृष्ण परम का स्पर्श करके परमभाव में स्थित साक्षात् परमात्मा स्वस्थ हैं, योगेश्वर हैं।

अर्जुन ने पूछा, भगवन् ! उस ज्ञान को मैं कहाँ प्राप्त करूँ ? कैसे प्राप्त करूँ ? जिसे जान लेने के पश्चात् कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, जिसे प्राप्त करने के पश्चात् कुछ भी पाना शेष नहीं रहता ? भगवान् ने बताया—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥४/३४॥

अर्जुन ! तत्त्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ, उनके प्रति समर्पित हो सेवा और प्रश्न कर तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो, जिसे जान लेने पर फिर तुम्हें कभी सन्देह नहीं होगा, सदा-सदा के लिए अज्ञान का निवारण हो जायेगा।

भगवान् तो सामने ही खड़े थे, तत्त्वदर्शी के पास अर्जुन को भेजने की क्या

आवश्यकता थी? वास्तव में भगवान् श्रीकृष्ण भी तत्त्वदर्शी थे। परमतत्त्व है परमात्मा! जिसने उसको देखा, देखा ही नहीं स्थिति प्राप्त की—ऐसे परमभाव में स्थिति वाले महायोगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण थे। गीता गुरु-शिष्य संवाद है। अर्जुन ने कहा—‘शिष्यस्तेऽहं’ आप मुझे सँभालिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। अस्तु, भगवान् श्रीकृष्ण सद्गुरु की स्थितिवाले महापुरुष की शरण भेजते हैं। केवल सद्गुरु के ध्यान का विधान आर्षग्रन्थों में है।

॥ ॐ श्री सद्गुरु भगवान् की जय ॥

## हठ, यक्षा-भैदज और योग?

हठ, कुण्डलिनी, विभिन्न चक्रों की परिकल्पना साधक को अन्तर्मुखी करने का प्रयास मात्र है।

-स्वामी अडगडानन्द

काठमाण्डौ, नेपाल की जनसभा में दिनांक २२-११-२००० ई. को  
योग-सम्बन्धी जिज्ञासा पर महाराजश्री का प्रवचन।

## हठ, चक्र-भेदन और योग?

बन्धुओं!

आप सब की ओर से दो प्रश्न आये हैं। पहला प्रश्न है कि मूर्तिपूजा उचित है या अनुचित? दूसरा प्रश्न है योग के नाम पर तरह-तरह के योग, जैसे- हठयोग, राजयोग, लययोग, कुण्डलिनी योग, षट्चक्र और आसनों के बीच योग का वास्तविक स्वरूप क्या है?

जहाँ तक मूर्तिपूजा का प्रश्न है आश्रम के साहित्य 'यथार्थ गीता', 'जीवनादर्श' एवं 'आत्मानुभूति' और 'शंका समाधान' इत्यादि में भी हमने इस प्रश्न को लिया है। ये मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चा, स्तूप आदि जो भी पिण्ड तैयार किये जाते हैं आध्यात्मिकता की प्राथमिक पाठ्यालाएँ हैं। इनके द्वारा हम पूर्वजों के पदचिन्हों पर चल सकते हैं, धर्म की दिशा प्राप्त कर सकते हैं। एक सीमा तक ही इनका उपयोग है। वर्णमाला ज्ञान के लिए प्राथमिक कक्षाएँ आवश्यक हैं किन्तु कोई आजीवन इन कक्षाओं में ही रहना चाहे तो यह उसकी भावुकता ही कही जायेगी। मन्दिर और मूर्तियाँ श्रद्धास्पद स्मारक हैं, जिनमें हमारे पूर्वजों द्वारा परमात्मा के शोध की गौरवपूर्ण स्मृति सँजोयी गई है। यदि वहाँ यह बताया जाता है कि उस महान विभूति ने किस प्रकार साधना की? कैसे उस परमतत्त्व को प्राप्त किया? उनका सन्देश क्या है? तब तो मन्दिर और मूर्तियाँ सार्थक हैं। केवल चरणामृत बाँटने वाला मन्दिर अधूरा है, श्रद्धा का दुरुपयोग है।

आपका दूसरा प्रश्न, जो योग के सम्बन्ध में है, विस्तृत विचार की अपेक्षा रखता है। आज योग के नाम पर देश-विदेश में हजारों प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं जिनमें गृहस्थ, विरक्त सब के सब योग ही सिखा रहे हैं। सबकी संस्थाएँ फल-फूल रही हैं। छोटे-छोटे वच्चे तक योग में पारंगत हैं। हमारे आश्रम में कुछ वच्चे आते थे वे सब योग सीखकर स्वर्णपदक पा गये! (वे जिमिनास्टर थे) किन्तु गीता जैसे योगशास्त्र में इसे योग नहीं कहा गया। गीता में है-

तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं । योगसंज्ञितम् ।

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विष्णचेतसा ॥६/२३॥

अर्थात् जो संसार के संयोग-वियोग से रहित है, जो आत्मनिक सुख है, जिसे परमतत्त्व कहते हैं उसके मिलन का नाम योग है। वह योग न उकताए हुए चित्त से निश्चयपूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्यपूर्वक सतत् अभ्यास से लगने वाला ही उसे प्राप्त करता है। परमतत्त्व परमात्मा और हमारे बीच में मन की तरंगे हैं, चित्त की वृत्तियाँ हैं। इन वृत्तियों का निरोध कैसे हो? – इतनी ही तो साधना है, जिसको पूर्व मनीषियों ने देश, काल और पात्र-भेद के अनुसार अपनी-अपनी भाषा-शैलियों में व्यक्त किया है। लौकिक सुख तथा पारलौकिक आनन्द की प्राप्ति के एकमात्र स्रोत परमात्मा की शोध का जो संकलन वेदों में है, वही उपनिषदों में उद्गीथ विद्या, संवर्ग विद्या, मधुविधा, आत्मविद्या, दहर विद्या, भूमाविद्या, मन्त्रविद्या, न्यास विद्या इत्यादि नामों से अभिहित किया गया। इसी को महर्षि पतंजलि के दर्शन में योग की संज्ञा दी गई।

योग है क्या? महर्षि कहते हैं – अथ योगानुशासनम् -योग एक अनुशासन है। हम किसे अनुशासित करें? परिवार को, देश को, पास-पड़ोस को? सूत्रकार कहते हैं – नहीं, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः – चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। किसी ने परिश्रम कर निरोध कर लिया तो उससे लाभ? तदा द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानम् –उस समय द्रष्टा यह आत्मा अपने सहज स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है। क्या पहले वह स्थित नहीं था? महर्षि के अनुसार-‘वृत्ति सास्त्रप्रभितरत्र’ दूसरे समय द्रष्टा का वैसा ही स्वरूप है जैसी उसकी वृत्तियाँ सात्त्विक, राजसी अथवा तामस हैं, क्लिष्ट, अक्लिष्ट इत्यादि। इन वृत्तियों का निरोध कैसे हो? ‘अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः’ चित्त को लगाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास है। देखी-सुनी हुई सम्पूर्ण वस्तुओं में राग का त्याग वैराग्य है। अभ्यास करें तो किसका करें? ‘क्लेशकर्म विपाक आशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः’ क्लेश, कर्म, कर्मों के संग्रह और परिणाम भोग से जो अतीत है वह विशेष पुरुष ईश्वर है। वह काल से भी परे हैं, गुरुओं का गुरु है। उसका वाचक नाम ‘ओम्’ है। ‘तज्जपस्त्तदर्शभावनम्’ उस ईश्वर के नाम प्रणव का जप करो, उसके अर्थस्वरूप उस ईश्वर के स्वरूप का ध्यान धरो, अभ्यास इतने में ही करना है। इस अभ्यास के प्रभाव से अन्तराय (विघ्न) शान्त हो जायेंगे, क्लेशों का अन्त हो जायेगा और द्रष्टा स्वरूप में स्थिति तक की दूरी तय कर लेगा।

इन समस्त प्रकरण में योग के लिए वृत्तियों का संघर्ष ज्ञेतना है। यह शरीर का क्रिया-कलाप, इसकी विभिन्न मुद्राएँ योग कब से और कैसे हो गयी? कोई दिन-रात लगातार चौबीसों घण्टे योग के नाम पर प्रचलित इन आसनों को कर भी तो नहीं सकता जबकि गीता के अनुसार योग सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और महर्षि पतंजलि के अनुसार 'स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्काराऽसेवितो दृढभूमिः'- योग का यह अभ्यास बहुत काल तक लगातार शब्दापूर्वक करते रहने से दृढ़ अवस्था वाला होता है। अभ्यास में करना क्या है? कोई आसन? नहीं, उसमें करना है ओम् का जप और ईश्वर का ध्यान! योग का परिणाम क्या है? द्रष्टा की स्वरूप में स्थिति। इसके अतिरिक्त लक्षणों वाला, भिन्न परिणाम वाला साधन योग कदापि नहीं है।

अब हमें यह देखना है कि योग में इन मानसिक क्रियाओं के स्थान पर शारीरिक क्रियाओं का प्रचलन कैसे हो गया? योग के नाम पर विभिन्न आसन कहाँ से आ गये? महात्मा लोग घनधोर जंगल के शान्त एकान्त में कन्द-मूल, फल सेवन कर भजन करते थे जहाँ अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रकोप भी रहता था— 'लागत अति पहार कर पानी। विपिन विपति नहिं जाई बखानी।' पहाड़ी जल प्रायः स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता। जंगल के जीवन में इतनी असुविधाएँ हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सर्प, बिछू, शेर, भालू, गैंडा, हाथी और तरह-तरह के कीटाणुओं के मध्य निवास की समस्याओं के अतिरिक्त बड़े-बड़े मच्छरों के दंश, जिनसे साधकों को चार-छः महीने में ही मलेरिया, जूँड़ी ताप, लीवर का बढ़ना, तिल्ली, उदर-शूल इत्यादि जंगल के रोग आक्रान्त कर लेते थे। महीने दो-तीन महीने से बुखार पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अब तक जो चिन्तन-स्मरण-अभ्यास किया, प्रेमपूरित हृदय से जो लव इष्ट-चरणों में लगी थी, उधर से हटकर शरीर के चिन्तन में लग गई कि यह स्वस्थ कैसे हो? चिन्तन-क्रम टूट गया। येन-केन प्रकारेण स्वास्थ लाभ हुआ भी तो चार-छः महीने के अन्तराल से पुनः कोई न कोई बीमारी आ गई। जीवन ही कितना है मनुष्य के पास!

प्राचीनकाल में आज की तरह चिकित्सा की सुविधायें न थीं और जंगल में तो उनका और भी अभाव था। इसलिए महात्माओं ने भजन-पथ के भयंकर विज्ञ इन बीमारियों के निवारणार्थ अपने भजन में से कुछ समय निकालकर शरीर-शोधन की प्रक्रिया में लगाना आरम्भ किया, जिससे न मल अवरुद्ध हो और न

उससे उत्पन्न होने वाले अवान्तर विष्ण शरीर को क्षुभित कर सके। 'योग करत रोग बढ़त! वैराग योग कठिन ऊधो, हम न करब!' गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी! वैराग्य और योग तो बड़ा कठिन है। योग करने से रोग बढ़ता है। वास्तव में ऐसा ही है, क्योंकि भजन का उतार-चढ़ाव श्वास पर निर्भर है। एक ही नाम को बैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा-इन चार श्रेणियों से जपा जाता है। बैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाय। नाम-जप स्त्रवर इस प्रकार करते हैं कि सुनायी दे। मध्यम का आशय है अस्कुट स्त्रव। ऐसा उच्चारण कि समीप में कोई बैठा हो तो उसे न सुनायी पड़े, केवल जपने वाला सुने, समझे। इससे उन्नत अवस्था पश्यन्ति में दृष्टि श्वास पर केन्द्रित की जाती है कि श्वास कब अन्दर आई, कितने समय तक रूकी? कब बाहर गयी? मन को द्रष्टा रूप में खड़ा कर देते हैं। जब मन निरीक्षण करने लगे तो चिन्तन से उस नाम को जपा जाता है। पश्यन्ति अवस्था की परिपक्व अवस्था विपश्यना में श्वास विशेष रूप से निरीक्षण की क्षमता में नाम जागृत हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। एक बार सुरत लगा भर दें, डोर लग जायेगी। श्वास देखने की क्षमता आते ही परा में प्रवेश मिल जाता है। यह तत्त्व में प्रवेश दिला देने वाली वाणी है इसलिए परा कहलाती है। उस समय श्वास की गति शिथिल हो जाती है। एक मिनट में यदि आप चार बार श्वास लेते थे तो इस परा की अवस्था में एक ही बार ले सकेंगे। श्वास ही तो रक्त का शोधन करती है। यदि यही शिथिल हो गई तो रक्त-संचार मन्द पड़ जाती है। नस-नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ में रक्त-संचार शिथिल होते ही शरीर को तरह-तरह की बीमारियाँ घेर लेती हैं। साधना का क्रम न टूटे- इसके लिए महापुरुषों ने नेति, धौति, आसन इत्यादि शारीरिक क्रियाओं का आविष्कार किया।

नेति अर्थात् नाक में सूत की रस्सी डालकर मुख से निकालना, धौति अर्थात् पाँच सेन्टीमीटर चौड़े और पाँच मीटर लम्बे मलमल के वस्त्र को जल से साथ निगलना और निकालना, वस्ति अर्थात् गुदा से अश्विनी मुद्रा द्वारा जल खींचकर एनिमा की तरह बड़ी आँत की सफाई करना, नौलि अर्थात् खड़े होकर झुकते हुए दोनों हाथ धूटने पर रख नौलि (छोटी आँत) को नाभि के चारों ओर धुमाना, ब्राटक अर्थात् किसी वस्तु को एकटक देखते रहना, कपालभाति अर्थात् लुहार की भाथी की तरह शीघ्रतापूर्वक श्वास लेना और छोड़ना- इन सबके अनेक अवान्तर भेद, जैसे- कर्ण धौति (कान की सफाई), दन्तधौति (दाँतों की सफाई), शंख प्रक्षालन (मुख से जल पीकर गुदा मार्ग से निकालना) इत्यादि

केवल एक शारीरिक उपचार था, जिससे भजन में व्यवधान न आये। मूल साधन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। ‘तन विन भजन वेद नहिं वरना’ भजन के लिए तन को निरोग रखने का नुस्खा इन क्रियाओं में था जिसे कालान्तर में हठयोग कहा जाने लगा।

**वस्तुतः** हठयोग नाम की अलग से कोई साधना नहीं है। हम जब गुरु महाराज की शरण में आये, महीने-दो महीने में ही गुरुदेव हृदय से प्रेरणा देने लगे कि यहाँ बैठो, अब श्वास से चिन्तन करो, अब भजन ठीक चल रहा है, अब ठीक नहीं है, अब बाधा आने वाली है, यह बाधा का निवारण हो गया—इस प्रकार धड़ाधड़ अनुभव में मिलने लगा। गुरु महाराज ने अनुभव की जागृति प्रदान की, आत्मा से इष्टदेव रथी हो गये। नाम जपने की विधि, श्वास-प्रश्वास का भजन, नाम-रूप-लीला और ब्रह्मविद्या इत्यादि सभी साधन गुरुदेव ने विधिवत् बताया किन्तु नेति, धौति, नौलि, वस्ति, योगासन इत्यादि का नाम भी नहीं लिया।

गुरु महाराज सेवा पर पूरा जोर देते थे। यह करो वह करो- सेवा में लगाये रखते थे जिससे आसनों की कमी पूरी हो जाय। वे कहते थे— जब तक जगो योगाचार में रहो। मन को नाम, रूप, लीला और धाम इनमें से कहीं न कहीं लगाये रखो। यदि आप मन को भजन से छुट्टी देंगे तो यह माया में जायेगा। मन एक ऐसा यंत्र है जो कभी शान्त रहता ही नहीं, सदैव कुछ न कुछ करता ही रहता है, इसलिए सतत् चिन्तन में लगे रहो। सेवा करते समय भी, तिनका उठाते समय भी सुरत लगी रहनी चाहिए। प्रणपूर्वक लगे रहो। इसी का नाम हठ है। हठ के नाम पर अलग से कोई क्रिया नहीं है। पंचामि तापना, चौरासी जूनी तापना, जल शयन, कण्टक शयन, अरण्य निवास, एक पैर से अथवा हाथ ऊपर कर खड़े रहना, वृक्ष की डाल से उल्टा लटककर नीचे से धुआँ लेना, दिगम्बर नागा या मौनी बनना, निराहार, जलाहार, फलाहार, दूर्वाहार, दुग्धाहार या कंदमूलाहार पर निर्वाह करना हठ का ही प्रयास है किन्तु वास्तविक हठ श्रद्धा का एक इष्ट में स्थिरीकरण है।

पार्वती जी से सप्तर्षियों ने प्रस्ताव किया कि आपका विवाह ऐश्वर्य सम्पन्न विष्णु से करा देते हैं, इन दिगम्बर शिव में क्या रखा है? उन्होंने उत्तर दिया, ‘हठ न छूट छूटै बरु देहा’- हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाय। जन्म कोटि लागि रगर हमारी। बरङ्ग शम्भु न त रहउँ कुँआरी।। करोड़ों जन्म तक हमारी

यही टेक है कि शंभु का वरण कर्सँगी अन्यथा कुमारी रहँगी। 'तजऊँ न नारद कर उपदेसू। आपु कहहिं सत बार महेसू॥' मैं नारद का उपदेश नहीं त्याग सकती। भगवान् शिव भी स्वयं आकर सौ बार कहें तब भी मैं नहीं छोड़ूँगी। 'गुरु के वचन प्रतीति न जेही। सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही॥' गुरु के वचनों पर जिसे विश्वास नहीं है उसे स्वप्न में भी न सुख है, न सिद्धि ही है। यह था जगदम्बा पार्वती का हठ, उनका प्रण। भगवान् बुद्ध का भी हठ इसी प्रकार का था जिसका उल्लेख 'ललित विस्तर' के इस श्लोक में है, 'इहासने शुष्ठतु मे शरीरम्, त्वगस्थि मांसं प्रलयं च यातु। अप्राप्य बोधि बहुकल्प दुर्लभाम्, नैवासनात् कायमतश्च लिष्यते।' अर्थात् भले ही मेरा शरीर सूख जाय, हड्डियाँ मांस छोड़ दे, प्रलय ही क्यों न आ जाय, जब तक दुर्लभ बोधि (आत्मज्ञान) कैवल्य को प्राप्त न कर लूँगा, इस आसन से नहीं उठूँगा। हठ के नाम पर कोई और क्रिया होती हो ऐसी वात नहीं है। जिस प्रभु के प्रति आप लग गये हैं— करोड़ों उपदेशक आये- आप अपने हठ से, प्रण से, टेक से हवा भर भी विचलित न हों, इसका नाम हठ है। योग-साधना में हठ आवश्यक है। पूज्य महाराज जी कहते थे, 'हो! हठ ही हनुमान है। साधक को हनुमान की तरह होना चाहिए, माता पार्वती की तरह हठी होना चाहिए। यही है हठ, न कि नेति और धौति की क्रियायें! 'ह' और 'ठ' अक्षरों में सूर्य और चन्द्र अथवा पिंगला और इड़ा नाड़ियों का समीकरण वैठाना परवर्ती अन्वेषियों की देन है।

तंत्र-ग्रन्थों में शरीर तथा मन के समार्जन के लिए उक्त षट्कर्मों के अतिरिक्त अनेक बन्ध, मुद्रा और प्राणायाम की चर्चा है। मूलबन्ध में श्वास द्वारा गुदा का संकोचन करते हैं। पेट को पीठ से मिलाना उड्ढीयान बन्ध है। ढोढ़ी को हृदय से सटाने का प्रयास जालन्धर बन्ध है। जिह्वा उलटकर तालु कुहर में लगाना खेचरी मुद्रा है जिसमें घर्षण, छेदन, चालन और दोहन द्वारा लम्बिका योग अर्थात् जीभ को लम्बा किया जाता है। जननेन्द्रिय को पुनः-पुनः सिकोड़ना अश्विनी मुद्रा है। नितम्ब को जमीन पर बार-बार गिराना शक्तिचालिनी मुद्रा, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि शांभवी मुद्रा कही जाती है। जननेन्द्रिय द्वारा जल इत्यादि ऊपर खींचना बज्रोली मुद्रा है। दोनों अंगूठे से दोनों कान, तर्जनियों से दोनों नेत्र, मध्यमा से नासिका छिद्र, अनामिका और कनिष्ठकाओं से होंठ और अधर बन्द करना योनि मुद्रा या पण्मुखी मुद्रा है। पूरक, कुम्भक और रेचक में विभाजित प्राणायाम प्रणव सहित सगर्भ प्रणवरहित निगर्भ, सूर्यभेदी, उज्जाई,

शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्धा और केवली (प्लाविनी) के रूप में आठ प्रकार का होता है। वायु को घड़े की तरह पेट में भरना तड़ागी मुद्रा है। भिन्न-भिन्न रोगों में इन क्रियाओं से अपेक्षित लाभ भी मिलता था। कुछ लोग सुमिरन के साथ इन क्रियाओं का भी प्रयोग करते थे किन्तु यह उपचार क्लिष्ट था। इसमें खतरे बहुत थे। अच्छे से अच्छे जानकार भी थोड़ी-सी असावधानी से प्राणों से हाथ धो बैठते थे इसलिए आसनों का आविष्कार हुआ। चौरासी लाख जीवों का अनुकरण कर इतने ही आसन बताये गये जिनमें चौरासी मुख्य हैं— जैसे-सिद्धासन, पद्मासन, शीर्षासन, मयूरासन, सर्वांगासन इत्यादि। इनमें से कुछ आसनों को भी कर लेने से पसीना होने लगेगा, रक्त-संचार स्वाभाविक होने लगेगा, मांसपेशियों पर दबाव पड़ने लगेगा, आप नीरोग रहेंगे। इस प्रकार आसन के रूप में प्रचलित यह व्यायाम योग का सहयोगी है न कि योग! कुछ लोग योग के नाम पर केवल आसन, नेति, धौति जैसी शारीरिक क्रियायें करते हैं— यह योग नहीं है। योग तो संसार के संयोग-वियोग से रहित है। आत्मन्तिक सुख, काल से अतीत, कैवल्य पद के मिलन का नाम है योग! शारीरिक क्रियायें विकारों के निवारण की विधि मात्र हैं, सम्पूर्ण योग कदापि नहीं। सम्पूर्ण योग के लिए आप श्रीमद्भगवद्गीता की परिभाषा ‘यथार्थ गीता’ की तीन-चार आवृत्ति भली प्रकार करें।

साधनावस्था में निराधार विचरण के क्रम में पूज्य गुरु महाराज जी एक बार प्रयाग पधारे प्रयाग बाँध पर कुछ हठयोगी निवास करते थे। आपको भजन में बैठा देखकर एक नवयुवक साधक ने प्रश्न किया कि आप रात्रि दो बजे से ही ध्यान में लगे हैं। जब भीतर मल भरा है तो ध्यान कैसे होगा। ध्यान से पूर्व नेति, धौति इत्यादि क्रियायें आवश्यक हैं परन्तु आप इन क्रियाओं के बिना ही ध्यान में रत हैं? महाराज जी ने हँसते हुए उत्तर दिया कि मल तो मन में होता है, स्थूल शरीर की आँतों को साफ करने से क्या होगा? जन्म-जन्मान्तर के दूषित संस्कार ही हमारे लिए मल हैं। जिसके द्वारा मन का मैल साफ हो जाय, वही योग-क्रिया है। यह साधन अनुभवी महापुरुषों द्वारा जागृत हो जाया करता है, जो जन्म-जन्मान्तरों के मलों को मिटाकर इष्ट में नियुक्त कर देता है। इस मानसिक चिन्तन का शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं है। गीता योगशास्त्र है किन्तु उसका एक भी सूत्र नेति, धौति या वस्ति से सम्बन्धित नहीं है। रामचरित मानस भी उसी इष्ट से योग करता है, किन्तु उसमें भी इन क्रियाओं का वर्णन नहीं मिलता। महर्षि

पतंजलि और कबीर इत्यादि ने भी कहीं इसके लिए स्थान नहीं दिया। नेति, धौति इत्यादि शारीरिक उपचार हैं जिनसे कठिन से कठिन शारीरिक विकारों का शमन हो सकता है किन्तु इससे आप योग की पराकाष्ठा प्रभु को नहीं पा सकते। योग में पायी जाने वाली प्रक्रिया एक ही है। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं—

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन।

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्योऽव्यवसायिनाम् ॥(२/४१)

अर्जुन! इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि अनन्त शाखाओं में बँटी रहती है इसलिए वे अनन्त क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। इस नियत विधि को गीता में यज्ञचक्र कहा गया। परवर्ती सूत्रकारों ने इसे विविधं नाम दिये। साधना के विभिन्न पक्षों पर बल देने के कारण एक ही योग ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, राजयोग, हठयोग, मंत्रयोग, लययोग, सुरति-शब्द योग, कुण्डलिनी योग, चक्रभेदन योग इत्यादि शाखाओं में बँटकर एक दूसरे से भिन्न प्रत्युत विरोधी भी प्रतीत होने लगा। ज्ञानयोगियों ने बुद्धि पर, कर्मयोगियों ने सेवा पर, भक्तियोगियों ने समर्पण पर, राजयोगियों ने ध्यान पर, हठयोगियों ने शारीरिक शुद्धि पर, तंत्रयोगियों ने मंत्र पर, लययोगियों ने संस्कारों के विलय और परमात्मभाव में स्थिति पर बल दिया। यही संत कबीर का सुरति-शब्द योग है और यही गुरु गोरखनाथ जी का कुण्डलिनी योग है। योग इन सबका समुच्चय है, अन्तर्भाव है।

महापुरुषों के पीछे विकृतियों का सृजन हो जाया करता है, और महापुरुष के नाम पर चला भी देते हैं। यही कारण है कि मध्यकाल में साधना के नाम पर रहस्यमयी परिभाषाएँ, निरर्थक मंत्र और गुह्य साधनाएँ विकसित हो गईं जिनमें पंच मकार-मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन के अश्लील एवं व्यभिचारपरक अर्थ किये गये, जिसकी पुनर्प्रतिष्ठा सज्ज गोरखनाथ जी जैसे महानं योगियों ने की।

योग-साधना को लेकर मत-मतान्तरों के सृजन का दूसरा कारण यह था कि मध्यकाल में संस्कृत भाषा जन-साधारण के लिए वर्जित कर दी गई। इसके अध्ययन-अध्यापन पर वर्ग-विशेष का विशेषाधिकार हो गया। यही कारण था कि सामाजिक कुलीनता से अलग-थलग अनेक महात्मा (वैदिक) ज्ञानराशि से वंचित रह गये। उनके अनुयायी अन्य सम्प्रदायों से अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में उन्हीं के समानान्तर हजारों आगमिक ग्रन्थों की रचना कर बैठे। वास्तविकता न समझ पाने के कारण उन्होंने शरीर में चक्रों की

परिकल्पना को कितना हास्यास्पद बना दिया है! प्रायः लोग शरीर में सात चक्रों का रूपक सुनते आये हैं, सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषदों में नौ चक्र बताये गये हैं; किन्तु सन्त कबीर के अनुयायी इसके भी आगे कई अन्य चक्र गिनाकर कबीर साहब को उसके शिखर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। सन्त पूर्णसिंह जी ने दो सहस्रार अर्थात् चौदह चक्रों तक गुरु गोरखनाथ जी का स्थान माना और अपने नानकदेव जी को इससे भी ऊपर कई चक्रों को पारकर महामहिमावती विहंगमपुर का निवासी बताया। अस्तु, साम्राज्यिक स्पर्धा को यहीं विराम देकर हम पुनः आपके प्रश्न पर आते हैं।

वास्तव में शरीर के ये चक्र रूपक मात्र हैं। महापुरुषों ने इनको दृष्टान्त का माध्यम बनाकर अध्यात्म जगत् के अमूर्त रहस्यों को समझाने का प्रयास किया है। इन चक्रों के मूल में है शरीर और ब्रह्माण्ड में समरूपता दिखाने का प्रयास! जैसे पृथ्वी के नीचे सात खण्ड अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल और पाताल कहे जाते हैं तथा पृथ्वी से ऊपर भुवः, स्वः, महः, जन, तप और सत्यलोकों की कल्पना है। इसी प्रकार शरीर में मेस्दण्ड से नीचे मूलाधार चक्र भू-लोक है उसके नीचे सात स्थान पदतल, एड़ी, गिट्ट, पिण्डली, जानु, जंघा और तड़ागी हैं तथा पृथ्वी से ऊपर के लोकों के समकक्ष, शरीर में मूलाधार से ऊपर स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार नामक सात चक्र या स्थान हैं। किसी ने इसी को चक्रब्यूह के सात फाटक कहा तो किसी ने इसे भक्ति के सात सोपानों की संज्ञा दी— एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना॥ (रामचरितमानस)

नैगमिक परम्परा के अनेक उपनिषदों, जैसे कृष्णयजुर्वेदीय अक्ष्युपनिषद् के द्वितीय खण्ड में इन्हीं को योग की सात भूमिकाएँ (असंवेदन, विचार, असंसर्ग, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या और विदेहमुक्ति) कहा गया। सामवेदीय महोपनिषद् के पंचम अध्याय में ज्ञान के आठ साधन विवेक, वैराग्य, पद्भ्रान्ति (शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरामता और तितिक्षा), मुमुक्षा, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार—ये साधन, ज्ञान की सात भूमिकाएँ—शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थभावना और तुर्यगा से चलकर परिपक्व होते हैं और परिणाम देते हैं। यही योग की सात भूमिकाओं या सात सोपान के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं।

आरम्भिक भूमिका है शुभेच्छा अर्थात् शुभ के प्रति इच्छा। जिसमें अशुभ

है ही नहीं, जो निर्दोष है, नित्य और परमसत्य है उसकी प्राप्ति के लिए इच्छा। इस परमश्रेय शाश्वत की इच्छा शुभेच्छा योग की पहली सीढ़ी है, शुभारंभ है। केवल इच्छा करने मात्र से ही शुभ उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। कहाँ ढूँढें उसे? उसके लिए सुविचार होने लगे, मंथन होने लगे, व्याकुलता आ जाय, वैराग्य के साथ सदाचरण की प्रवृत्ति विचारणा है। क्रमशः इद्वियों की विषयों से अनुरक्ति क्षीण होने लगती है, परमात्मा के प्रति आस्था सुदृढ़ होने लगती है तो तीसरी अवस्था तनुमानसा का उदय होता है। अब तक वह शरीर के कार्य व्यापार को अपना समझता था, अब वह मन में ही तन वाला हो गया। मन जितना विकृत है उतना ही भूलों का कारण और जितना ही संयत है उतना स्वरूप की अभिवृद्धि, समझ में आते ही वह अन्तर्मुखी होने लगता है। एकान्त देश के सेवन तथा मानसिक चिन्तन के फलस्वरूप योग की चौथी भूमिका सत्तापत्ति आती है— जो सत्य है, नित्य है, सनातन है उसकी जागृति! यहाँ आत्मा जागृत हो गई। चित्त शुद्ध स्वरूप में लगने लगता है। साधना और उन्नत होने पर असंसक्ति अर्थात् संसर्गहीनता स्वभाव में ढल जाती है। संसार के भले-बुरे वातावरण में असम्युक्त या अलग रहने की क्षमता आ जाती है। कैसी भी परिस्थिति आ जाय, उससे अप्रभावित रहकर आगे बढ़ जाने की क्षमता असंसक्ति है। साधना और उन्नत होने पर छठी भूमिका ‘पदार्थाभावनी’! पदार्थ अर्थात् भोग-सामग्री। सांसारिक मनुष्य जागने से सोने तक रात-दिन पदार्थ ही तो ढूँढ़ रहा है। अपना भोग ही तो संग्रह कर रहा है; किन्तु इस अवस्था के योगी के लिए संसार में पदार्थ है ही नहीं। ‘सीयराम भय सब जग जानी। करउँ प्रणाम जोरि जुग पानी॥’ एक ऐसा स्तर आ जाता है कि जहाँ प्रकृति थी वहाँ भगवान का संचार दिखायी देने लग जाता है। जब विषयवस्तु है ही नहीं तो मन जायेगा कहाँ?

‘सरग नरक अपवर्ग समाना। जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना॥’ इस स्तर के योगी में ऐसी दृष्टि का संचार हो जाता है कि न स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रह जाता है जिसकी वह कामना करे और न नरक नरक के रूप में रह जाता है जिससे वह भयभीत हो; बल्कि ‘जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना’ वह सर्वत्र आराध्य देव के संचार को पाता है— यह है पदार्थ का अभाव!

साधना और भी सूक्ष्म होने पर योग की सातवीं भूमिका तुर्यगा आती है।

महापुरुषों ने मन को तुरंग अर्थात् घोड़े की संज्ञा दी है क्योंकि यह अत्यन्त चपल है, गतिमान है, वेगवान है। इस अवस्था का योगी मनरूपी तुरंग पर सवार हो जाता है। वह मन का गुलाम नहीं, संचालक हो जाता है। वह मन को जहाँ चाहे (चिन्तन में, श्वास में, रूप में, ब्रह्मविद्या में) कहीं भी रोक सकता है। यह मन की लगभग निरोधावस्था है किन्तु मन अभी जीवित है। वह मन भी इतना शान्त हो जाय कि संकल्प-विकल्प की प्रक्रिया ही शान्त हो जाय, वहाँ मन मिट गया, क्योंकि संकल्प का ही दूसरा नाम मन है—‘मन मिटा माया मिटी, हंसा बेपरवाह। जाका कछू न चाहिए सोई शहंशाह।।’ मन मिटते ही माया मिट गई, अब (हंस) यह संत स्थिति का योगी बेपरवाह हो जाता है। मानस में हंस का लक्षण बताया गया—‘जड़-चेतन गुण-दोष मय, विश्व कीन्ह करतार। सन्त हंस गुन गहहिं पय, परिहरि वारि विकार।।’ विधाता ने गुण-दोष मिलाकर संसार को रचा किन्तु वे सन्त हंस होते हैं जो ईश्वरीय गुणरूपी दूध को तो ग्रहण कर लेते हैं परन्तु विकाररूपी वारि का त्याग कर देते हैं। ऐसी स्थिति वाले सन्त हंस होते हैं। शेर को धास खिलायें तो क्या वह जीएगा? मछली को जल से बाहर रखें, तो क्या वह जीवित रह सकेगी? इसी प्रकार ईश्वरीय गुण हंस की खुराक है। कदाचित् दुर्गुण खाने लगा तो हंस कहाँ? वह तो कौवा हो गया। इस प्रकार ईश्वरीय गुणों का संधान करते-करते मन का निरोध और निरुद्ध मन भी जिस क्षण विलय पा गया, तत्क्षण वह परम चेतन का प्रतिविम्ब प्राप्त कर लेता है। यही तुर्यातीत, विदेह, जीवनमुक्त पुरुष है। जिसे पाना था पा लिया, जिस तत्त्व को ढूँढ़ता था विदित हो गया तो वह योगी निश्चिन्त हो जाता है। ‘जाका कछू न चाहिए’ यदि आगे कुछ होता तो चाह अवश्य होती। जब चाहने लायक भी आगे कुछ न बचा तो ‘सोई शहंशाह’ वह वादशाहों का भी वादशाह आत्मतृप्त हो जाता है।

आगम ग्रन्थों में योग के इन सप्त सोपानों की परिकल्पना शरीरस्थ सात चक्रों के रूप में की गई है, जैसे— शुभेच्छा योग का मूलाधार है। सुविचारणा स्वाधिष्ठान चक्र है। तनुमानसा मणिपूरक चक्र है। सत्त्वापत्ति, अनाहत, असंसक्ति, विशुद्ध, पदार्थभावनी, आज्ञा और तुर्यगा सहस्रार चक्र हैं। स्वामी ब्रह्मानन्द जी एक अच्छे भजनानन्दी महात्मा हुए हैं। अपने एक पद में उन्होंने कुण्डलिनी योग का संक्षिप्त परिचय दिया है—

निरंजन पद को साधु कोई पाता है॥...

मूल द्वार से खींच पवन को, उलटा पंथ चलाता है।

नाभी पंकज दल में सोयी, नागिन जाइ जगाता है।

मेस्क्षण्ड की सीढ़ी बनाकर, शून्य शिखर चढ़ जाता है।

भँवर गुफा में जाय विराजै, सुरता सेज बिछाता है।

शशि मण्डल से अमृत टपके, पीकर प्यास बुझाता है।

सब कर्मों की धूनि जलाकर, तन में भस्म रमाता है।

ब्रह्मानन्द स्वरूप भगन हो, आप ही आप लखाता है।

निरंजन पद को साधु कोई पाता है॥...

ब्रह्मानन्द जी ने परमपद को निष्कलुष निरंजन पद की संज्ञा दी है। ‘गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन’— गुरु महाराज जी का चरण-रज कोमल सुन्दर अंजन के समान है जिससे हृदय के विवेकरूपी नेत्र जागृत हो जाते हैं। इस अंजन का प्रभाव बताया— ‘सुकृत शंभु तन विमल विभूति । मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥’ पुण्यात्मा शंकर जी के शरीर में जो निर्मल ऐश्वर्य पाया जाता है वह गुरु महाराज के चरण-रज का ही प्रभाव है। एक शिव तो वह हैं जो पुण्य-पाप से परे हैं, दूसरे वह पुण्यात्मा शंकर जी! यह दो कैसे? वस्तुतः कः पूजनीय? शिवतत्त्वनिष्ठ। सृष्टि में पूजनीय कौन है? जो शिवतत्त्व में स्थित है वह महापुरुष! शिव ज्योतिर्मय परमात्मा की स्थिति का नाम है। उस तत्त्व की प्राप्तिवाला शिव है। उसे प्राप्त करने का अधिकारी भी कोई पुण्यात्मा ही होता है। आज का पुण्यात्मा सद्गुरु के चरण-रज का अंजन लेकर शिवस्वरूप को प्राप्त करता है। आज का पुण्यात्मा कल की स्थितिवाला होता है। निरंजनपद उस परमपद की प्राप्ति है जिसके लिए गुरु महाराज के चरण-रज का आश्रय लिया था, उसकी भी आवश्यकता न रह जाय, अंजन का परिणाम निकल आया हो, तत्त्व विदित हो गया हो, कैवल्य स्थिति मिल गयी हो। उस निर्दोष, निर्लेप अविनाशी परमपद को, निरंजनपद को कोई विरला ही सन्त प्राप्त कर पाता है।

उसे प्राप्त करने की विधि क्या है? ‘मूल द्वार से खींच पवन को, उलटा पंथ चलाता है।’ मूलद्वार में चार पंखुड़ियों का कमल अधोमुख है। साधना द्वारा इसे ऊर्ध्वमुख किया जाता है। अन्तःकरण चतुष्क्षय (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार) यही चतुर्दल कमल है। ये अधोमुख हैं। प्रकृति की ओर, आवागमन की ओर हैं। इनको बाँधो, उधर जाने से रोको। यही मूलबन्ध है। यदि हम इनको न

वाँध सके तो भजन नहीं होगा। क्योंकि जिन्हें भजन करना है वे अधोमुखी चिन्तन कर रहे हैं— मन संकल्प प्रकृति का कर रहा है, चित्त प्रकृति का चिन्तन कर रही है, बुद्धि प्रकृति का ही निर्णय ले रही है और इसमें कदाचित् सफलता मिली तो अहंकार भी प्रकृति का! यही तो छुड़ाना है। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो अधोमुखी प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख हैं उन्हें उधर से बन्द करें, ऊर्ध्वमुखी करें, इष्टोन्मुखी करें। संकल्प करने वाली प्रशक्ति का नाम मन है, संकल्प का बार-बार चिन्तन करने वाली शक्ति चित्त है, चिन्तन करते-करते किसी निश्चय पर पहुँचे तो निश्चय करने वाली शक्ति बुद्धि और निश्चय कर्म में परिणित हो गया तो 'हमने किया' यह अहंकार— यही चार दल वाला कमल है। यह प्रकृति की ओर उन्मुख है, पहले इन्हीं को बाँधो। मन संकल्प करे तो हरि का, चिन्तन करे तो इष्ट का, निश्चय करे तो उसी का और अहंकार भी हो तो प्रभु का— 'अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति भोरे॥' यही है मूलवन्ध! इतना होते ही भजन की शुरुआत हो गयी। इसका नाम है मूलद्वार! यह योग-साधना का प्रथम द्वार है, आत्म-दर्शन की पहली खिड़की है। अन्तःकरण चतुष्टय में विषयरूपी वयार चलती ही रहती है उसको खींचो और उलटा पन्थ चला दो, विषयों की ओर से इष्ट की ओर उसकी धारा मोड़ दो। अभ्यास जहाँ उन्नत हुआ तो— ' नाभि पंकज दल में सोयी, नागिन जाय जगाता है।'

नाभि कहते हैं केन्द्र को! जहाँ भले-दुरे सारे संस्कारों का केन्द्रीयकरण है उस नाभि कमल के त्रिकोण में कुण्डली मारकर नागिन पड़ी हुई है। वास्तव में नागिन यह चित्तवृत्ति है जो सत्, रज और तम इन तीनों गुणों के अन्तराल में कुण्डली लगाकर बैठी है। विषयोन्मुख यह चित्तवृत्ति विषयरूपी विष उगलती ही रहती है, जीव को भयंकर यातनाएँ देती ही रहती है। नाभि में पद्मल कमल अधोमुखी पद्मविकारों- काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर के प्रतीक हैं। ऊर्ध्वमुखी हो जाने पर यही पद्मसम्पत्ति-विवेक, वैराग्य, शम, दम, त्याग, तितिक्षा इत्यादि में परिणित हो जाते हैं न कि कोई सचमुच का कमल खिलता है। चित्त को पद्मविकारों से समेटकर पड़ैश्वर्य की ओर प्रवाहित करना नागिन को जगाना है।

'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।' गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि अर्जुन! जगत्-रूपी रात्रि में सभी प्राणी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। रात-दिन जो दौड़-धूप करते हैं मात्र स्वप्न देखते हैं, केवल संयमी पुरुष इसमें जग जाता है। संयम तभी सम्भव है जब विवेक, वैराग्य, शम, दम, त्याग, तितिक्षा का संचार

आ जाय। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं— मोहनिशा सब सोवनिहारा। देखहिं सपन अनेक प्रकारा। मोहरूपी रात्रि में सब लोग निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। जो रात-दिन दौड़ते हैं मात्र स्वप्न है। लोग चाहे स्वर्ग का ऐश्वर्य इकट्ठा कर लें लेकिन जहाँ आयु के दिन पूरे हुए तो ‘सोइ पुर पाटन बहुरि न देखा आई’ दुबारा लौटकर कुछ भी तो देख नहीं पाते! इससे जागता कौन है? ‘एहि जग जामिनि जागहिं योगी। परमारथी प्रपञ्च वियोगी॥’ परमार्थी अर्थात् परम धन परमात्मा के पिपासु प्रपञ्च के वियोगी योगीजन इस जगत्-रूपी रात्रि से जग जाते हैं। जब तक मोहरात्रि में सोया है नागिन डसती रहती है, जन्म पर जन्म प्रदान करती रहती है। इसका विषय उत्तरता नहीं, जीव कराहता रहता है, पूरा मरता-भी नहीं क्योंकि उसमें ईश्वर का अंश जो ठहरा! सर्वथा नाश तो नहीं होता। हाँ, चैन भी नहीं मिलता! ‘जानिय तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा॥’ जीव को तब जागृत समझिए जब उसे समस्त विषयों से वैराग्य हो जाय! इस प्रकार सभी महापुरुष एक ही बात कह रहे हैं।

जहाँ साधना जागृत हुई, भजन का उतार-चढ़ाव श्वास से निर्धारित होने लगता है। प्रत्येक महापुरुष ने इस पर बल दिया है— ‘श्वास-प्रश्वास पर राम कहु, वृथा श्वास भत खोय। ना जाने यहि श्वास का, आवन होय न होय॥’ भगवान बुद्ध कहते हैं— श्वसन-क्रिया पर, प्राण-अपान पर ध्यान दो। समय-समय पर भाषा-भेद से विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग महापुरुषों ने किया, समझाने के तरीके बदले किन्तु विषयवस्तु ज्यों की त्यों रही। वैसे तो श्वास से सम्पूर्ण शरीर ऊर्जस्वित है किन्तु इसके माध्यम से मन को अन्तर्मुखी और एकाग्र करने के लिए नासिका से मेस्दण्ड के सहारे नाभिपर्यन्त श्वास के गमनागमन के निरीक्षण का निर्देश महापुरुषों ने दिया है। मन को द्रष्टा बनाकर खड़ा कर दें, देखते रहें कि कब श्वास अन्दर गयी, कब लौटी। बाहर कितनी देर स्की। पुनः कब अन्दर गयी। हमारी जानकारी के बिना एक भी श्वास न जाने पाये। इस श्वास पर सुरत को स्थिर करें और जब देखने की क्षमता आ जाय तो धीरे से चिन्तन का नाम इसमें ढाल दें। श्वास अन्दर गई तो ओम्, बाहर आयी तो ओम्। ओम्-ओम् या राम-राम जो भी नाम आपको अनुकूल पड़े, जो उस प्रभु का परिचायक हो, ऐसे किसी एक नाम को श्वास में ढाल दें। नागिन जगकर श्वास के चिन्तन में प्रवाहित हो गयी। इसका नाम है मेस्दण्ड की सीढ़ी। किसी-किसी उपनिषद् में मेस्दण्ड को वीणादण्ड भी कहा गया है। श्वास-प्रश्वास की क्रिया द्वारा मेस्दण्ड की सीढ़ी

वनाकर योगी उस शून्य शिखर पर आरुङ् हो जाता है। जहाँ भले-बुरे सभी संकल्प शान्त हो जाते हैं, केवल लक्ष्य मात्र रह जाय अन्य कुछ भी याद न रहे। जिसे चाहते हैं सजगतापूर्वक उसे देखते रहें, जड़ न हो जायें। प्रेमपूरित हृदय से सुरत उस नाम पर हो, श्वास में सुरत की डोर लग जाय। पूज्य महाराजी के शब्दों में, श्वास वाँस की तरह एकदम सीधी खड़ी हो जाय। ओम्-ओम् की एक धूत प्रवाहित हो जाय। हृदय से न किसी संकल्प का अभ्युदय होता हो और न ही बाह्य वायुमंडल के संकल्प अन्दर प्रवेश कर पाते हों। जहाँ सुरत लगाया वहीं लगी है, चिन्तन चल रहा है— यही शून्य शिखर! यही साधना का शिखर है! ऐसा योगी ‘भ्रमर गुफा में जाय विराजे, सुरता सेज विछाता है।’ महापुरुषों ने परमात्मा को पुष्प तथा मन को भ्रमर की संज्ञा दी है। संत कवीर का एक प्रसिद्ध भजन जो महाराज जी को बहुत प्रिय था, इसी आशय का था कि ‘फुलवा के छुवत भँवर मरि जाई। का कही, केसे कही को पतियायी?’ अस्तु, परमात्मा एक पुष्प है। यह मनरूपी भ्रमर, जो उसकी प्राप्ति के लिए विकल था, जहाँ शून्य शिखर पर पहुँचा, शून्य की कन्दरा में शान्त सम बैठ जाता है, रुक जाता है; किन्तु उसके लिए सुरत की शैव्या आवश्यक है अन्यथा मन कभी नहीं रुकेगा। सुरत मन की दृष्टि का नाम है। आप यहाँ बैठे हैं। मान लें, छत्तीसों रंग वरस रहे हैं, आप मन-मस्तिष्क से सुध-वुध खोये हुए हैं, सहसा कोई कान में कह देता है कि बच्चा छत से गिर गया, बेहोश हालत में अस्पताल गया। तत्क्षण आपको यहाँ का कुछ भी दृश्य दिखायी नहीं देगा जबकि आँखें खुली हैं, कान खुले हैं फिर भी कुछ सुनायी नहीं देगा, जबकि एक मिनट पहले आप इन्हीं दृश्यों में खोये हुए थे। बच्चे का एक-एक रोम दिखायी पड़ने लगेगा, दाँत कैसे? आँखें कैसी? नाक कैसा? हाथ-पाँव कैसे? हथेलियाँ कैसी? रेखायें कितनी? आँखों की चितवन, बराँनी सब कुछ स्पष्ट दिखायी देने लगेगा। वस्तु नहीं है फिर भी वस्तु का जो दृश्य प्रस्तुत कर दें, मन की उस दृष्टि का नाम सुरत है। इसी सुरत से भजन किया जाता है। योगी इस सुरत को श्वास पर लगाकर ही शयन करता है।

‘शशि मण्डल से अमृत टपके, पीकर प्यास बुझाता है।’ सुरत जब शून्य शिखर पर टिक गयी तो ‘मन शशि चित्त महान्’- ईश्वरीय आभा उतर आती है। मृत्यु से परे जो अविनाशी अमृततत्त्व परमात्मा है उसका संचार मिलने लगता है। जहाँ उसे पाया तो इस जीवात्मा की प्यास सदा-सदा के लिए मिट जाती है। अन्य किसी धन-धार्य से, ऐश्वर्य समृद्धि से इसकी प्यास कभी नहीं मिटी है।

इसकी प्यास तभी मिटती है जब यह जिसका विशुद्ध अंश है, जिसकी सत्तान है, अपने मूल उद्गम उस पर प्रभु को प्राप्त कर ले। अपने सहज स्वरूप को पाकर ही इसकी प्यास मिटती है। जिसे पाना था पा लिया। अब भजन करके ढूँढ़े किसे? कर्म करे तो किसलिए? अतः 'सब कर्मों की धूनि जलाकर, तन में भस्म रमाता है।' जो भजन-साधन, कर्म अनिवार्य था, प्राप्ति के पश्चात् उन कर्मों की धूनि जल गयी। उसके जलने से कोई क्षति नहीं हुई। उसके द्वारा जो विभूति है, ऐश्वर्य है— वह तन में आ गयी।

भगवान श्रीकृष्ण गीता (अध्याय- ४/१६-१९) में कहते हैं – अर्जुन! कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है? बड़े-बड़े विवेकी लोग भी इससे भ्रमित हैं। इस कर्म को किये बिना न कोई पाया है और न कोई प्राप्त कर सकेगा। पूर्व में होने वाले जितने भी महापुरुष हुए हैं इसी कर्म को करके परम नैष्कर्म की स्थिति को प्राप्त हुए हैं; किन्तु 'यस्य सर्वे समारम्भः कामसंकल्प वर्जिताः'—सम्पूर्णता से आरम्भ किया हुआ जिसका कर्म इतना सूक्ष्म हो गया कि कामना और संकल्प से ऊपर उठ गया, तो 'ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणं' ज्ञानाग्नि में उसके कर्म सदा-सदा के लिए जल जाते हैं। 'तमाहुः पण्डित वृथाः' -ऐसी स्थिति वालों को ही बोधस्वरूप महापुरुषों ने पण्डित कहकर सम्बोधित किया है।

गीता, ५/१९ में भगवान कहते हैं— इहैव तैर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः॥। अर्जुन! उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित हो गया, सुरत की सेज लगाकर शून्य में अचल स्थिर रुक गया। अब मन के अचल स्थिर ठहरने और संसार जीतने में क्या सम्बन्ध है? श्रीकृष्ण कहते हैं— 'निर्दोषं हि समं ब्रह्म' वह ब्रह्म निर्दोष और सम है, उधर इसका मत्त भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया। 'तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः' इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है।

अभी चौथे अध्याय के 'ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणं' की चर्चा हुई। ज्ञान का अर्थ कुछ सिद्धान्त रट लेना नहीं होता। ज्ञान का अर्थ है परमात्मा के दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति। गीता के अध्याय १०/३ में भगवान कहते हैं— 'यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असमूढः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते।' जो अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के महान् मुझ ईश्वर को विदित कर ले, वह पुरुष मरणधर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। जब ईश्वर विदित होता है उस

जो अनुभूति मिलती है उसका नाम ज्ञान है। यदि क्रियात्मक चलकर किसी ने देखा नहीं तो सिद्धान्त पढ़ते रहे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हिमालय के नक्शे दिन-रात देखते रहें किन्तु पता तो तब चलेगा जब हिमालय पर पाँव रख देंगे! अस्तु, साधना की पूर्ति में मन के निरोध और विलयकाल में अविदित प्रभु के विदित होने के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। गीता के अनुसार, हर महापुरुष के अनुसार, जिसे जानना था जान लिया, आगे कोई सत्ता नहीं तो ढूँढ़े किसे? ‘दर्घं कर्मणं’—कर्म सदा के लिए जल जाता है। आगे कोई भगवान वचा ही नहीं तो जायेगा कहाँ? पूजेगा किसे? इसलिए भजन भी समाप्त! अब ‘भजन हमारा हरि करें, हम पाये विश्राम।’ यही है सब कर्मों की धूनी जलाकर तन में भस्म रमाता है। अन्त में कहते हैं—‘ब्रह्मानन्द स्वरूप भगन हो, आप ही आप लखाता है।’ वह साधक कण-कण में व्याप्त वृहद् उस ब्रह्म के आनन्द में निमग्न हो जाता है। ‘आप ही आप लखाता है।’ भगवान जब अपनाते हैं तो अलग से जीव बनाकर नहीं बैठते—‘जानत तुम्हहि तुम्हहि होई जाई॥’ सेवक सदा के लिए खो जाता है, स्वामी ही शेष वचा रहता है। ‘ईश्वर अंश जीव अविनाशी’—यह जीव परमात्मा का विशुद्ध अंश है, अविनाशी है। साधना के सही दौर में पड़कर जहाँ मूल का स्पर्श किया, जो अंश था वह मिट गया और अंशी जो व्यापक था, शेष वच रहा। तो ‘सुरसरि मिले सो पावन कैसे।’ इस अनीसहिं अंतर तैसे॥’ वह विलय पा गया, भगवान की भगवत्ता को सर्वत्र अपने में ओत-प्रोत पाया। प्रभु जब अपनाते हैं तो अपना प्रभुत्व प्रदान कर देते हैं। जीव बनाकर, सेवक बनाकर नहीं रखते! इसलिए ‘आप ही आप लखाता है।’ ऐसे निरंजन पद को कोई सन्त अवश्य प्राप्त करता है।

स्वामी ब्रह्मानन्द जी ने शरीरस्थ सातों चक्रों का उल्लेख अपने पद में नहीं किया किन्तु मेरुदण्ड की सीढ़ी में इन चक्रों का अन्तर्भव समझा जा सकता है। मूलाधार की चर्चा उन्होंने की है। इससे क्रमोन्नत चक्र स्वाधिष्ठान है। स्व का अर्थ है आप स्वयं, अधिष्ठान का अर्थ, निवास अर्थात् अपने स्वरूप के प्रति आस्था सुदृढ़ हो गयी। अब आप हटाये नहीं जा सकते। उस समय अधोमुखी पद्दल पद्विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं। ऊर्ध्वमुखी होने पर यही षडैश्वर्य विवेक, वैराग्य, शम, दम, त्याग और तितिक्षा में परिणत हो जाते हैं। यही कमल का खिलना है।

साधन और भी उन्नत होने पर मणिपूरक चक्र आता है। यहाँ दसदल

कमल हैं— पाँच कमेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, जो पहले अधोमुखी थीं इष्टोन्मुखी हो जाती हैं। ये संयत हुई तहाँ मणिपूरक! महापुरुखों ने एक-एक शास्त्र को मणि की संज्ञा दी है। ‘तात भगति मणि उर वस जाके। दुख लवलेत न तपनेहु ताके॥’ यह भक्तिरूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, रंचमात्र भी दुःख उसके लिए सृष्टि में कही है ही नहीं। अष्टधा मूलप्रकृति अष्टसिद्धि के रूप में परिवर्तित हो गई। किसी-किसी ने यहाँ के कमल को आठ दलों वाला कहा है। सांसारिक कीचड़ से निर्लेप रहने के कारण योगी को कमलवत् कहा गया है।

साधना उत्तरोत्तर उन्नत होने पर अनाहत चक्र में प्रवेश मिलता है। यहाँ द्वादश कमल खिलता है। दस इन्द्रियाँ तो थीं ही, इसमें मन और वृद्धि, संकल्प और निश्चय की दो पंखुड़ियाँ और मिल गयी। द्वादश ठल कमल खिल गया। वह भगवान की विभूतियों को धारण करने वाला हो जाता है। वह प्रकृति के घोड़ों से आहत नहीं होता। वह अपने श्रेयपथ पर अग्रसर रहता है।

इस क्षमता के अनन्तर विशुद्ध चक्र पोड़ज पंखुड़ियों का है। यह स्वूल शरीर पाँच तत्त्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर का बना है। इसके अन्तराल में एक सूक्ष्म शरीर है जो मन का संसार है, वह सोलह तत्त्वों से बना है। दस इन्द्रिय, चतुष्प्य अन्तःकरण, तैजस और प्राज्ञ— इनमें ईश्वरीय आभा का प्रस्फुटन हो जाता है— कविरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर। पाढ़े लागे हरि फिरैं, कहत कवीर कवीर॥। सोलह तत्त्वों का यह सूक्ष्म शरीर जब विशुद्ध हो गया तहाँ आज्ञाचक्र! स्वामी और सेवक आमने-सामने हो जाते हैं यही इस चक्र के दो दल हैं। साधक को केवल आज्ञापालन करना है। उन्हीं के निर्देशन में चलते-चलते जब साधना और उन्नत हुई तो अन्तिम चक्र सहसार आता है। सहस्र का अर्थ अनन्त भी होता है। अनन्त प्रवृत्तियाँ जब इष्टोन्मुखी हो जायें, भगवान की आज्ञा में चलते-चलते एक भी प्रवृत्ति अधोमुखी नहीं रह गई, तहाँ ‘विश्वे अणुः स विष्णुः’—विश्व में जो अणुरूप से व्याप्त सज्जा है वह परमात्मा अपनी अनुभूति देने लगते हैं। अपनी विभूतियों से अवगत कराते हैं, साधन नहीं समझता तो काकभुसुण्ड की तरह, अर्जुन की तरह भगवान उसे विराट रूप का दर्शन कराते हैं। उसे जानकर साधक उसी भाव को प्राप्त हो गया। ‘जानत तुम्हहिं होइ जाई।’ जीव की संज्ञा समाप्त! परमात्मा उस तन को अपना ने... लेता है।

के हित के लिए भगवान उस नर का तन धारण कर लेते हैं। संकट सहन कर भी सन्तों को सुखी कर देते हैं।

सारांशतः हठ, कुण्डलिनी विभिन्न चक्रों की परिकल्पना साधक को अन्तर्मुखी करने का प्रयास है। अधिकांश सन्तों ने चक्र-भेदन की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि भक्ति से ये सभी अवस्थाएँ अपने आप सहज ही पार हो जाती हैं इसीलिए प्राचीन आर्षग्रन्थों में इनकी चर्चा तक नहीं है। मन के निरोध के साथ ही भगवान की स्थिति- महापुरुषों ने समय-समय पर यही समझाया है। सम्पूर्णतः तथा क्रमबद्ध जानने के लिए आपका शास्त्र गीता है। भगवान श्रीकृष्णोक्त गीता योगदर्शन है। इस गीता की परिभाषा ‘यथार्थ गीता’ आश्रम से प्रकाशित हुई है। अवलोकन से योग-सम्बन्धी, श्रेय-सम्बन्धी कोई भ्रान्ति आपको नहीं होगी।

॥ ॐ श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय ॥

## - हमारे प्रकाशन -

### पुस्तकें

यथार्थ गीता

• भारतीय भाषायें

• अन्तरराष्ट्रीय भाषायें

शंका समाधान

जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति हिन्दी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी।

अंग वर्यों फड़कते हैं ?

क्या कहते हैं ?

अनखुये प्रश्न

एकलव्य का अंगूठा

भजन किसका करें ?

योगशास्त्रीय प्राणायाम

षोडशोपचार पूजन पढ़ति

योगदर्शन

ऑडियो कैसेट्स

यथार्थ गीता

अमृतवाणी

(श्री स्वामीजी के मुखारचिन्द

से निःसृत अमृतवाणियों का

संकलन - चाल्यूम १ से ४९ तक ।)

गुरुघंदना (आरती)

ऑडियो सिडिज् (MP3)

यथार्थ गीता

अमृतवाणी

### भाषा

संस्कृत, हिन्दी, मराठी, पंजाबी, गुजराती,

उर्दू, उडिया, बंगला, तमिल, तेलगू,

मलयालम, कन्नड,

अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, नेपाली, रूपेनीश,

इटालियन, रुसी, चायनीज, नार्वाजियन, झेका

हिन्दी, मराठी, गुजराती ।

जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति हिन्दी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी ।

हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, जर्मन ।

हिन्दी, गुजराती, मराठी ।

हिन्दी, गुजराती, मराठी ।

हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला ।

हिन्दी, गुजराती, मराठी ।

हिन्दी, गुजराती, मराठी ।

हिन्दी

हिन्दी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी ।

हिन्दी ।

हिन्दी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, जर्मन ।

हिन्दी ।

© सर्वाधिकार - लेखक

(इस पुस्तक का कोई भी अंश-प्रकाशन, रिकार्डिंग, प्रतिलिपि प्रकाशन तथा संशोधन बिना लेखक की अनुमति के घर्जित है ।)



